

समर्पण

जिनके उपकार मुझे भुलाये नहीं भूलते,
उन परमश्रद्धेय एवं उदार-हृदय

गुरुचरण डा० सूर्यकान्तजी

(शास्त्री, एम० ए०, डी फिल (आक्सन्) डी० लिट् (पंजाब),
मयूरभंज प्रोफेसर, अध्येक्ष-संस्कृत-प्राकृत-पाली-विभाग
तथा प्रिंसिपल कालेज आफ इण्डालाजी)

की सेवा में

सादर सविनय

समर्पित

भारतीय-प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान

उद्देश्य

इस संस्था के उद्देश्य "भारतीय प्राचीन वाङ्मय का अन्वेषण, रक्षण और प्रसार" है।

कार्य-क्रम

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिष्ठान के कार्य क्रम को निम्न विभागों में बाटा है—

१-भारतीय प्राचीन वाङ्मय का अनुसन्धान।

२-भारतीय प्राचीन वाङ्मय के अनुसन्धान द्वारा विभिन्न विषयों पर मौलिक ग्रन्थो तथा निबन्धो का लेखन और प्रकाशन।

३-भारतीय वाङ्मय के विविध विभागों के इतिहास तथा भारत के प्राचीन इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थों का लेखन और प्रकाशन।

४-भारतीय प्राचीन वाङ्मय का शुद्ध सम्पादन तथा प्रकाशन।

५-भारतीय प्राचीन वाङ्मय का राष्ट्रभाषा (हिन्दी) में प्रामाणिक अनुवाद।

६-संस्कृत वाङ्मय तथा इतिहास सम्बन्धी गवेषणात्मक त्रैमासिक "पत्रिका" का प्रकाशन।

७-उपर्युक्त कार्य क्रम की पूर्ति के लिए "बृहत् पुस्तकालय" का निर्माण।

८-प्राचीन वाङ्मय की रक्षा और प्रसार के लिए 'साङ्गवेद-विद्यालय' का संचालन।

९-उद्देश्यों की पूर्ति करने हारे विशिष्ट साहित्य के प्रचार के लिए 'ध्रुव विभाग' का संचालन।

विशेष विवरण के लिए "प्रतिष्ठान की योजना, कार्य-क्रम तथा वृत्तवार्ध विवरण" पुस्तिका विना मूल्य मगवाइये।

संचालक—भारतीय-प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान

२४,२१२ रामगज
अजमेर

{ ४६४३ रेगपुरा, गली ४०
{ बगोत्रबाग, नई दिल्ली ५।

सम्पादकीय

प्राचीन संस्कृत वाङ्मय। का तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन करने वाले, विशेषकर संस्कृत व्याकरण शास्त्र में रुचि रखने वाले विद्वन्महानुभावों के सन्मुख अपने मित्र श्री ए० कपिलदेवजी साहित्याचार्य, एम० ए०, पीएच० डी० प्राध्यापक संस्कृत विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का "संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्य पाणिनि" नामक ग्रन्थ उपस्थित करते हुए मैं परम प्रसन्नता अनुभव करता हूँ।

हिन्दू विश्वविद्यालय काशी से संस्कृत में ससम्मान एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् मित्र महोदय ने पीएच० डी० के लिए संस्कृत व्याकरण से संबद्ध किसी विषय का निर्देश करने के लिए मुझ से कहा। मैंने अपने अनुभव के आधार पर पाणिनीय गणपाठ के शुद्ध संस्करण का सर्वथा अभाव देखते हुए "पाणिनीय गणपाठ का आदर्श संस्करण और समस्त गणपाठों का तुलनात्मक अध्ययन" विषय का निर्देश किया। मैं जानता था कि यह विषय अत्यन्त परिश्रमसाध्य है और इस विषय में वही व्यक्ति सफल हो सकता है, जिसे पाणिनीय व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होने के साथ साथ अन्य अनेक विषयों का परिज्ञान हो और उत्साही तथा धैर्यवान् हो। मेरे मित्र महोदय में ये सभी बातें सम्मिलित रूप से विद्यमान हैं। अतः वे अनेक विघ्नवाधाओं के, जो कि भारतवर्ष में साधारण परिस्थिति के अध्ययनार्थी के सन्मुख आती हैं और विशेषकर संस्कृतज्ञ के सन्मुख, उपस्थित होने पर भी धैर्यपूर्वक अपने कार्य में लगे रहे और उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करके हिन्दू विश्वविद्यालय काशी से पीएच० डी० की उपाधि प्राप्त की।

पीएच० डी० उपाधि के लिए उपस्थापित उक्त निबन्ध के तीन भाग हैं। प्रथम-गणपाठों का तुलनात्मक अध्ययन, दूसरा-गणपाठ का आदर्श संस्करण और तृतीय-पाणिनीय गणपाठ पर आलोचनात्मक टिप्पण। इस निबन्ध का प्रथम और तृतीय भाग मूलतः अग्नेजी भाषा

में लिखे गए थे, क्योंकि उस समय तक हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में पीएच० डी० के लिए संस्कृत अथवा राष्ट्रभाषा हिन्दी में लिखे नियन्ध स्वीकृत नहीं होते थे। प्रस्तुत पुस्तक यद्यपि उक्त नियन्ध के प्रथम भाग का ही हिन्दी रूपान्तर है, तथापि यह भाग इस रूप से लिखा गया है कि यह अपने रूप में स्वतन्त्र ग्रन्थ धन गया है। इसलिए मैं पहले इस भाग को प्रकाशित कर रहा हूँ, नियन्ध के शेष भाग भी यथासम्भव शीघ्र प्रकाशित होंगे।

वर्तमान युग में संस्कृत वाङ्मय के तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन का आरम्भ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हुआ है। उन के वाङ्मय में संस्कृत वाङ्मय के समान दृष्ट-दृशत प्रोक्त कृत ये भेद नहीं हैं। इसलिए वे इन विभागों से विशेषकर प्रोक्त और कृत वाङ्मय के भेद से अनभिज्ञ हैं। इस अनभिज्ञता के कारण उन्होंने प्रोक्त ग्रन्थों के विषय में तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन के आधार पर जो परिणाम प्रस्तुत किए, वे प्रायः न केवल सत्य से दूर ही हैं, अपितु कई अंशों में तथ्य से सर्वथा विपरीत भी हैं। यद्यपि प्रा० कपिलदेवजी ने पीएच० डी० के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले इस नियन्ध में पाश्चात्य अध्ययन-परिपाटी को ही अपनाया है, तथापि उन्होंने संस्कृत वाङ्मय के प्रोक्त तथा कृत भेदों में भले प्रकार विश्व होने के कारण अनेक स्थानों पर पूर्व प्रमरित अध्याय लिखित भ्रान्त धारणाओं का निराकरण किया है। इस दृष्टि से यह ग्रन्थ अधिक उपयोगी बन गया है।

मैंने इस ग्रन्थ का सम्पादन तथा संशोधन करते समय लेखक के भावों की पूर्ण रक्षा करने का प्रयत्न किया है। अनेक म्यलों पर मैं अपनी टिप्पणियों परिशिष्ट रूप में देना चाहता था, जिनसे पाठक महानुभावों को उन उन म्यलों पर मेरे विचार भी ज्ञात हो जाएं। परन्तु प्राग्भिक चार फार्मों में नीचे पन्तु विषयक संकेत करके भी शरीर की अन्वयता और कार्याधिक्य के कारण इस ग्रन्थ में न दे सका।

यह ग्रन्थ आश्विन मास तक प्रकाशित हो जाता, किन्तु उसी काल में मेरे अन्यधिक रोग हो जाने तथा घृण की शल्यचिकित्सा करने के कारण ३-४ मास विलम्ब से प्रकाशित हो रहा है।

मेरा 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ का द्वितीय भाग, जो कई कारणों से अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ था, सम्प्रति छप रहा है।' उसके 'शृणुपाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता' अध्याय के संशोधन में इस ग्रन्थ से पर्याप्त सहायता ली है। इसलिए यद्यपि दोनों ग्रन्थों में अनेक विषयों में समानता उपलब्ध होने पर भी दृष्टिभेद के कारण बहुत स्थानों पर वैमत्य दृष्टिगोचर होगा।

प्राचीन संस्कृत वाङ्मय के उद्धार, अध्ययन तथा प्रसार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए पाणिनि आदि के काल तथा कतिपय अन्य मतभेद होने पर भी मैं इस ग्रन्थ को यथाशक्ति सम्पादित करके प्रकाशित कर रहा हूँ।

वादे वादे जायते तत्रबोधः शास्त्रकारों की इस उक्ति के अनुसार मित्र महोदय के अत्यन्त धैर्य, दृढ़ अध्ययन तथा विद्वत्ता से किए गए इस अनुसन्धान कार्य से गवेषण कार्य में रत महानुभावों को निश्चय ही लाभ होगा और भविष्य में इस क्षेत्र में कार्य करने वालों को न केवल विचार विनियम के लिए इससे नई सामग्री प्राप्त होगी, अपितु उनके लिए यह ग्रन्थ प्रकाश-स्तम्भ के समान परम उपयोगी सिद्ध होगा।

भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान }
२४/२१२ रामगज, अजमेर }

विदुषा वशवद —
युधिष्ठिर मीमांसक

लेखक का आत्मनिवेदन

लोकोत्तर महापुरुषो तथा महान् मनोपियो के इम भारत देश मे न्यूनातिन्यून ढाई सहस्र वर्ष पूर्व परम-ओजस्विनी प्रतिभा से समन्वित शब्द शास्त्र के एक महान् आचार्य का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम था पाणिनि । इम प्रमाणभूत महान् ऋषि ने अपने से पूर्व विद्यमान लौकिक तथा वैदिक संस्कृत की दृष्टि से लिखे गये वाशकृत्स्न, भागुरि, आपिशलि आदि अनेक आचार्यों के विभिन्न व्याकरणों से पूरी सहायता लेते हुए भी उन्हें अपनी सक्षिप्तता, व्यापकता तथा सुविहितता से अतिक्रान्त कर जाने वाले, आदर्श सूत्र-शैली मे निबद्ध एक ऐसे व्याकरण शास्त्र की रचना की जो अद्ययावत् संस्कृत वाङ्मय के सम्पूर्ण प्रदेशों को अपनी सूत्र रश्मियों से सर्वथा सुप्रकाशित करता हुआ तथा उत्तरवर्ती चन्द्रगोपी, दयनन्दी (जैनेन्द्र) पाल्यकीर्ति (जैन शाकटायन) हेमचन्द्र तथा भोज आदि के अनेक व्याकरणों को अपनी आभा के मुक्तदान से साकार बनाता हुआ, महान् प्रकाश-स्तम्भ का कार्य कर रहा है ।

इम व्याकरण का लोकप्रसिद्ध नाम है अष्टाध्यायी । यह अपने निर्मिति-काल से ही इस विषय के विशिष्ट विद्वानों को निरन्तर अपनी ओर आकृष्ट करती रही और तब तक करती रहेगी, जब तक संस्कृत भाषा का किसी न किसी रूप मे इम धरातल पर अस्तित्व पाया जा सकेगा । अपने इस कथन की पुष्टि मे मैं उन अनेक वृत्तिकारों, वार्तिककारों, भाष्यकारों, टीकाकारों, व्याख्याताओं तथा लेखकों को साक्षी के रूप मे प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिन्होंने यथावसर अपनी अमूल्य सेवाये उस महान् आचार्य के पवित्र चरणों मे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से अर्पित करके अपने को कृतार्थ माना है । इनमे मूर्धन्य है कात्यायन तथा पतञ्जलि ।

किसी भी व्याकरण के लिये यह आवश्यक है कि वह जिस भाषा का हो, उसके सामान्य गठन एवं परिष्कार के लिये विभिन्न नियमों तथा उपनियमों की कल्पना को तो उस व्याकरण मे आकार दिया ही जाए, साथ

ही उम भाषा के यथा-सम्भव सभी शब्दों की सुनिष्पन्नता की दृष्टि से भी प्रकृति प्रत्यय की वैज्ञानिक स्वाभाविक एवं सुव्यवस्थित निर्धारणा को भी सुप्रतिष्ठित किया जाए, जिससे यदि एक ओर सम्पूर्ण शब्दों के विभिन्न अर्थों का परिज्ञान अल्पप्रयास से हो जाए तो दूसरी ओर शब्दों को अपभ्रष्टता के सम्पर्क से दूर रखा जा सके। 'येन श्रल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन्', 'श्लेच्छा मा भूम' इन वाक्यों द्वारा महाभाष्यकार पतञ्जलि ने व्याकरण के इन्हीं प्रधान प्रयोजनों की ओर सकेत किया है। जिस प्रकार सक्त की परिष्कृति के लिये सक्तशोधक उसे सहस्र छिद्रों से युक्त चालनी से शोधता है, ठीक उसी प्रकार वैयाकरण भी सहस्रों प्रकृति प्रत्यय-निर्धारक नियमों की चालनी से स्वसम्बद्ध भाषा को उसकी परिष्कृति के लिये छानना चाहता है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि पाणिनि की परम ओजस्विनी अष्टाध्यायी में विनाल मस्कृत वाङ्मय के यथासम्भव सभी शब्दों के प्रकृति-प्रत्यय के निर्धारण वा परिगणन का निश्चित ही बड़ा व्यापक, परन्तु सक्षिप्त एवं वैज्ञानिक प्रयत्न किया गया है। इनमें प्रत्ययों का प्रदर्शन तो सामान्य तथा विशेष अथवा उत्तम और अपवाद सूत्रों का साहाय्य लेकर थोड़े सूत्रों द्वारा हो गया है। परन्तु अनेकविध एवं सहस्रों प्रकृतियों के परिगणन के लिये पाणिनि ने धातु-प्रकृतियों की दृष्टि से धातुपाठ तथा नाम अथवा प्रातिपदिक प्रकृतियों की दृष्टि से प्रातिपदिकपाठ अथवा गणपाठ वा सूत्रपाठ से पृथक् निर्धारण किया। क्योंकि अष्टाध्यायी के सूत्रों की सक्षिप्तता को देखने हुए उनमें इन धातु तथा नाम रूपों सभी प्रकृतियों का प्रदर्शन सम्भव अथवा उचित नहीं था।

यों तो पाणिनि से पूर्व भी धातुपाठ तथा गणपाठ का निर्धारण अथवा दूसरे शब्दों में गणशैली का उद्भव हो चुका था, इसके अनेक प्रमाण पाठों को अग्रे पृष्ठों में मिलेंगे परन्तु पाणिनि के धातुपाठ तथा गणपाठ का अपना एक विविध महत्त्व है जिसे प्रायः सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं। इसलिये पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रपाठ के समान ही उसने अभिन्न अर्थात् धातुपाठ तथा गणपाठ का अध्ययन भी मस्कृत व्याकरण के जिज्ञासुओं के लिये महान् उत्साह है। इस बात को यदि और अधिक स्पष्टता के साथ कहा

जाए तो यो कहा जा सकता है कि अष्टाध्यायी के अनेकानेक सूत्र इन धातु-पाठ तथा गणपाठ से इतने अधिक सुसम्बद्ध हैं कि इनके सम्यग् अध्ययन एवं परिज्ञान के बिना अष्टाध्यायी की व्याख्या ही नहीं सकती और यदि की भी जाए तो वह अपूर्ण रहेगी। इसलिये इस रूप में धातुपाठ तथा गणपाठ संस्कृत व्याकरण की आधार शिला होने के कारण, विविष्ट महत्त्व रखते ही हैं, परन्तु व्याकरण के क्षेत्र से बाहर भी इन दोनों की जो वृत्त कुछ उपादेयता एवं महत्ता हैं, उसकी उोक्षा नहीं की जाती।

जहाँ तक धातुपाठ का सम्बन्ध है यह मन्तोप का विषय है कि विद्वानो ने उसकी ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। इसके फलस्वरूप धातुप्रदीप, धातु वृत्ति तथा क्षीरतरङ्गिणी सदृश पाणिनीय धातुपाठ से सम्बन्ध प्रामाणिक व्याख्याग्रन्थ आज भी उपलब्ध एवं सुप्रसिद्ध हैं। परन्तु गणपाठ सम्भवतः सदा से ही विद्वानो एवं व्याख्याताओ तथा टीकाकारो की उोक्षा का पात्र रहा है।

यह सत्य है कि पाणिनीय गणपाठ की दो एक व्याख्याये अवश्य लिखी गई थी (जिनकी चर्चा आगे की जायगी) पर आज उनका केवल नाम मात्र ही, और वह भी कहीं कहीं उद्धरणो के रूप में ही गेय रह गया है। पाणिनीय व्याकरण-सम्प्रदाय के क्षेत्र से बाहर, किमी अज्ञात व्याकरण से सम्बद्ध, वर्धमान की गणरत्नमहोदयि अवश्य एक ऐसी व्याख्या वा वृत्ति है, जिसे देखकर महती प्रसन्नता होती है। तथा इससे गणपाठ की स्थिति चाहे वह किसी भी व्याकरण से सम्बद्ध क्यों न हो मर्यादित, सुसंयमित एवं सुस्पष्ट रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है। परन्तु पाणिनीय सम्प्रदाय की दृष्टि में गणपाठ के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता की पूर्ति इस ग्रन्थ से नहीं हो पाती।

सम्भवतः वर्धमान की गणरत्नमहोदयि के आधार पर ही गत शताब्दी में भट्ट यज्ञेश्वर नामक किमी विद्वान् ने पाणिनीय गणपाठ की गणरत्नावली नामक व्याख्या लिखी। परन्तु यह व्याख्या भी इतनी सक्षिप्त एवं अस्पष्ट सी है कि साम्प्रतिक विद्वानो की दृष्टि से सर्वथा उपेक्षित एवं ओझल हो कर नगण्यता की श्रेणी में आ चुकी है।

गणपाठ के साथ की गई इस उोक्षा का कारण यह प्रतीत होता है कि इन टीकाकारो की दृष्टि में, गणपाठ की उोक्षा धातुपाठ का महत्त्व

अधिक रहा। परन्तु केवल व्याकरण दृष्टि गणपाठ की अपेक्षा धातुपाठ का अधिक महत्त्व स्वीकार करने हुए भी गणपाठ का महत्त्व किसी प्रकार भी कम नहीं आका जा सकता। पाणिनीय अष्टाध्यायी तथा संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से इसका जो महत्त्व है, वह तो है ही, परन्तु उसके अतिरिक्त प्राचीन भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं भौगोलिक अध्ययनों में भी इससे विविध उपयोगी सहायता एवं सकेत प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राचीन भारती के गरभीर अन्वेषक एवं सतत अध्यवसायी उपासक डा० वासुदेवशरण अग्रवाल की प्रतिष्ठित पुस्तक 'इण्डिया एज नोन टु पाणिनि' को इस तथ्य के स्पष्ट उद्घोषक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही गोत्रनामों की मूल प्रकृतियों से अपत्यार्थ तद्धित प्रत्ययों का विधान करता हुआ पाणिनीय गणपाठ गोत्रनामों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करता है जो बहुत कुछ श्रौतसूत्रों के प्रवराध्यायों की सूचियों से मिलती जुलती है। इसलिए सम्प्रति उपलब्ध गणपाठों में सबसे प्राचीन पाणिनि के इस गणपाठ की ओर से आखे बन्द नहीं की जा सकती।

इतना होने पर भी दुर्भाग्य की बात है कि इस गणपाठ के सर्थ की गई अपेक्षा के परिणाम स्वरूप आज वह विभिन्न पाठभेदों तथा भ्रष्टपाठों से परिपूर्ण एव ऐसा रद्दी का टोकरा बन गया है, जिसके बहुत से अश वैयाकरणों की ममज्ञ से भी परे की वस्तु बन गये हैं। पाणिनीय गणपाठ के दो तीन विभिन्न संस्करणों की आपस में अथवा इनकी पाणिनि से इतर अर्वाचिन वैयाकरण सम्प्रदायों से सम्बद्ध गणपाठों की पारस्परिक तुलना करने पर पाठभेदों की जो भयंकर स्थिति सन्मुख उगस्थित होती है, उसे देखकर हृदय कम्पित हो उठता है। इसमें अनावश्यक शब्दों का अमर्यादित सन्निवेश तथा गणपूत्रों की भयंकर उलझने पाठभेदों तथा अभ्रष्ट पाठों के साथ मिलकर गणपाठ के अनेक स्थलों के स्वरूप के विषय में सन्देह उत्पन्न करने लगते हैं। वैसे तो संस्कृत भाषा का कोई भी प्राचीन ग्रन्थ, विशेषतः इस प्रकार का, पाठभेदों के दोष से बचा नहीं है, परन्तु पाणिनीय गणपाठ इस दृष्टि से सत्रमे आगे है। इमत्रिये इमकी तथाविध महत्ता, एवं साथ ही इस प्रकार की दयनीय स्थिति को देखने हुए इमने विशुद्ध सम्पादन एवं तत्सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं के विषय में त्रिस्तृत अनुसन्धान की प्राथमिक आवश्यकता स्वीकार करनी ही पड़ती है।

सन् १८४० में ओटो बोथलिक महोदय ने पाणिनि के सूत्रपाठ तथा धातुपाठ के साथ गणपाठ का भी एक अपेक्षाकृत अच्छा संस्करण निकाला था। इसके लिये वे निश्चय ही धन्यवाद के पात्र हैं, परन्तु इस संस्करण को ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि वह भट्ट यज्ञेश्वर की गणरत्नावली तथा पाणिनीय गणपाठ के दो एक हस्तलेखों के आधार पर ही आश्रित है। इसलिये इसे भी विशेष प्रामाणिकता नहीं दी सकती। इसके अतिरिक्त केवल मूल पाठ के प्रकाशित कर देने से ही आपेक्षिक कार्य की पूर्ति नहीं हो जाती।

वस्तुतः गणपाठ को अपने विशुद्ध रूप में प्रस्तुत करने अथवा उसके स्वरूप को सर्वथा सुस्पष्ट करने के लिये तीन प्रकार के कार्य परम आवश्यक हैं। प्रथम—गणपाठ के प्रत्येक शब्द का निश्चितीकरण, पाठभेदों की बटुलता में आश्रित शब्द का चयन और इस रूप में पाणिनीय-गणपाठ का पुनर्गठन (Reconstruction)। द्वितीय—गणपाठ के सभी शब्दों का अर्थ परिज्ञान (Interpretation) तथा तीसरा—इसमें संगृहीत ऐतिहासिक, भौगोलिक, साहित्यिक अथवा इसी प्रकार के अन्य वैयक्तिक नामों की ठीक ठीक पहचान (Identification)। वैसे तो ये तीनों ही कार्य थोड़ा बहुत एक दूसरे कार्य पर आश्रित हैं। फिर भी सशोभन वा पुनर्गठन रूपी प्रथम कार्य निश्चित ही प्राथमिक महत्त्व रखता है। इसके यथासाध्य पूर्ण हो जाने पर ही अन्य दोनों कार्य भले प्रकार किये जा सकते हैं।

मैंने अभी तक गणपाठ के केवल सामान्य सशोभन तक ही अपने अध्ययन को सीमित रखा है। इसके दो कारण हैं—एक तो इसकी प्राथमिक आवश्यकता, दूसरे अन्य दोनों कार्यों की बहुत अधिक समय-सापेक्षता। सम्माननीय डा० रघुवीर, अध्यक्ष "सरस्वती विहार" देहली ने गणपाठ के कठिन शब्दों के अर्थ निश्चय का कार्य करने के लिये बड़े सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में प्रेरणा की थी, जिससे प्रेरित होकर इस दिशा में मैंने कुछ प्रयास किया भी। परन्तु कुछ कार्य करने पर सबसे बड़ी कठिनाई जो सामने आई, वह थी कि गणपाठ के अज्ञातार्थक शब्दों में ऐसे शब्दों की बहुत अधिक संख्या, जिनके विषय में कहीं से कोई सहायता अथवा सकेत मिलने की आशा नहीं थी। इसलिये इस कार्य को कुछ काल के लिए स्थगित कर देना पड़ा, परन्तु इसे करने की इच्छा अवश्य है।

जहाँ तक तीसरे कार्य का सम्बन्ध है, उस विषय में मैं प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र के किसी अन्वेषक साथी से आशा करूँगा कि वह इस कार्य को अपने हाथ में ले। इस विषय में कार्य करने की दिशा तथा पद्धति के पर्याप्त सकेत श्री डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने अपने पूर्वनिर्दिष्ट पुस्तक में दिए हैं, उनके सहारे पर्याप्त आगे बढ़ा जा सकता है।

पाणिनीय गणपाठ के संशोधन एवं सम्पादन का यह कार्य मैंने Ph. D. की उपाधि की दृष्टि से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में आरम्भ किया था। इस निबन्ध को मैंने जिस रूप में प्रस्तुत किया था, वह तीन भागों में विभक्त था—भूमिकाभाग, ग्रन्थभाग, (पाणिनि का गणपाठ) तथा आलोचना भाग अथवा आलोचनात्मक टिप्पणी।

प्रथम भाग में मैंने यथासाध्य यह प्रयास किया है कि पाणिनीय गणपाठ सम्बन्धी विभिन्न विषयों एवं समस्याओं पर अपने विचार विस्तार से प्रस्तुत करूँ। जिन विषयों पर विचार प्रस्तुत किया जा सका है उनमें प्रमुख हैं—संस्कृत व्याकरण की सूत्रशैली में गणपाठ की आवश्यकता, पाणिनि से पूर्व के गणकार, पाणिनि के गणपाठ का स्वरूप तथा उसकी विभिन्न समस्याएँ, पाणिनि से अर्वाचीन व्याकरणों के गणपाठों का पाणिनीय गणपाठ से सम्बन्ध, पाणिनीय गणपाठ का महत्त्व तथा उसके संशोधन का सम्भव प्रकार।

द्वितीय भाग मूल ग्रन्थभाग है। इसमें पाणिनीय गणपाठ को यथा सम्भव शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस भाग का प्रत्येक पृष्ठ सामान्यतया तीन श्रंशों में विभक्त है।

प्रथम—सत्र से ऊपर के श्रंश में पाणिनीय सम्प्रदाय की दृष्टि से प्रत्येक गण को प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रायः उन्ही शब्दों को स्थान दिया गया है जो पाणिनीय गणपाठ में विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध होते हैं अथवा किसी अन्य प्रमाण के आधार पर पाणिनीय प्रमाणित हो जाते हैं।

दूसरे भाग में प्रायः प्रत्येक गण के अन्त में 'परिशिष्टम्' शीर्षक में मैं उन सभी शब्दों का संग्रह का प्रयास किया है, जो पाणिनीय सम्प्रदाय के अन्त में कुछ स्रोतों में अथवा केवल अर्वाचीन सम्प्रदाय के गणपाठ सम्बन्धी स्रोतों में ही उपलब्ध होते हैं, जिन्हें यहाँ पाणिनीय गणपाठ में स्थान नहीं दिया है। इन शब्दों के पर नीचे पृष्ठ नोट में दे दिये गये हैं।

द्वितीय (मध्य का) अंश 'पाठभेदा.' का है। इस अंश में पहले यह दिखाया गया है कि पाणिनि के, ऊपर के प्रथम अंश में निर्दिष्ट वे वे गण स्वयं पाणिनि सम्प्रदाय के विभिन्न प्रमुख स्रोतों में तथा अपाणिनीय अथवा पाणिनि में अर्वाचीन विविध व्याकरण-सम्प्रदायों में कहीं कहीं मिलते हैं। इन सबके अध्याय आदि के अनुसार पते दिये गये हैं। तदनन्तर इन सभी स्रोतों में मिलने वाले आवश्यक एवं उपादेय पाठभेदों का संग्रह किया गया है।

तीसरे (सबसे नीचे के) अंश में 'विशिष्टं किञ्चित्' के शीर्षक से जिम किमी भी शब्द के विषय में कोई महत्त्वपूर्ण विवाद, उद्धरण, विशेष प्रयोग अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई उपादेय सामग्री मिल सकी उन सब का चयन इस दृष्टि से किया गया है कि उन सबके प्रकाश में उन शब्दों की स्थिति के विषय में कुछ प्रकाश प्राप्त किया जा सके।

यहाँ मैं इतना और निवेदन करूँ कि गणसूत्रों को तथा अन्य अनेक शब्दों के पाठों को विभिन्न प्रमाणों के आधार पर यद्यपि मैं पाणिनीय नहीं मानता, फिर भी पाणिनीय गणपाठ के ग्रन्थ भाग में उन्हें इमलिये स्थान देने के लिये वाध्य हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा अकाट्य प्रमाण नहीं है कि मैं इदमित्थतया सुनिश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ यह कह सकूँ कि ये गण सूत्र अथवा ये शब्द कथमपि पाणिनि-प्रोक्त अथवा तन्निर्धारित नहीं हैं। वस्तुतः ऐसे प्रमाणों में इम प्रकार के सर्वथा निश्चयक प्रमाण प्रायः उपलब्ध भी नहीं होने। वैसे पूरी सम्भावना इम बात की ही है कि ये पाणिनीय नहीं हैं। मैं केवल इतना ही आवश्यक समझता हूँ कि अपने विचार विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत कर दूँ। केवल अपने विचारों के अनुसार, भले ही वे सप्रमाण भी क्यों न हों, पाणिनीय गणपाठ में परिवर्तन करने अथवा उसके किसी अंश को घटाने बढ़ाने को मैं उचित नहीं समझता। विशेषतः उस अवस्था में, जब कि ये गणसूत्र सभी पाणिनीय स्रोतों में उपलब्ध होने चले आ रहे हैं।

तीसरे भाग—आलोचनात्मक टिप्पणी में पाणिनीय गणपाठ के कुछ विशिष्ट शब्दों तथा गणों के स्वरूप के विषय में प्रामाणिक आचार्यों तथा विद्वानों के उपलब्ध विचारों विवादों, उद्धरणों अथवा प्रयोगों के आधार

पर कुछ विचार प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें उन उन स्थलों की वास्तविक स्थिति तथा स्वरूप आदि के परिज्ञान विषय में अपना निर्णय दिया है।

ऊपर के तीन भागों में से केवल यह प्रथम-भूमिका-भाग 'संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्य पाणिनि' इस नाम से प्रकाशित होकर आपके समक्ष है। शेष दो भाग अभी प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं। परन्तु उनके प्रकाशन में भी बहुत देर नहीं लगेगी, ऐसी आशा है।

पुस्तक के विषय में इतना निवेदन करने के पश्चात् मैं अपना यह धुनीत कर्तव्य समझता हूँ कि उन पूज्य हितैषियों तथा आत्मीय गुरुचरणों के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा निवेदन करूँ, जिनकी कृपा, अनुकम्पा और आशी के बल से ही मैं इस योग्य हुआ कि इस विषय पर कुछ लिख सकूँ।

इस प्रसंग में सर्वप्रथम मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता सन्तहृदय श्री सन्तबली जी आर्य के पावन चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहता हूँ जिनकी सन्निधाओं, सत्प्रेरणाओं, शुभकामनाओं, तथा आशीर्वाद ततियों ने मुझे संस्कृताध्ययन में लगाया तथा इस योग्य बनाया।

परम श्रेष्ठ गुरुवर श्री प० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु, अध्यक्ष पाणिनि महा-विद्यालय, मोतीझील, वाराणसी, के धुनीत चरणों में हृदय की पूरी विनम्रता के साथ मैं श्रद्धानत हूँ, जिन्होंने अपने पहले के आश्रम-विरजानन्द सागवेद विद्यालय, शाहदग, लाहौर—में वर्षों रखकर संस्कृत व्याकरण के मौलिक ग्रन्थों के अध्ययन के लिये मुझे बौद्धिक आँखें दी तथा मेरी हर प्रकार से सहायता की।

परम सम्मान्य गुरुचरण डा० सूर्यकान्तजी शास्त्री, एम० ए०, डी० फिन् (आक्सन), डी० लिट् (पजाव) मयूरभंज प्रोफेसर, अध्यक्ष-संस्कृत प्राकृत, पाली विभाग तथा प्रिंसिपल कालेज आफ इण्डालाजी के अनेकानेक उपकारों को मैं विनीत श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूँ तथा उनके प्रति मैं सर्वात्मता नत हूँ, जिन्होंने आलोचना के आज के नवीन दृष्टिकोण से मुझे परिचित कराया।

संस्कृत वाङ्मय के प्रतिष्ठित उपासक तथा अपने श्रेष्ठ गुरु श्री प० बलदेव उपाध्याय का मैं परम वृत्त हूँ, जिनके सफल निर्देशन में यह निग्न्य पी एच० डी० की थीसिस के रूप में सम्पन्नता की स्थिति को प्राप्त कर सका।

समादरणीय श्रीमान् डा० राजवली पाण्डे एम ए. डी लिट् भूत-पूर्व अध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा प्रिंसिपल कालेज आफ इण्डालाजी के प्रति मे विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने इस विषय के अध्ययन में पुस्तकों की यथेच्छ सहायता तथा अन्य सुविधायें प्रदान कर मुझे मदा अनुगृहीत किया।

परन्तु जहां तक इस पुस्तक का सम्बन्ध है, मैं सर्वांगिण ऋणी तथा आभारी हूँ अपने पूज्य गुरुचरण तथा प्राचीन भारती के गम्भीर एवं यशस्वी उपामक श्री पं० युधिष्ठिरजी भीमासक, अध्यक्ष-अनुसन्धान विभाग महर्षि दयानन्द स्मारक, टङ्कारा (सौराष्ट्र) मस्थापक भारतीय प्रच्यविद्या प्रतिष्ठान अजमेर, का, जिन्होंने, सर्वप्रथम अनुसन्धान के नियम पाणिनीय गणपाठ की ओर न केवल मेरा ध्यान आकृष्ट किया अपितु निरन्तर मुझे इस कार्य को पूर्ण करने के लिये प्रेरित करते रहे समय समय पर उपयोगी निर्देशन तथा पत्रप्रदर्शन द्वारा मेरी कठिनाइयों को दूर करते रहे, तथा अन्त में थोमिस के पूर्ण हो जाने पर उनके सम्पादन तथा प्रकाशन का पूरा भार अपने ऊपर लिया और असाधारणतया अस्वस्थ होने हुए भी अपने विशेष अध्ययन एवं परिश्रम से इस पुस्तक का प्रकाशन को पूरा किया, जिसका परिणाम पाठकों के समक्ष है।

पूज्य पण्डितजी ने पुस्तक का सम्पादन करते हुए कुछ स्थलों पर मेरे विचारों से असहमति दिखाई है। अनुसन्धान मार्ग में विरोध इस तरह के विषयों में असहमति का होना अस्वाभाविक न होकर सर्वथा स्वाभाविक ही है। परन्तु मैं पण्डितजी का विशेष कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इन असहमतियों के होने हुए भी उदारता पूर्वक अपने प्रतिष्ठान से न केवल इस पुस्तक को प्रकाशित ही किया, अपितु इसको सर्वथा अपनी पुस्तक समझने हुए इसकी स्वल्प निम्पति में अपनी सम्पादन कुशलता का भी प्रयोग दिया।

सम्माननीय पण्डितजी के विषय में मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी प्रतिभा एवं शास्त्र-व्युत्पत्ति की पूजा के साथ विभिन्न सांसारिक मधुपर्तों तथा अपनी शारीरिक अस्वस्थताओं में सतत जूझते हुए प्राचीन संस्कृत भारती की अनेक जटिल गुत्थियाँ का उद्धारण, अन्वेषण

एवं अनुसन्धान मे मीमांसकी जितना, जो कुछ कर रहे हैं तथा जिस तन्मयता सूक्ष्मदर्शिता और निष्ठा के साथ निरन्तर कार्यरत है, उसका पूरा पूरा सत्परिणाम, केवल सुविधाओं एवं साधनों के अभाव के कारण, भले ही विद्वानों के समक्ष न आसके, परन्तु उनके आत्मीयजन उन सबसे भली भाँति परिचित हैं। विश्वविद्यालयों के इस क्षेत्र मे अन्वेषण-कार्य जिस स्थिति के साथ गति कर रहा है उसे गतिमान ओजस्वी एवं प्रौढ बनाने के लिये पण्डितजी जैसे शास्त्रज्ञों तथा प्राचीन-पाण्डित्य-परम्परा के कुछ वचने एवं प्रतिनिधियों का सहयोग परम उपादेय एवं हितावह हो सकता है, जिससे आज का विश्वविद्यालयीय वातावरण केवल इमलिये सर्वथा अड़ता है कि इनके पास विश्वविद्यालयों के कागजी प्रमाणपत्र नहीं है। निश्चित ही इस स्थिति को आज के अनुसन्धान मार्ग का दुर्भाग्य कहा जा सकता है।

वृत्तज्ञता के इस प्रसंग मे अपने परम स्नेही मित्र श्री जगदीश-नागायण निवारी एम ए प्राध्यापक प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस को भी विशेष रूप से याद करता हूँ जिन्होंने थीसिस आदि लिखते समय मुझे तद्विषयक अनेक उपयोगी मन्मत्तियाँ दी तथा विविध रूपों मे मेरी सहायता की।

कुरुक्षेत्र
२२ सितम्बर १९६१

विद्वानों का परम विनीत
कपिलदेव

कतिपय सांकेतिक-शब्द

अ० प्रा० या अथर्व प्राति०	अथर्व प्रातिशाह्य
अम०	अमरकोष
ऋक्प्रा०	ऋग्प्रग्निसाह्य
का०	काशि
कात०	कातन्त्र व्याकरण
का० छ० प्र०	कातन्त्र छन्द प्रक्रिया
चन्द्र०	चन्द्रगोमी
चा० वृ०	चान्द्र वृत्ति
चा० सू०	चान्द्र-व्याकरण सूत्र
जै०	जैनेन्द्र-व्याकरण
तै० प्रा०	तैत्तिरीय प्रातिशाह्य
धा० वृ०	धातुवृत्ति
प० म०	पदमञ्जरी
परि०	परिभाषेन्दु खर
पा०	पाणिनीय-अष्टाध्यायी
प्रा० सू०	प्राकृतसूत्र
भो०	भोज-सरस्वतीकण्ठाभरण
महा०	महाभाष्य
महा० नवा०	महाभाष्य नवाह्निक
मु० वो०	मुखबोध-व्याकरण
मौ० ग०	मोगलान-गणपाठ
लघु०	लघुशब्दन्दुशेखर
वा० प्रा०	वाजसनेय प्रातिशाह्य
व्या० सि० सु० नि०	व्याकरण सिद्धान्त मुधा निधि
श० कौ०	शब्दकौस्तुभ
शा० अ०	शाकटायन व्याकरण-अमोधावृत्ति

शाकटायन	शाकटायन व्याकरण
सं० व्या० शास्त्र का इतिहास	संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास
सारस्वत०	सारस्वत व्याकरण
सि० च०	सिद्धान्त चन्द्रिका
स्व० सि० च०	स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका
है० या हेम	हैम-व्याकरण
है० वृ०	हैम-व्याकरण-चूहद्वृत्ति

विषय-सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१.	संस्कृत-व्याकरण शास्त्र तथा गणशैली	१-१४
	संस्कृत-व्याकरण-शास्त्र का प्रयोजन	१-३
	संस्कृत-व्याकरण में सूत्र-शैली	३-४
	सूत्रशैली का स्वरूप	४-६
	सूत्रशैली की परम्परा	७-१०
	सूत्रशैली में गणपाठ और धातुपाठ का स्थान	१०-११
	गणपाठ का अभिप्राय	११-१२
	गणशैली का आरम्भ	१२-१४
२.	पाणिनि से प्राचीन वैयाकरण और उनके गणपाठ	१५-३६
	ऐन्द्र व्याकरण तथा गणशैली	१६-१७
	वैदिक प्रतिशास्त्रियों की पाणिनि से प्राचीनता	१७
	ऋक्-वाजसनेय-तैत्तिरीय-प्रातिशास्त्रियों में गणशैली	१७-१६
	ऋक्तेन्द्र तथा गणशैली	१६-२१
	अथर्व प्रातिशास्त्र तथा गणशैली	२१-२३
	भारद्वाज शिक्षा तथा गणशैली	२३
	भागुरि तथा गणशैली	२३-२४
	काशकृत्स्न तथा गणशैली	२५
	आपिशलि तथा उनका गणपाठ	२५-२६
	उणादिसूत्र तथा गणशैली	२७-२८
	फिट्सूत्र तथा गणशैली	२८-२९
	अष्टाध्यायी से प्राप्त संकेत	२६-३०
	पाणिनीय गणपाठ से प्राप्त संकेत	३०-३६
	कात्यायन तथा पतञ्जलि के संकेत	३६-३७
	चारुवर्मण का सर्वादिगण	३७-३८
	वर्धमान के संकेत	३८-३६

अध्याय	विषय	पृष्ठ
३.	आचार्य पाणिनि और उनका गणपाठ	४०-१०५
	पाणिनि का समय	४०-४१
	पाणिनि की सूत्रशैली	४१-४२
	सूत्र-रचना के पूर्व ही गणपाठ का निर्धारण	४२
	सूत्रों का साक्ष्य	४२-४६
	वार्तिकों का साक्ष्य	४६-४७
	महाभाष्य का साक्ष्य	४७-४८
	न्यासकार के आक्षेप	४८-४९
	न्यासकार के आक्षेपों का समाधान	४९-५२
	न्यासकार का बदतोव्याच्यत	५२-५३
	आई० एस० पावते की हेय कल्पना	५३
	गणनिर्धारण में प्राचीन गणकारों की अनुकृति	५४-५६
	गणों के दो प्रकार	५६-५७
	आकृतिगण	५७-५८
	आकृतिगणों में व्याख्याकारों द्वारा प्रक्षेप	५८-६०
	हमारा मन्तव्य	६०
	आकृतिगण तथा उत्तरवर्ती वैयाकरण	६०
	आकृतिगणता के द्योतक शब्द	६१-६२
	आकृतिगण-शैली की प्रथम आविष्कृति	६२
	पाणिनीय-तन्त्र में आकृतिगणता का उपयोग	६२-६३
	आकृतिगणात्मक शैली पर आक्षेप	६३-६४
	पठितगण	६४
	समाप्तिबोधार्थ वृत्करण	६४-६६
	गणपाठ का द्विविध पाठ	६६
	कतिपय गणों में निष्पन्न शब्दों का पाठ	६७
	निपातन शैली पर आक्षेप और उसका समाधान	६६-६९
	गणों में शब्दों का निर्विभक्तिक पाठ	६९
	कचित्-सविभक्तिक पाठ	६९-७०
	कचिद् वाक्य-प्रयोग	७०
	गण में शब्द विशेष के प्रथम पाठ का कारण	७१-७४

अध्यय	विषय	पृष्ठ
	गणपाठ मे अवान्तर गण	७१-७७
	गणपाठ मे शब्दो का क्रम	७७-८१
	पाणिनीय गणपाठ मे अपाणिनीयगण	८१-८३
	पाणिनीय गणपाठ मे औणादिकगण	८३
	गणनिर्धारण मे शब्दो का इयत्ता	८३-८४
	गणपाठ मे उपलभ्यमान गणसूत्रो की समस्या	८४-८५
	गणसूत्रो क अपाणिनीयत्व मे हतु	८५-९०
	गणसूत्रा के विषय मे हमार मत	९०-९१
	कात्यायन तथा पतञ्जलि की दृष्टि मे पाणिनीय गणपाठ	९२-९८
	जयादित्य वामन और पाणिनीय गणपाठ	९९-१०१
	पाणिनीय गणपाठ मे व्याख्याकार	१०१-१०३
	श्लोकगणकार	१०३
	नामपारायण	१०३-१०४
	गणरत्नावली	१०५
४	पाणिनि से उत्तरार्थी वैयाकरण और उनके गणपाठ	१०६-१४६
	चन्द्रगोमी तथा उसका गणपाठ	१०७-११३
	जैनेन्द्र-व्याकरण तथा उसका गणपाठ	११३-११४
	जैन शाकटायन व्याकरण तथा उसका गणपाठ	११४-१२३
	हेमचन्द्र तथा उसका गणपाठ	१२३-१२६
	श्रीभोज तथा उसका गणपाठ	१२६-१२८
	वैयाकरण वामन तथा उसका गणपाठ	१२८-१२९
	भद्रेश्वर तथा उसका गणपाठ	१२९-१३०
	अरुणदत्त का गणपाठ	१३०
	वर्धमान तथा उसकी गणरत्नमहोदधि	१३०-१३६
	कातन्त्र-व्याकरण मे प्राप्त गण	१३६-१३८
	सारस्वत-व्याकरण मे प्राप्त गण	१३८-१४१
	मुग्धबोध व्याकरण मे प्राप्त गण	१४१-१४२
	जौहर सम्प्रदाय मे गणपाठ	१४३

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	सौपद्रम सम्प्रदाय में गणपाठ	१४३
	प्राकृत तथा पालि व्याकरणों में गणपाठ	१४३
	प्राकृत सूत्रों में गणपाठ	१४३-१४४
	मोग्गलान के पालि-व्याकरण में गणपाठ	१४४-१४६
५.	पाणिनीय गणपाठ का महत्त्व	१४६-१४२
	व्याकरण विषयक महत्त्व	१४८-१४९
	प्राचीन वैयाकरणों के नाम	१४९
	तत्कालीन वैदिक तथा लौकिक साहित्य का परिचय	१४९-१५०
	गोत्रनाम	१५०-१५१
	ऐतिहासिक तथा भौगोलिक नाम	१५१-१५२
६.	पाणिनीय गणपाठ के संशोधन की समस्या तथा उसका समाधान	१५३-१६८
	प्रक्षेपों तथा पाठभेदों का प्राचुर्य	१५४-१५७
	गणपाठ की दुरवस्था का कारण	१५७-१५८
	गणपाठ के संशोधन में पाणिनि कात्यायन तथा पतञ्जलि की सहायता	१५८-१६०
	गणपाठ के संशोधन में काशिका का स्थान	१६०-१६१
	प्रक्रिया-कौमुदी में प्राप्त गणपाठ का उपयोग	१६१-१६२
	गणरत्नावली का उपयोग	१६२
	गणपाठ के विविध हस्तलेख	१६३-१६४
	अपाणिनीय सम्प्रदाय के विभिन्न गणपाठों का उपयोग	१६४
	ओटो बोर्निक सम्पादित गणपाठ	१६४-१६५
	गणपाठ के संशोधन का सम्भव प्रकार	१६५-१६८
	उद्धृत प्राक्पाणिनीय गण	१६६-१७१
	उद्धृत पाणिनीय गण	१७२-१७८
	उद्धृत कात्यायनीय गण	१७९-१८०
	उद्धृत प्रत्यक् पाणिनीय गण	१८१-१८३
	पाणिनीय गण जिनका नाम श्रवण-वैयाकरणों ने बदल दिया	१८४-१८८
	प्रमुख सहायक तथा उद्धृत पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा हस्तलेख	१८९-१९२
	संशोधन पत्र	१९३-१९४

श्रीम्

संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा

और

आचार्य पाणिनि

प्रथम अध्याय

संस्कृत व्याकरण-शास्त्र तथा गणशैली

संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का प्रयोजन

कोई भी भाषा जब अपनी लोक प्रियता एवं सुसम्पन्नता को प्राप्त हो जाती है तब उस भाषा के मर्मज्ञ विद्वान उस भाषा की सुव्यवस्था, तद्गत-शब्दावली को अपभ्रंश में बचाने, एवं उत्तरकाल में उम भाषा के यथार्थ-स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए उम भाषा के व्याकरण की रचना करते हैं। संस्कृत वैयाकरणों की शब्दावली में इस प्रयोजन को सक्षेप में शब्दानुशासन कहा जाता है। कैयट सदृश उद्भूत विद्वानों ने इसे व्याकरण का साक्षात् प्रयोजन कहा है।^१ कात्यायन और पतञ्जलि द्वारा उपस्थापित व्याकरणाध्ययन के १८ प्रयोजन^२ इसी साक्षात् प्रयोजन (=शब्दानुशासन) के व्याख्यान माने हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से व्याकरण तथा शब्दानुशासन दोनों ही शब्द पर्याय माने जा सकते हैं।^३ इसीलिए संस्कृत व्याकरण-शास्त्र में शब्दों के साधुत्व प्रतिपादन के लिए प्रकृति प्रत्यय विभाग की कल्पना की गई। इसी दृष्टि

१. भाष्यकारो विवरणकारत्वाद् व्याकरणशास्त्रस्य साक्षात् प्रयोजनमाह-
अथ शब्दानुशासनमिति । महा० नवा० पृष्ठ ६ । [अनेक प्राचीन ग्रन्थकारों के मत में 'अथ शब्दानुशासनम्' पाणिनि का आद्य सूत्र है । द्र० स० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १४३-१४५ (प्र० स०)]

२. द्र० महा० नवा० पृष्ठ १८-४६ ।

३. अनुशिष्यन्ते शब्दा अनेनेति शब्दानुशासनम् । व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम् ।

स वेदविदामलकारभूत प्रमाणितशब्दशास्त्र^१ आचार्य भर्तृहरि ने व्याकरण शास्त्र को सस्कृत भाषा क स्वटपज्ञान क लिए उपाय अथवा साधन माय के रूप मे सार्थक माना है।^२

इस प्रकार स्वसंबद्ध भाषा के स्वरूपज्ञापन को ही व्याकरणो का आदिम तथा अन्तिम प्रयोजन स्वीकार कर लेने पर यह आवश्यक हो जाता है कि जिन भाषा का व्याकरण बने उममे उस भाषा क सम्पूर्ण क्षेत्र को सर्वतो भावन व्याप्त करने की पूरी क्षमता विद्यमान हो। दूसरे शब्दो मे व्याकरण द्वारा नियमित नियमो से तत्संबद्ध भाषा के सभी शब्दो की ठीक ठीक व्याख्या एवं साधुता का ज्ञान हो सके तभी उम व्याकरण की चरितार्थता स्वीकार की जासकती है अन्यथा नही।

संसार की अन्य भाषाओ के व्याकरण मे व्याकरणशास्त्र क इस मौलिक उद्देश्य की पूर्ति का कहा तक ध्यान रखा गया है यह तो उन उन भाषाओ के व्याकरण शास्त्री ही जाने पर जहा तक सस्कृत व्याकरण-शास्त्र का संबन्ध है यह अत्यन्त गौरव क साथ कहा जा सकता है कि वह इस उद्देश्य की पूर्ति मे पर्याप्त सफल है। प्रो० मैक्समूलर ने उपर्युक्त तथ्य को निम्न शब्दो मे स्वीकार किया है—

सम्पूर्ण विश्व के इतिहास में केवल भारत और ग्रीक दो ही ऐसे राष्ट्र हैं, जिन्होंने बिना किसी की सहायता तथा सम्मति के स्वतन्त्ररूप में क्रमशः दो विज्ञानों व्याकरण तथा तर्क^३ का अद्भुत आविष्कार किया।^४

प्रो० मैकडानन न अधिक स्पष्टता एवं विस्तार के साथ सस्कृत व्याकरण शास्त्र की विगपता को जिन शब्दो मे अभिव्यक्त किया है उनका आशय इस प्रकार है।

१. भर्तृहरि के लिए य विशेषण गणरत्नमहादधिकार न प्रयुक्त किए हैं।
द्र० पृष्ठ १२३।

२ उपाय शिक्षमाणाना मालाना ध्युपादनम्।

अस्य बमनि स्थिता तत सत्य समीहते ॥ वाक्यपदीय २।२४०॥

३ भारतीय इतिहास के अनुसार ग्रीक म तर्क शास्त्र के प्रादुर्भाव से सहस्रों वर्ष पूर्व भारत में तर्कशास्त्र प्रणयरूपण प्रतिष्ठित हो चुका था। सभा०।

४. हिस्ट्री ऑफ एशिया एण्ड सस्कृत लिग्रेचर, पृष्ठ ८१।

शब्दरूपों के विश्लेषण में, धातु और प्रत्यय के बीच के भेद को पहचानने में, प्रत्ययों के विभिन्न कार्यों के विनिश्चय में, एक वाक्य में, अन्य देशों के लिये अनुपम तथा अद्वितीय हो, ऐसे व्याकरण के विकास में संस्कृत व्याकरण सर्वप्रथम थे।^१

संस्कृत व्याकरण में सूत्र-शैली

उपर्युक्त प्रयोजन को आदर्श मानने वाले व्याकरण मनीषियों के मस्तिष्क में संस्कृत भाषा के व्याकरण-शास्त्र की रचना करने से पूर्व इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक ही था कि सतत-परिवर्तमान स्वरूप वाले विशाल संस्कृत वाङ्मय को, जिसकी सीमा का निर्देश पतञ्जलि ने सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चत्वारो वेदाः साङ्गा. सरहस्या^२ इत्यादि शब्दों द्वारा किया है, व्याकरण के नियमों में कैसे बाधा जाए।

प्रतिपदपाठ-आरम्भ में कतिपय विद्वानों के ध्यान में शब्दों के गौ, अश्वः, पुरुष, हस्ती इस रूपा में प्रतिपदपाठरूपी उपाय की कल्पना आयी थी। इसके आधार पर शब्दपारायण^३ नाम के कतिपय व्याकरणों की रचना भी हुई थी। इसका सकेत पतञ्जलि के एष हि श्रूयते-बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्य वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायण प्रोवाच, नान्त जगाम^४ कथन के मूल में सन्निहित है। इस स्थिति की सामान्य सत्ता वैदिक व्याकरणों अर्थात् प्रातिशाख्यों में आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है। परन्तु शब्दों के प्रतिपदपाठ की कभी भी ममाप्त न हो सकने वाली एक ऐसी प्रक्रिया थी, जिसे शब्दानुशासन का उचित प्रकार किमी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इस बात की स्पष्ट घोषणा पतञ्जलि ने इन शब्दों में की है—

अनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तो प्रतिपदपाठः बृहस्पतिञ्च प्रवृत्ता इन्द्रश्चाध्येता दिव्य वर्षसहस्रमध्ययनकालो न चान्त जगाम।^५

१. इण्डियाज पास्ट, पृष्ठ १३६।

२. महा० नवा० पृष्ठ ६४।

३. शब्दपारायण ऋटिशब्दोऽय कस्यचिद् ग्रन्थस्य। महा० भर्तृहरिकी, पृष्ठ २१।
तु०—नामधातुपारायणादिषु। काशिका, श्राव्य श्लोक।

४. महा० नवा० पृष्ठ ५०।

५. महा० नवा० पृष्ठ ५०।

अर्थात्—यह प्रतिपद-पाठ शब्दों के परिज्ञान में उपाय (साधन) नहीं हो सकता। बृहस्पति सदृश प्रवक्ता, इन्द्र जैसा अध्येता और दिव्य वर्षमहर्षि अध्ययन का काल, फिर भी शब्दों का अन्त नहीं पाया।

सामान्य विशेष लक्षण—संस्कृत व्याकरण के स्वल्प के निष्कार के साथ-साथ शाब्दिक महर्षियों की अद्भुत मनीषा ने उपर्युक्त समस्या का उचित समाधान सामान्यविशेषप्रलक्षण प्रवर्त्यम्^१ के रूप में प्राप्त कर लिया। इसका अभिप्राय कुछ सामान्य तथा विशिष्ट नियमों का निर्धारण अथवा वैयाकरणों की पारिभाषिक शब्दावली में उत्सर्ग और अपवाद रूप नियमों का अवतारण है।^२

लक्षणों की लघुता—ये सामान्य तथा विशेष नियम ही सूत्रकारों की तेजस्विनी प्रतिभा का मस्पर्श पाकर लघु, लघुतर और लघुतन होते हुए सूत्र का रूप धारण करके

लघूनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च ।

सर्वत सारभूतानि सूत्राण्याहुर्मनीषिण ॥

अथवा—

अल्पाक्षरमसन्दिग्ध सारवद् विश्वतोमुखम् ।

अस्तोभमनप्रद्य च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥^३

जैसी उक्तियों को चरितार्थ करने लगे। इन्हीं सूत्रों के उदाहरण, प्रत्युदाहरण वाक्याध्याहार आदि से युक्त व्याख्यानो^४ द्वारा विशाल संस्कृत वाङ्मय के सम्पूर्ण प्राङ्गण को प्रकाशित करने की अनुपम क्षमता संस्कृत व्याकरण-शास्त्र को प्राप्त होमकी।

सूत्रशैली का स्वरूप

सूत्र शब्द का मौलिक अर्थ है सूत (धागा)। परन्तु उत्तर काल में इस शब्द का प्रयोग उम विशिष्ट प्रकार के साहित्य के लिए भी किया जाने लगा, जिमें छोटे छोटे अर्थपूर्ण वाक्यों द्वारा विस्तृत अर्थों को उपस्थापित

१. महा० नवा० पृष्ठ ५२ ।

२. द्र० महा० नवा० पृष्ठ ५२ ।

३ वायुपुराण ५१।१४२॥

४ उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्याध्याहार इत्येतत् समुदित व्याख्यान भवति ।
महा० नवा० पृष्ठ ६३ ।

करने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार के साहित्य में जिस तरह के छोटे छोटे वाक्यों अथवा सूत्रों का प्रयोग हो रहा था, उन्हें यथेष्ट लघुता तथा व्यापकता प्रदान करने के लिए आचार्यों ने सूत्रों को सज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, तथा अधिकार इन छः प्रकारों में विभक्त किया,^१ तथा प्रत्याहारों और अनुबन्धों का आविष्कार किया। लाघव की दृष्टि से सूत्रों में सामान्यतया इतनी छोटी छोटी सज्ञाओं को स्थान दिया, जिनसे छोटी कोई सज्ञा ढूँढने पर भी न मिले।^२ ये छोटे छोटे सज्ञासूत्र तथा परिभाषासूत्र यथोद्देश्य सज्ञापरिभाषाम्^३ तथा कार्यकाल सज्ञापरिभाषाम्^४ जैसी मान्यताओं के आधार पर व्याकरण-शास्त्र के किसी एक कोने में स्थित होकर अथवा कार्य की आवश्यकतानुसार यथास्थान उपस्थित होकर पूरे शास्त्र को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अविकार सूत्रों की व्यापकता को ध्यान में रखकर उनको भी तीन विभागों में विभक्त किया।^५ इन में प्रथम प्रकार के अधिकार सूत्र वे हैं जो एक स्थान पर स्थिर होकर भी सम्पूर्ण शास्त्र को उद्बोधित करते हैं, जैसे गृह के प्रकोष्ठ (कमरे) के एक कोने में स्थित दीपक पूरे प्रकोष्ठ को प्रकाशित करता है।^६ दूसरे प्रकार के अधिकार सूत्र वे हैं जिन्हें चक्रार के द्वारा रस्सी या लोहे (के तार) से बाध कर खींची गई लकड़ी के समान खींच कर अभिलपित सूत्रों में उपस्थापित किया जाता है।^७ तीसरे प्रकार के अधिकार सूत्र वे हैं जो प्रतिसूत्र में उनका निर्देश न करना पड़े इसलिए स्वयं प्रत्येक सूत्र में उपस्थित हो जाते हैं।^८ इसी प्रकार अत्यन्त

१. द्र० सज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च । अतिदेशोऽधिकारश्च पञ्चविधसूत्रलक्षणम् ॥

२. द्र० सज्ञा च नाम यता न लघीय । महा० नवा० पृष्ठ ३००, ३४० ।

३. परि० संख्या २, पृष्ठ ३० ।

४. परि० संख्या ३, पृष्ठ ३० ।

५. अधिकारो नाम त्रिप्रकार । महा० नवा० पृष्ठ ३७३ ।

६. कश्चित्कदेशस्थ सर्वं शास्त्रमभिज्जलयति यथा प्रदीप सुप्रचलित सर्वं केशमभिज्जलयति । महा० नवा० पृष्ठ ३७३ ।

७. अपरोऽधिकारो यथा रज्ज्वाऽयसा वा बद्ध काष्ठमनुकृष्य तद्दनुकृष्यत चकारेण । महा० नवा० पृष्ठ ३७३ ।

८. अपरोऽधिकारः प्रतियोगतस्यानिर्देशार्थ इति योगे योग उपतिष्ठत । महा० नवा० पृष्ठ ३७३ ।

अप्राप्ति की अवस्था में विधान करना,^१ विधि के सर्वथा प्राप्त होने पर विशेष स्थिति में नियमन करना,^२ तथा अन्य धर्म का अन्यत्र आरोपण करना^३ क्रमशः विधि, नियम तथा अतिदेश सूत्रों का कार्य माना गया है। सूत्रों के इन विभिन्न प्रकारों में सूत्र शैली को न्यूनाधिक रूप में लघुता और व्यापकता प्रदान करने का सामर्थ्य विद्यमान है।

इसी परम आश्चर्यजनक लाघव के कारण व्याकरणमित्यस्य कः पदार्थः ? सूत्रम्,^४ यो ह्यसूत्र कथयेन्नादो गृह्येत^५ जैनी बलवती ध्वनिया सस्कृत व्याकरण शास्त्र में श्रवणगोचर होने लगी और पतञ्जलि मुनि के प्रामाणिक शब्दों में व्याकरण-शास्त्र की आत्मा ने यह गम्भीर घोषणा की—

लघ्वर्थं चाध्वेय व्याकरणम् ।न चान्तरेण व्याकरण लघु-
नोपायेन शब्दा शक्या विद्वानुम् ।^६

वस्तुतः सूत्र-शैली के मूल में सन्निहित, आचार्यों की सामान्यविशेष-वल्लक्षण प्रवर्त्यम्^७ धारणा की चरितार्थता भी तो इसी बात में थी कि येन अल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दोयान् प्रतिपद्येरन्^८ अत्यल्प प्रयास में बड़े से बड़े शब्दसागर को हृदयङ्गम किया जा सके। यह सत्य है कि यदि सस्कृत व्याकरण-शास्त्र ने सामान्य विशेष नियमों वाले लघुतम, परन्तु अत्यन्त व्यापक प्रभाव वाले सूत्रों के इस जीने परदे को न अपनाया होता तो अति-प्रिशाल सस्कृत वाङ्मय के अनन्त शब्दों को अपने नियमों द्वारा व्याप्त कर लेना किमी भी वैयाकरण के लिए कभी भी सम्भव नहीं था। आचार्य शबरस्वामी ने अपने मीमांसाभाष्य में किसी प्राचीन आचार्य का एक श्लोक उद्धृत करके इस तथ्य को स्पष्ट स्वीकार एवं परिपुष्ट किया है।^९

१ २. विधिरल्पन्तमप्राप्ते नियम पाक्षिने सति । तन्त्रार्तिक १।२।३४॥

३. अतिदेशो नाम इतरधर्मस्य इतरस्मिन् प्रयोगायादेश । आष्टे कोश ।

४. महा० नवा० पृष्ठ ६६ ।

५. महा० नवा० पृष्ठ ७२ ।

६. महा० नवा० पृष्ठ २४ ।

७. महा० नवा० पृष्ठ ५२ ।

८. महा० नवा० पृष्ठ ५२ ।

९. ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्त्वशः । लक्षणान् तु सिद्धानाम्
अन्तं यान्ति विपरिचित ॥२।१।३२॥ यही श्लोक निरुक्त-वृत्तिकार दुर्गा ने पृष्ठ १२
(आनन्दाश्रम) पर उद्धृत किया है। वश प्रथम चरण का पाठ 'ऋषयोऽप्युप-
देशस्य' है।

सूत्र-शैली की परम्परा

अति प्राचीन काल में जब अध्ययन-अध्यापन दोनों ही मौखिक हुआ करते थे उस समय प्रत्येक पाठ्य ग्रन्थ का पूर्णतया कण्ठाग्र होना अध्यापक और अध्येता दोनों के लिए सर्वथा आवश्यक था। इसलिए स्मरण करने की प्रक्रिया को सरल और अल्प परिश्रम साध्य बनाने के लिए ही सम्भवतः सूत्र-शैली का आविष्कार हुआ। अनेक विद्वानों का विचार है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में सूत्र शैली की प्रागम्भिक रूपरेखा उपलब्ध की जा सकती है।^१ साथ ही कर्मकाण्ड की विसृति, जटिल एवं नाना भेद प्रभेदों वाली प्रक्रिया को अच्छे प्रकार स्मरण करके उमके ठीक ठीक परिपालन की अनिवार्यता (अन्यथा प्रत्यवायभाक् होने का डर था) को देखते हुए कल्पग्रन्थों में प्राचीनतम सूत्रों की उपलब्धि स्वाभाविक ही है। उत्तर काल में इसी शैली में शिक्षा, व्याकरण छन्द ज्योतिष दर्शन, आयुर्वेद आदि विभिन्न विषयों के शतशः ग्रन्थों की रचना हुई। यह दूसरी बात है कि आज व सारे ग्रन्थ अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष विद्यमान नहीं हैं। हाँ, जहाँ तक संस्कृत व्याकरण-शास्त्र के साथ सूत्र-शैली का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि अन्य सभी क्षेत्रों की अपेक्षा इस क्षेत्र में सूत्रशैली का स्वरूप उत्तरोत्तर अधिकाधिक मजबूत गया। यही कारण है कि संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में ही सूत्र-शैली पूर्णतः प्रतिष्ठित हो सकी।

यह दूसरी बात है कि अति प्राचीन इन्द्र चारायण प्रभृति वैयाकरणों के भी कुछ सूत्र अन्वेषकों ने ढूँढ लिए हैं,^२ परन्तु अधिक संभावना इसी बात की है कि वैयाकरण काशकृत्स्न से पूर्व सूत्रों की रचना प्रायः छन्दोबद्ध होती रही।^३ इन प्राचीन मस्कार का प्रभाव पाणिनि के भी कुछ सूत्रों पर देखा जा सकता है।^४ इन छन्दोबद्ध सूत्रों में जैसा कि स्वाभाविक ही था लाघव को वह प्रधानता नहीं दी जा सकती थी जो बाद की सूत्र-शैली का एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य बन गया।

१. हिस्त्री ऑफ एशियाटिक संस्कृत लिपिचर, पृष्ठ १०६।

२. डॉ० संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, भाग १ पृष्ठ ६२-७८ (प्र० सं०)।

३. डॉ० संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, भाग १ पृष्ठ ८३, १०३ (प्र० सं०)

४. डॉ० वृद्धिरादैजट्ट, गुण । पा० १।१।२-२॥ पश्चिमत्यमृगान् हन्ति परिपन्थं च तिगति पा० ४।४।३५, ३६॥

श्री प० युधिष्ठिरजी मीमांसक के मतानुसार आचार्य वाशकृत्स्न के समय अपनी प्राचीन छन्दोबद्धता की अनावश्यक चार दिवारी से सूत्र शैली मुक्त हुई^१ और सर्व प्रथम काशकृत्स्न ने^२ तथा उनके उत्तरवर्ती वैयाकरणों की परम्परा ने इस स्वरूप को यथासंभव सवारने का प्रयास किया। इस प्रयास से इसमें उत्तरोत्तर अपूर्व लघुता एवं व्यापकता आती गई। सूत्र शैली के इतिहास में एक समय वह भी आया, जब शब्दलाघव और अर्थगौरव को एक दूसरे से आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सूत्र शिल्पियों की तेजस्विनी मनीषा की आश्चर्यजनक, पर साथ ही साथ रोचक प्रतियोगिता व्याकरण के इस बीहड़ एवं शुष्क प्रदेश में दिखाई देने लगी।^३ इस विचित्र प्रतियोगिता को देखते हुए ही श्रद्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सय मन्यन्ते वैयाकरण^४ जैसे व्यङ्ग्य वाण भी वैयाकरणों पर फेंके गये। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि सूक्ष्मता एवं व्यापकता का एक साथ महान प्रगतिशील, पर उतनी सुनियन्त्रित यह दौड़ संस्कृत व्याकरण शास्त्र की एक ऐसी विशेषता है, जो विश्व के किसी भी व्याकरण को अप्राप्त है। निस्सन्देह वैयाकरणों की इस जागरूक प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठता का सेहरा उस महान शब्द मनीषी आचार्य पाणिनि के सिर बाँधा जायगा, जिसकी अद्भुत कृति अष्टाध्यायी के एक एत अक्षर की मार्थकता का प्रतिपादन कात्यायन तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य के अनेक स्थानों पर ताल ठोक कर किया है।^५ भले ही पाणिनि के उत्तरवर्ती वैयाकरणों ने एकमात्र लाघव को ही प्रधानता देते हुए पाणिनि के कुछ सूत्रों के स्थान पर उनसे भी छोटे सूत्रों को उपस्थित किया हो, अथवा पाणिनि द्वारा स्वीकृत कुछ बड़ी बड़ी अन्वर्थ सज्ञाओं के स्थान पर अनेक छोटी छोटी सज्ञाओं का आग्रिकार किया हो। परन्तु हमें यह भूलना नहीं चाहिये कि

१ स० व्या० शास्त्र का इतिहास पृष्ठ ८३, टि० ३ (प्र० स०) ॥

२. तुलना कीजिए—काशकृत्स्न गुहलाघवम् । काशिका ३ ४ ११५ । सरस्वती कण्ठाभरण, हृदयशरिणी टीका ४।३।२४६॥ शाकटायन लघुवृत्ति ३ १।१८२॥

३ तुलना कीजिए—कर्मकारसंघ्यक्षरान्त, गणसूत्र १ १।३७, तथा कन्मेजन्त, पा० १।१।३६॥ ४ परि० सख्या १३३ ।

५. साम्प्रयोगान्नहि किञ्चिदत्र, पश्यामि शान्त्रे यदनर्थक स्यात् ॥ महा० ६।१।७७, पृष्ठ ६०५ ॥ तत्राशक्य वर्णनायनर्थकैर्न भवितुम् । महा० नवा०, पृष्ठ १२३ ।

वैयाकरणों की मुद्दीर्न परम्परा में आचार्य पाणिनि ही एक ऐसा वैयाकरण हुआ, जिसका व्याकरण लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के अनन्त शब्दा की परम्परा को स्वरमहिन यथाम्भव प्रशस्त रूप में समेट पाने में सर्वथा समर्थ होना हुआ व्याकरण के सभी अंगों में अपने को सम्पन्न बना कर अपनी उद्देश्य प्राप्ति में भव्य सफलता प्राप्त कर सका। जब कि पाणिनि से प्राचीन अथवा अर्वाचीन सभी वैयाकरण केवल वैदिक अथवा केवल लौकिक शब्दों के अन्वाम्प्राण को ही अपने अपने व्याकरण का विषय बना सके।^१ साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ कहीं भी पाणिनि न बड़े बड़े सूत्रों अथवा मन्त्रों को अपनी अष्टाध्यायी में स्थान दिया है, वहाँ सर्वत्र कोई न कोई विशेष अभिप्राय निहित है। हा, कुछ स्थानों पर प्राचीन परम्परा का भी स्वाभाविक प्रभाव उपलब्ध होना है। पाणिनीय व्याकरण की उपर्युक्त विशेषता को लक्ष्य में रख कर ही पतञ्जलि ने लौकिकाना वैदिकाना च^२ अथवा सर्ववेदपरिषद् हीद शास्त्रम्^३ जैसे वाक्य बह। अपनी हिस्ट्री आफ बुद्धिज्म' नामक पुस्तक में तिब्बत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तारानाय ने पाणिनीय व्याकरण के विषय में जो प्रशस्ति प्रस्तुत की है, वह सर्वथा उद्धर्तव्य है। उसके इंगलिश अनुवाद का मत्तित्त हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है—

पाणिनीय व्याकरण सम्पूर्ण व्याकरणों का मूल है। पाणिनि से पूर्व लिखित रूप में शब्दरचना के पूर्वकोर्न व्याकरणशास्त्र नहीं था और नाही किसी ऐसे सम्प्रदाय का अस्तित्व ही था, जो इस विषय को किसी सुनिश्चित प्रक्रिया से सुसम्बद्ध कर सका हो।^४ व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसे व्याकरण अवश्य थे, जिन्होंने भाषा के किसी विशिष्ट स्वरूप को लेकर कुछ विशेष विचार किया था। ऐसे लोगों को महान् विद्वान् माना जाता था। यद्यपि लिखित में यह कहा जाता है कि कि इन्द्रव्याकरण पाणिनीय व्याकरण से प्राचीनतर है तथा भारत जैसे विशाल देश में सम्भवत इन्द्रव्याकरण पहले प्रशिष्ट हुआ हो, तो भी पाणिनीय व्याकरण को ही प्राचीनतम मानना होगा। पण्डितों

१. सम्पादकीय मत इस से भिन्न है। उसे परिशिष्ट में देखिए। सम्पा० ।

२. म० १० नया० पृष्ठ १० ।

३. महा० ६।३।१४।।

४. इस लक्ष्य के विषय में सम्पादकीय मत परिशिष्ट में देखें ।

५. यह तिब्बतीय अनुभूति भारतीय एतिहास की पुि करती है । सम्पा० ।

का यद्यपि यह भी निश्चय है कि चान्द्र व्याकरण पाणिनीय व्याकरण के अनुकूल है तथा कलाप व्याकरण इन्द्रव्याकरण का अनुगमन करता है, तो भी यह सर्वत्र स्वीकार किया जा चुका है कि आचार्य पाणिनि का व्याकरण अपने सूत्रों की व्यापकता तथा विचारों की साम्प्रदायिक परिपूर्णता के कारण सर्वथा अनुपम है ।

सूत्रशैली में गणपाठ और धातुपाठ का स्थान

संस्कृत व्याकरण-शास्त्र के लिए अत्यावश्यक एवं उपयोगी सक्षेप शैली ने जहा एक ओर सूत्र-शैली, तत्संबद्ध प्रत्याहारो, अनुवृत्तियों तथा अनुबन्धों को जन्म दिया, वहा दूसरी ओर सूत्रों की परिपूर्णता के लिए गणपाठ और धातुपाठ को सूत्रों से पृथक् परिशिष्ट रूप में उपस्थापित करने की आवश्यकता का उद्बोधन कराया, क्योंकि शब्दों के साधुत्व की दृष्टि से वैयाकरणों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे यथासम्भव सम्पूर्ण प्रकृतियों तथा समस्त प्रत्ययों का परिगणन करावे । इन में प्रत्ययों का प्रदर्शन तो अपेक्षाकृत अत्यल्प होने के कारण सामान्य तथा विशेष नियमों वाले सूत्रों की सहायता से सूत्रपाठ में ही सम्पन्न होगया, परन्तु प्रकृतियों के परिगणन में कठिनाई उपस्थित हुई । सूत्रपाठ में ही सम्पूर्ण प्रकृतियों को देने पर सूत्रों का कलेवर अमर्यादित रूप में विस्तृत हो जाता है । अतः प्रकृतियों का निर्देश सूत्रपाठ में किसी प्रकार मभव नहीं हो सकता ।

इस समस्या के समाधान के लिए सूत्रों से पृथक् धातु तथा प्रातिपदिक दोनों प्रकार की प्रकृतियों के कुछ विशिष्ट गणों का निर्धारण करना सूत्रकारों के लिए अनिवार्य होगया । इस प्रसंग में पाणिनि के भूवादयो धातवः' सूत्र में प्रयुक्त आदि पद के विषय में पतञ्जलि द्वारा उपस्थापित रोचक विवाद एवं उसके निष्कर्ष की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है ।

नामो अर्थात् प्रातिपदिकों तथा क्रियाओं के रूपों की पारस्परिक समानता और भिन्नता की दृष्टि से इन द्विविध प्रकृतियों को अनेक गणों में विभक्त

१ पा० १।३।१।।

२ अघादिग्रहणं किमर्थम् ? यदि तावत् पठ्यन्ते,

नार्थं आदिग्रहणं । अन्यत्रापि ह्यपठनादिग्रहणं न करोति । .. अर्थं न पठ्यन्ते, नतरामर्थं आदिग्रहणेन । न ह्यपठिताः शक्या आदिग्रहणेन विशेषयितुम् । एवं तर्हि सिद्धे सति यदादिग्रहणं करोति तज्जापयत्याचार्यः—अस्ति च पाठो बाह्यश्च सूत्रात् । महा० १।३.१, पृष्ठ १५४-१५५ ॥

किया गया। साथ ही इन गणों के आदि में लाघव की दृष्टि से प्रायः लघुतम प्रकृति को स्थान देकर उसी प्रारम्भिक प्रकृति को 'आदि' अथवा 'प्रभृति' शब्दों से युक्त करके अथवा उसका बहुवचनान्त^१ से निर्देश करके सूत्रों में उपस्थित किया गया। इस प्रकार सूत्रों की लघुता को सर्वथा अक्षुण्ण रखते हुए, उन-उन गणों की सम्पूर्ण अभीष्ट प्रकृतियों का संक्षेप से सूत्रों द्वारा निर्देश संभव हो सका। सूत्रों की लघुता की सुरक्षा, भाषागत सम्पूर्ण प्रकृतियों का यथासंभव सुव्यवस्थित परिगणन, एवं निर्देशन का इससे अधिक अच्छा उपाय और कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार गणपाठ तथा धातुपाठ के निर्वारण की स्थिति संस्कृत व्याकरण शास्त्र के क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित हुई। इस निर्धारण ने संस्कृत व्याकरण का एक अनिवार्य अङ्ग बन कर, उसके सूत्र-पद्धति के मागम प्रकृतियों के अनन्त सागर को भरते हुए उसे किन्ना वैज्ञानिक एवं सयन बनाया है, यह व्याकरण-शास्त्र के मर्मज्ञों से छिपा हुआ नहीं है। इसी कारण गणपाठ तथा धातुपाठ की इस प्रक्रिया के प्रादुर्भाव को, प्रत्याहारों के आविष्कार की अपेक्षा किसी प्रकार भी अल्प गौरव नहीं दिया जा सकता।

गणपाठ का अभिप्राय

यद्यपि गणपाठ शब्द का यौगिक अर्थ समूहरूपेण पठन, प्रवचन अथवा उपदेश है। इसलिए किसी भी प्रकार के शब्दों के सामूहिक प्रवचन अथवा निर्वारण को, यौगिक अर्थ के अनुसार गणपाठ कहा जा सकता है, तथापि व्याकरण-शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली में जिस ग्रन्थ में प्रातिपदिकों अथवा नाम प्रकृतियों के गणों अथवा समूहों का संकलन होता है, उसे गणपाठ और जिस ग्रन्थ में धातुओं अथवा आख्यात प्रकृतियों के विभिन्न समूहों का पाठ किया जाता है उसे धातुपाठ कहते हैं।

इस प्रकार गणपाठ शब्द अर्थविशेष में रुढ़ होकर केवल उन प्रातिपदिक प्रकृतियों के अनेक समूहों के उम संकलन के लिए व्यवहृत होता है, जिनका व्याकरण के विभिन्न मूत्रा में प्रयुक्त आदि अथवा प्रभृति अथवा

१ यथा—सर्वादीनि सर्वनामानि । पा० १।१२७॥

२ यथा—आदिप्रभृतिभ्यः शप् । पा० २।४।७२॥

३ यथा—सप्तमी शौण्डे । पा० २।१।४०॥

वचनान्त शब्दों की मुख्यस्थित व्याख्या के लिए मूनकारों द्वारा सूत्रपाठ में पृथक् उपदेश किया गया है।

यद्यपि गणपाठ शब्द का प्रयोग धातुपाठ के लिए भी क्वचित् देखा जाता है (क्योऽपि धातुपाठ में भी भ्रादि अदादि जुहोत्यादि आदि को एक एव गण मानकर उन में अभिप्रेत धातु-प्रकृतियों का परिगणन किया गया है) तथापि गणपाठ शब्द का प्रयोग गोबलीर्दन्त्याय से प्रायः प्रातिपदिक पाठ के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसीलिए जहां गणपाठ और धातुपाठ दोनों का एक साथ निर्देश करने का अवसर उपस्थित होता है, वहां यद्यपि केवल गणपाठ शब्द यांगिक अर्थ द्वारा दोनों का निर्देश करने में समर्थ हो सकता है तथापि वहां सर्वत्र गणपाठ और धातुपाठ दोनों का नामोच्चारण पूर्वक पृथक् पृथक् निर्देश उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए

धातुसूत्रगणोणादिनाभ्यलिङ्गानुशासनम् ।

आगम प्रत्ययादेश उपदेशा प्रकीर्तिता ॥^१

इत्युक्तान्तर्दधे रुद्र पाणिनि स्वग्रह ययी ।

सूत्रपाठ धातुपाठ गणपाठ तथैव च ॥^२

श्लोका को उपस्थित किया जा सकता है। न्यासकार ने काशिका के खिलपाठश्च अश की धातुपाठ चकारात् प्रातिपदिकपाठश्च^३ व्याख्या करते हुए गणपाठ को प्रातिपदिक पाठ के रूप में स्वीकार किया है। गणरत्न महोदधि तथा गणरत्नावली जैसे व्यख्यान ग्रन्थों में भी केवल प्रातिपदिक पाठ में आए शब्दों की ही व्याख्या मिलती है। गणपाठ और धातुपाठ के नाम से आज भी दो पुस्तकें पृथक् पृथक् रूप में उपलब्ध हैं। अतः गणपाठ में धातुपाठ का अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता।

गणशैली का आरम्भ

जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, गणपाठ का सूत्रपाठ के साथ अज्ञातगी सम्बन्ध होने के कारण एव के विना दूसरे की स्थिति सम्भव नहीं। यदि किसी प्रकार सम्भव भी हो सके तो उसका कोई मूल्य नहीं कोई प्रयो

१. प्रतियाकीमुदी, पृष्ठांश, पृष्ठ १६ ।

२. भविष्य पुराण, प्रतिसर्गपरं, कलियुगतिहाससमुच्चय ३१।१३॥

३. न्यास १।३।२, भाग १, पृष्ठ २११ ।

जन नहीं। उदाहरण के लिए यदि पाणिनि के सर्वादीनि सर्वनामानि^१ अथवा कथादिभ्यष्टक्^२ जैसे सूत्रों में आदि शब्द से ग्रहण किए जाने वाले सर्वादि अथवा कथादि शब्द समूहों का निर्वाहक गणपाठ विद्यमान न हो तो पाणिनि तत्तद् गणपत्रद्वय सूत्रों में आदि अथवा प्रभृति जैसे शब्द सर्वथा निःप्रयोजन हो जाते हैं। इसी प्रकार सर्वादि अथवा कथादि जैसे शब्दसमूहों गणों का पाणिनि के सर्वादीनि सर्वनामानि^१ अथवा कथादिभ्यष्टक्^२ जैसे सूत्रों में आदि प्रभृति आदि शब्दों से निर्देश न किया गया होता तो इस प्रकार के गणों के निर्वाहक का क्या प्रयोजन होता? यद्यपि शब्दों के प्रतिपदपाठ की पद्धति को अपनाने वाले इन्द्र आदि वैयाकरणों तथा वैदिक प्राणिनाट्यकारों ने एक नियम सबद्वय सभी अभिप्रेत शब्दों को तत्तद् सूत्रों में स्थान देकर गणपाठ की आवश्यकता से मुक्ति पा ली तथापि इस प्रकार के अमर्यादिन एवं दीर्घकाय सूत्रों को आदर्श सूत्र शैली में स्थान नहीं दिया जा सकता। इसलिए किसी भी आचार्य के व्याकरण में यदि वह वस्तुतः सत्सिद्ध सूत्र शैली में निबद्ध है तो उसकी सूत्र शैली की लघुता तथा पूर्णता के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य है कि सूत्ररचना के पूर्व ही सूत्रकार द्वारा वातुपाठ और गणपाठ का सुव्यवस्थित निरूपण हो चुका हो।

इस तथ्य को हृदयगम कर लेने पर यह धारणा स्वभावतः उपस्थित होती है कि जब कभी भी संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में सत्सिद्ध सूत्र-पद्धति का आदर किया गया होगा, तभी गणपाठ तथा वातुपाठ की वैज्ञानिक कल्पना ने भी वैयाकरणों की मनोपा को सनाथित किया होगा। इसलिए यह कहना कि आचार्य पाणिनि ही गणशैली के प्रथम उद्गाहक है, सर्वथा अनुचित है। पाणिनि से प्राचीन अनेक वैयाकरणों के गणपाठ विषयक विभिन्न प्रमाण अगले अध्याय में उपस्थित किए जाएंगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि जिस प्रकार प्रत्याहारो तथा अनुबन्धो की पद्धति पाणिनि की अपनी ही उपज्ञान अथवा आविष्कृत नहीं है, अपितु पाणिनि से पूर्ववर्ती आपिशलि तथा शान्तनव आदि आचार्यों ने भी क्रमशः जम्^३ तथा अर्प्^४ ह्य्^५ आदि

१. पा० १।१।२७।।

२. पा० ४।४।१०।।

३. द्र० सं० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ६६ (प्र० सं०)।

४. लघावन् द्वयोश्च नद्धो गुरु । फिर् सूत्र ४० ।

५. ह्यादीनामस्युक्तलान्तानामन्त पूर्ण वा । फिर् सूत्र ४८ ।

प्रत्याहारो का प्रयोग किया है, उमो प्रकार गणपाठ की शैली का आविष्कार भी पाणिनि द्वारा ही हुआ, ऐसा कदापि नहीं माना जा सकता। हा, इतना अवश्य है कि इस वैयाकरण-मूर्खन्य ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से विरासत में प्राप्त प्रत्याहार तथा गणपाठ आदि की पद्धतियों का किसी भी प्राचीन आचार्य की अज्ञा अत्यधिक प्रयोग करके अपने सूत्रों में सुव्यवस्थित लघुता तथा व्यापकता की वह अमूर्ख चकाचौंध उत्पन्न कर दी, जिस के समस्त प्राचीन वैयाकरणों के सभी व्याकरण न केवल फीके ही पड गए, अपितु विद्वानों की दृष्टि से उपेक्षित होकर सदा के लिये अपने अस्तित्व तक से हाथ धो बैठे।^१



१. सम्पादकीय मत इस से भिन्न है। उस का निर्देश परिशिष्ट में किया है।
सम्पा० ।

द्वितीय अध्याय

पाणिनि से प्राचीन वैयाकरण और उनके गणपाठ

संस्कृत वाङ्मय में इतस्ततः विकीर्ण व्याकरण विषयक सामग्री, यास्क के निरुक्त, वेदों के विभिन्न प्रातिशाख्यों तथा पाणिनीय अष्टाध्यायी में उपलब्ध होने वाले अनेक वैयाकरणों के विविध मतों के आधार पर अन्वेषकों का यह सुनिश्चित विचार है कि आचार्य पाणिनि से पूर्व संस्कृत वैयाकरणों की एक सुदीर्घ परम्परा विद्यमान थी।^१ इस परम्परा में आने वाले वैयाकरणों के बहुत से सूत्र भी अन्वेषक विद्वानों ने उपलब्ध कर लिए हैं।^२ कुछ समय पूर्व ही प्रकाशित चन्नवीर कविकृत काशकृत्स्न शब्दकलाप धातुपाठ की कन्नड टीका में आचार्य काशकृत्स्न के लगभग १३५ सूत्र भी मिल गए हैं।^३ निम्नन्देश इन १३५ सूत्रों की उपलब्धि से वैयाकरण काशकृत्स्न की सूत्रशैली पर विशद प्रकाश पड़ता है। संस्कृत व्याकरण-शास्त्र में ऐतिहासिक मनीषा रखने वाले सुप्रतिष्ठित विद्वानों में सम्भवतः त्रितीयचन्द्र चटर्जी ही एक ऐसे विद्वान हैं, जो वैयाकरण काशकृत्स्न को पाणिनि का उत्तरवर्ती मानने हैं।^४

पाणिनि द्वारा स्मृत^५ होने से आपिशलि पाणिनि से पूर्ववर्ती है, यह सर्वसम्मत तथा सुसष्ट तथ्य है। पाणिनि ने अपने शब्दानुशासन के प्रवचन में आपिशलि व्याकरण में पर्याप्त सहायता ली है।^६ इस तथ्य के प्रकाश में पतञ्जलि का वह लेख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने पाणिनि आपिशलि

१. इस परम्परा के २३ वैयाकरणों के परिचय के लिए त्रेतिण स० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १, अध्याय ३, ४ (पृष्ठ ५७-१२८)।

२. द्र० स० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग १ अध्याय ३, ४ (पृष्ठ ५७-१२८)।

३. इन सूत्रों की विस्तृत व्याख्या के लिए देखिए श्री प० सुधित्तिर जी मीमांसक द्वारा लिखित 'काशकृत्स्न व्याकरण और उसके उपलब्ध सूत्र' नामक निबन्ध।

४. त्रिभुवनकल टर्म्स एण्ड रिकनीक्स ग्रफ सभ्युत्त प्रामर, पृष्ठ २, ७७।

५. वा मुप्यापिशलि । पा० ६।१।२६॥ स एवमापिशले पञ्चदशमेदाख्या वर्णधर्मा भवन्ति । पाणिनीय शिद्धा ११६। इस सूत्रात्मक पाणिनीय शिद्धा का प्रकाशन शंभू ही 'भारतीय प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान' से हो रहा है।

६. द्र० पदमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ६, ७।

आर काशकृत्स्न तीनों के शब्दनुशासनो का एक माय उल्लेख किया है।^१ इस लेख में पहले पाणिनीय, तदनन्तर आपिशल और तत्पश्चात् काशकृत्स्न तन्त्र का उल्लेख मिलता है। महाभाष्य के टीकाकार कैयट^२ तथा वाक्यपदीय के टीकाकार हेलाराज^३ के वे वाक्य भी हमारी इस विषय में पर्याप्त महायता करते हैं जिनमें आपिशलि स पूर्व काशकृत्स्न की सत्ता का मकेत विद्यमान है। उक्त दोनों विद्वानों ने अपन बचनों में पहले आपिशलि और तदनन्तर काशकृत्स्न के नाम का उल्लेख किया है। उन्मुख्य तीनों स्थलों के समन्वित प्रमाण में यदि काशकृत्स्न का समय निर्धारित किया जाए तो काशकृत्स्न का समय पाणिनि के पश्चात् तो क्या आपिशलि के पश्चात् भी नहीं माना जा सकता।

ऐन्द्र व्याकरण तथा गणशैली

प्राचीन वैयाकरणों की परम्परा में साहित्यिक प्रमाणा^४ तथा तारा नाथ जैसे ऐतिहासिकों के कथन^५ के आधार पर आचार्य इन्द्र को प्रथम स्थान दिया जाता है। ए० सी० वर्नेल ने वैदिक प्रातिगास्या यास्क के निष्कृत, कात्त्र व्याकरण तोलकापियम् तथा कच्चायन (कात्यायन) के प्राकृत व्याकरण का सर्वत्र उक्त ग्रन्थों में प्राप्त होने वाली पारिभाषिक शब्दावली आदि की कुछ समानताओं तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी में उपलब्ध होने वाली विषयताओं के आधार पर ऐन्द्र व्याकरण से स्थापित किया है।^६

सम्प्रति दुभाग्यवश ऐन्द्र व्याकरण अनुपलब्ध है। परन्तु ए० सी० वर्नेल के मतानुसार उसका अनुगमन करने वाले उन्मुख्य विभिन्न व्याकरणों की गतिविधियों के अनुशीलन के पश्चात् जैसा कि प्रो० ए० सी० वर्नेल का विचार है * हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि ऐन्द्र व्याकरण में गणशैली

१ पाणिनिना प्रोक्तपाणिनीयम् आपिशलम् काशकृत्स्नम्। महा० न० ३० पृष्ठ ७०।

२ आपिशलकाशकृत्स्नयोस्त्वग्रथ। महा० प्र० पृष्ठ ५११२१॥

३ आपिशला काशकृत्स्नाश्च सूत्रमेतन्नाधीयते। पृष्ठ ७१४।

४ द० तै० संहिता ६।४।७, तथा 'आन दी एन्द्रखल ग्राफ सङ्कृत ग्रामेरियन्स, पृष्ठ ५।

५ द० दी इण्डियन एण्टिकरी, अप्रैल १८७५, पृष्ठ १०० तथा उससे आगे।

६ द० आन दी एन्द्रखल ग्राफ सङ्कृत ग्रामेरियन्स पृष्ठ १२।

७ द० आन दी ऐन्द्रखल ग्राफ सङ्कृत ग्रामेरियन्स पृष्ठ २६।

के प्रयोग का सर्वथा अभाव था। यदि पतञ्जलि के इन्द्र-विषयक शब्दों के प्रतिपद-पाठ-सद्वन्वी कथन में अर्थवाद के साथ साथ कुछ तथ्याश भी माना जाए तो उपर्युक्त वारणा की थोड़ी बहुत पुष्टि भी होती है।

वैदिक प्रातिशाख्यों की पाणिनि से प्राचीनता

सम्प्रति उपलब्ध वैदिक प्रातिशाख्य पाणिनि से प्राचीन हैं अथवा अर्वाचीन, इस विषय में बहुत काल से ऐतिहासिक विद्वानों में पर्याप्त मतवैभिन्य चला आ रहा है।^१ परन्तु पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा प्रातिशाख्यों में प्रयुक्त अनेक पारिभाषिक शब्दों की गम्भीर तुलना करके विद्वानों ने^२ ऐसे पर्याप्त संकेत प्रस्तुत किए हैं जो हमें ए. सी. वर्नेल के निष्कर्ष^३ को मानने के लिए बाध्य कर देते हैं कि सम्पूर्ण विद्यमान प्रातिशाख्य अपने वर्तमान रूपों में पाणिनि से अर्वाचीन हैं।^४ परन्तु ये सभी प्रातिशाख्य किसी न किसी प्रकार एक ऐसे व्याकरण-सम्प्रदाय से संबद्ध हैं, जो पाणिनीय सम्प्रदाय से पूर्व प्रतिष्ठित था।^५

ऋक्-वाजसनेय-तैत्तिरीय प्रातिशाख्यों में गणशैली

ऋक्प्रातिशाख्य के येत्यादिषु (४।९१), वाजसनेय प्रातिशाख्य के उत्तम्भनादीनि (५।३८) तथा तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के शैत्यायनादि (५।१०) मन्द्रादि (२३।२) तथा अक्षरसंहितादि (२।१४) जैसे सूत्रों के प्रयोगों में 'आदि' शब्द में रहते हुए भी इन से किसी गण का निर्देश अभीष्ट है, ऐसा

१. अथर्व प्रातिशाख्य, डा० सूर्यकान्त सम्पादित, भूमिका भाग।

२. अथर्व प्रातिशाख्य, प० विश्वबन्धु शास्त्री सम्पादित, भूमिका भाग पृष्ठ ३३ तथा उससे आगे।

३. द्र० वही, पृष्ठ वही।

४. इस प्रकार के शब्दों से पश्चात्त्य मतानुयायी संस्कृत वाङ्मय के प्रामाणिक ग्रन्थों के स्वरूपों में अनारस्था उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जब तक इन ग्रन्थों का पूर्व ऐतिहासिक रूप प्रकट न किया जाए, इस प्रकार की कल्पनाएँ तथ्य से दूर भटकाने वाली होती हैं।

५. सम्पादकीय मत इससे सर्वथा भिन्न है। सम्पादक के मत में वाजसनेय प्रातिशाख्य तथा लघु ऋक्सन्ध के अतिरिक्त सभी प्रातिशाख्य और ऋक्सन्ध पाणिनि से पूर्ववर्ती हैं।

६. अथर्व प्राति० प० विश्वबन्धु शास्त्री संभा०, भूमिका पृष्ठ २३ तथा आगे।

नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऋक्प्रातिशाख्य के येत्यादिषु (४१९१) से अभिप्रेत शब्दों का परिगणन प्रातिशाख्यकार ने स्वय ही अगले (४१९३) सूत्र में कर दिया है। वाजसनेय प्रातिशाख्य के उत्तम्भनादि निर्देश से 'उत्तम्भन' के साथ-साथ दो अन्य उत्थाय और उत्थिताय शब्द ही अभिप्रेत हैं। इनके लिए किसी विशेष गण्य के निर्धारण का अनुमान कर, उसे गण-शैली के उपयोग करने के प्रमाण में उपस्थित करना, निश्चय ही वाजसनेय प्रातिशाख्यकार द्वारा अपनाई गई शैली के साथ अन्याय करना होगा।^१ इसी प्रकार तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के श्रैत्यादि जैसे आदि शब्द युक्त निर्देशों से जिन शब्दों को अभिप्रेत माना गया है, उनका निर्देश प्रातिशाख्यकार ने स्वय ही अन्य सूत्रों में कर दिया है।^२ यह भी ध्यान रहे कि मन्द्रादि तथा अक्षरसहितादि के निर्देश करने वाले सूत्रों को कतिपय विद्वानों ने प्रक्षिप्त माना है।^३

इतना ही नहीं, यदि इन प्रातिशाख्यकारों को गणशैली अपनानी होती तो इन प्रातिशाख्यों के सूत्रों का ढांचा ही कुछ और होता। पाणिनि के प्रादयः (१।४।५०) जैसे छोटे सूत्रों के स्थान पर पूरे बीस बीस उपसर्गों की गणना सूत्र में न की जाती।^४ इसी प्रकार गणशैली के अपनाने पर वाजसनेय प्रातिशाख्य के बृहस्पतिर्वनस्पति०^५ जैसे दीर्घकाय सूत्र के स्थान पर बृहस्पत्यादीनि, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के नह्यतिनूननृत्यन्त्य०^६ के स्थान पर नह्यत्यादीनि जैसे लघुकाय सूत्रों की रचना को ही प्रशस्त माना जाता। स्मरण रहे कि आचार्य पाणिनि के वनस्पत्यादि गण (६।२।१४०) तथा जुम्नादि गण (८।४।३९) का निर्धारण क्रमश उपर्युक्त सूत्रों में पठित प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए ही किया गया होना और उसी के

१. द्र०-दी क्रिटिकल स्टडीज आन कात्यायनाज शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य, वी. वी. शर्मा, पृष्ठ ८१।

२. द्र०-आन दी ऐन्द्रस्कूल आफ सस्कृत ग्रामेरियन्स, पृष्ठ २३, तथा उससे आगे।

३. द्र०-ऋक्प्रा० १२।२०, २१; वा० प्रा० ४।२४; तै० प्रा० १।१५, अ० प्रा० १।१।७॥

४ वा० प्रा० २।४७॥

५ तै० प्रा० ७।१६॥

आधार पर उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् तथा क्षुब्नादिषु च^२ जैसे लघुकाय सूत्रों की रचना सम्भव हो सकी होगी ।

सम्भवतः शब्दों के प्रतिपदपाठ की प्रक्रिया को अपनाने के कारण ही इस प्रकार के दीर्घकाय सूत्रों से तीनों प्रातिशाख्य भरे पडे है । अतः यह निश्चित है कि इन तीनों प्रातिशाख्यों में गणशैली को यत्किंचित् भी प्रश्रय नहीं मिला था ।

ऋक्तन्त्र तथा गणशैली

सामवेद से सवन्ध रखने वाले ऋक्तन्त्र में अघिरादि (सूत्रसंख्या १४१), कौतस्कुतादि (१२८), पटादि (१६४), पृषोदरादि (१६६), वत्सरादि (१०६), तथा शकन्धुकादि (८७) कई गण मिलते हैं । इन गणों में अभिप्रेत शब्दों का निदर्शन भी ऋक्तन्त्र की विवृत्ति में मिलता है । इस में कोई सन्देह नहीं कि यदि एक ओर उपर्युक्त पृषोदरादि, पटादि वत्सरादि तथा शकन्धुकादि गण न केवल इस बात का अनुमान करने के लिए बाध्य करते हैं कि ऋक्तन्त्र का जो रूप हमें मिलता है उसका कुछ भाग पाणिनि की अष्टाध्यायी से तो अर्वाचीन है ही, कात्यायन के वार्तिकों से भी अर्वाचीन है । साथ ही दूसरी ओर इसी ऋक्तन्त्र में वर्तमान कौतस्कुतादि (१२८) गण इस बात का बहुत कुछ निश्चय करा देता है कि पाणिनि ने अपने कस्कादि गण (८।३।४८) की रूप रेखा का निर्धारण इसी कौतस्कुतादि गण के आधार पर किया था । पाणिनि ने गण निर्धारण करते समय 'कौतस्कुत' शब्द को केवल लाघव की दृष्टि से ही अपने सूत्रपाठ में प्रथम स्थान से हटाकर उसका स्थान 'कस्क' शब्द को देते हुए ऋक्तन्त्र के कौतस्कुतादि को ही कस्कादि गण के रूप में स्वीकार किया है । 'कस्कादि' जैसे छोटे नाम के रहते हुए भी, उसका अनुकरण करने वाला कोई वैयाकरण 'कौतस्कुनादि' जैसे बड़े नाम को अपनी सूत्र-पद्धति में स्थान देना चाहेगा, ऐसा सोचना भी अस्वाभाविक होगा । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि पाणिनि के 'कस्कादि' गण के अनुकरण पर ऋक्तन्त्रकार ने 'कौतस्कुतादि' गण की निर्धारणा की होगी । इस रूप में न्यूनातिन्यून 'कौतस्कुतादि' गण की सत्ता तो हमें पाणिनि के 'कस्कादि' गण से पहले की माननी होगी । इतना ही नहीं, यदि यही माना जाए कि

ऋक्तन्त्रकार ने गणशैली का उपयोग पाणिनि तथा कात्यायन के अनुकरण पर ही किया, तो इस बात का भी उत्तर देना होगा कि ऋक्तन्त्रकार ने पाणिनि के पारस्करादि गण (६।१।१५७) का उपयोग न करके पार पर्वते जैसे अनेको सूत्रों (१९४-२११) की रचना क्यों की? ऋक्तन्त्रकार के इस सुट्-प्रकरण वाले (१९४-२११) स्थल से उलटे इस सभावना को बल मिलता है कि पाणिनि के 'पारस्करादि' गण की पृष्ठभूमि ऋक्तन्त्र के सुट्-प्रकरण के सूत्र है। इनके अनुकरण पर ही गणशैली को अपनाते हुए भी पाणिनि ने बहुत से ऐसे सूत्रों^१ को अपनी अष्टाध्यायी में स्थान दिया, जिनका प्रयोजन उनका पारस्करादि में अन्तर्भाव करके सिद्ध किया जा सकता था और वह भी विशेषकर उस अवस्था में जब कि 'पारस्करादि' गण को आकृति गण माना जा सकता है।^२

डाक्टर सूर्यकान्तजी का यह विचार कि ऋक्तन्त्र का सर्वप्रथम प्रणयन औदब्रजि ने किया तथा थोड़े बहुत परिवर्तन और परिवर्धन के साथ शाक-टायन ने उसका द्वितीय सस्करण किया। ऋक्तन्त्र का सम्प्रति जो सस्करण उपलब्ध है, वह उसका तीसरा सस्करण है। इस सस्करण की रचना निश्चित ही पाणिनि के पश्चात् हुई है।^३ उस समग्रि के विषय में, जो ऋक्तन्त्र तथा अष्टाध्यायी अथवा कात्यायन की वार्तिकों में सर्वथा समान रूप से मिलती है, अपनी विस्तृत विवेचना तथा गम्भीर समीक्षा के पश्चात् डाक्टर महोदय ने अन्तिम निष्कर्ष यह निकाला है—

१ द्र० पा० ६।१।१५३-१५५।

२ यह बात लक्ष्मणकचक्षुष वैयाकरणों के मतानुसार लिखी है। प्राचीन मतानुसार इस प्रकार की तुलना से कोई विशिष्ट सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता। प्राचीन आचार्य केवल लक्ष्मणकचक्षुष नहीं थे। वे लक्ष्मणकचक्षुष थे। लक्ष्मणों के सुगमता से परिज्ञान के लिए वे सदैप और विस्तार दोनों प्रकार से लक्ष्मणों का प्रयत्न करते थे। श्रतएव महाभाष्यकार ने कहा है—'अथ किमर्थं लुगलुगनुव्रमण क्रियते, न तत्पुरुषे वृति बहुलम्' ६।३।१४ इत्येव सिद्धम्। उदाहरणभूयस्त्वात्। ते वै उल्लवपि विषय सुपरिग्रहीता भवन्ति, येषां लक्ष्मण प्रपञ्चश्च। केवल लक्ष्मण, केवल प्रपञ्चो वा न तथा कारक भवति। सर्ववेदपारिपदं हीदं शास्त्रम्। तत्र नैक पन्था शक्य आस्थातुम्' (महा० ६।३।१४)। सम्पादक।

३. द्र० सूर्यकान्तजी सम्पादित ऋक्तन्त्र, भूमिका भाग, पृष्ठ ३६-४३।

‘ इन समाननाओं के आधार पर अधिक से अधिक यह निष्कर्ष निकाल सकने है कि ऋक्त्र के ये सूत्र सम्भवतः पाणिनि तथा कात्यायन से लिए गए हों, परन्तु पाणिनि तथा कात्यायन ने भी उन्हें शाकटायन तथा अन्यो से ग्रहण किया हो। यद्यपि ऋक्त्र कुछ सूत्रों के लिए पाणिनि, यहाँ तक कि कात्यायन का भी ऋणी हो सकता है, फिर भी ये दोनों (पाणिनि कात्यायन) ही शाकटायन के ऋणी हैं और शाकटायन ऋक्त्र का कर्ता है। ’

निश्चय ही विद्वान् लेखक के ये विचार विशेष महत्त्व के हैं। इन के प्रकाश से उपरि निर्दिष्ट दोनों परस्पर विरोधी परिस्थितियों का सम्यक् समन्वय हो जाता है।^१

इस प्रकार ऋक्त्र के पाठ की कोई सीमा निर्धारित न होने के कारण यह निश्चय पूर्वक कहना तो कठिन है कि उसका कौनसा अंश कितना प्राचीन है और कौनसा अंश कितना अर्वाचीन है, तथापि कौतस्कुतादि गण के विषय में यह संभावना अवश्य उपस्थापित की जा सकती है कि ऋक्त्र का यह अंश पाणिनि से प्राचीन है, इसके रचयिता सम्भवतः आचार्य शाकटायन रहे हों।

अथर्व-प्रातिशाख्य तथा गणशैली

अथर्व प्रातिशाख्य में चृहस्पत्यादि (१।१।४) व्याघ्रादि (१।१।१९), अजिरादि (१।२।७), पदादि (१।३।८) शतादि (२।१।८) अश्वादि (३।३।१५) सत्रसाहादि (३।३।१९) एनाश्रहादि (२।३।९) दीर्घायुत्वायादि (२।४।८), भूतादि (२।३।१०) शाकल्येष्यादि (२।१।५) के रूप में गणशैली के प्रचुर प्रयोगों को देखकर अथर्व प्रातिशाख्यकार के पाणिनि से प्रभावित होने की संभावना की जा सकती है परन्तु कुछ ऐसे हेतु भी उपस्थित किए जा सकते हैं, जिनके आधार पर अथर्व प्रातिशाख्य को पाणिनि से पहले का ठहराया जा सकता है। यथा—

१ डा० सूयकांतजी सम्पादित ऋक्त्र भूमिका पृष्ठ ४३ ।

२ सम्पादकीय मत इससे भिन्न है। ऋक्त्र का उपलब्ध पाठ निश्चय ही पाणिनि से पूर्ववर्ती है। दत्तिये—स० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग २ ‘प्रातिशाख्य आदि के प्रवक्ता और व्याख्याता’ अध्याय ।

पहला हेतु यह है कि अथर्व प्रातिशाख्यकार सार्वधातुक सज्ञा को सर्वथा सामान्य सज्ञा मानते हुए उसकी कोई परिभाषा नहीं करता, उसे अपरिभाषित ही रहने देता है, परन्तु पाणिनि की अष्टाध्यायी में यह शब्द सामान्य सज्ञा के रूप में न रह कर एक विशिष्ट तथा नियत सज्ञा का रूप धारण कर लेता है। इसलिये पाणिनि ने तिङ्शित् सार्वधातुकम् (३।१।११३) सूत्र द्वारा उसकी परिभाषा करते हुए उसे केवल तिङ् और शित् प्रत्ययो से संबद्ध कर दिया है। 'सार्वधातुक' संज्ञा की जो यह सामान्य तथा विशय परिस्थिति है, उसमें सामान्य स्थिति को प्राचीन तथा विशेष स्थिति को उत्तरकालीन मानना ही युक्तिसंगत होगा। इस रूप में अथर्व प्रातिशाख्य वाली स्थिति ही प्राचीनतर सिद्ध होती है। इसलिये यहाँ यह सभावना करना अनुपयुक्त न होगा कि पाणिनि के 'सार्वधातुक' सज्ञा की पृष्ठभूमि सम्भवत अथर्व प्रातिशाख्य की सार्वधातुक सज्ञा रही है।^१ इसके विपरीत यदि कोई यही हठ करे कि पाणिनि की सार्वधातुक सज्ञा का अनुकरण अथर्व प्रातिशाख्यकार ने किया तो उसे इस बात का भी उत्तर देना होगा कि प्रातिशाख्यकार ने पाणिनि के प्रत्याहारो और अनुबन्धो से अपना परिचय क्यों नहीं दिखाया ?^२

दूसरा हेतु यह है कि अथर्व प्रातिशाख्य के स्वरविषयक नियम इतने परिष्कृत नहीं दिखाई देते जितने पाणिनि के। उदाहरण के लिए अथर्व-प्रातिशाख्य के द्विरुदात्त वृहस्पत्यादिनाम् (१।१।४) सूत्र को, तथा पाणिनि व उभे वनस्पत्यादिपु युगपत् (६।२।१४०) तथा देवताद्वन्द्वे च (६।२।१४१) सूत्रों को उपस्थित किया जा सकता है। पाणिनि की सूत्रशैली में वृहस्पति वनस्पति जैसे शब्दों को जिनमें द्विरुदात्तता तथा षष्ठीसमास दोनों हैं, एक विभाग में रखा और उपासानक्ता मित्रावरुणा इत्यादि शब्दों को, जिनमें द्वन्द्वसमास की स्थिति है, दूसरे विभाग में रखा। इसलिए दो विभागों के आधार पर पाणिनि ने उपर्युक्त दो सूत्रों की रचना की। परन्तु प्रातिशाख्य की सूत्र पद्धति ने वृहस्पत्यादि गण में ही द्विरुदात्त दिखाई देने वाले सभी

१. सम्पादकीय विचार में पाणिनीय 'सार्वधातुक' सज्ञा की पृष्ठभूमि आपिशलि की 'सार्वधातुका' सज्ञा है। द्र० काशिका ७।३।६५ में उद्धृत आपिशलि सूत्र।

२. द्र० पं० विश्वरुद्रजी सम्पादित अथर्व-प्रातिशाख्य, भूमिका भाग, पृष्ठ ३३।

शब्दों का समावेश माना है। पाणिनि द्वारा स्वीकृत द्विविध विभागों से उभका कोई परिचय नहीं जान पड़ता। इस रूप में पाणिनि के सूत्रों की अपेक्षा अपनी प्राचीनता का ज्ञापन करती हुई^१ इस बात का भी अनुमान प्रस्तुत करती है कि पाणिनि को अपने वनस्पत्यादि गण की पृष्ठभूमि अथर्व-प्राति-शाख्य के 'वृहस्पत्यादि' गण में मिली हो।

भारद्वाज-शिक्षा तथा गणशैली

भण्डारकर अनुसन्धान संस्थान पूना से एक भारद्वाज शिक्षा प्रकाशित हुई है। उसके अन्तिम श्लोक^२ तथा शिक्षा के व्याख्याकार नागेश्वर भट्ट के मतानुसार^३ यह शिक्षा आचार्य भरद्वाज प्रणीत है। ऋक्तन्त्र के उल्लेख से पता चलता है कि भरद्वाज नाम का एक बहुत प्राचीन वैयाकरण हो चुका है।^४ यह शिक्षा उस प्राचीन भरद्वाज की बनाई हुई है ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं होता।^५ यदि यह सिद्ध हो सके कि यह शिक्षा उती प्राचीन वैयाकरण भरद्वाज आचार्य की है, तो भारद्वाज शिक्षा में मिलने वाले दो गण पाणिनि से पूर्व गणशैली के आविष्कार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। वे गण हैं— शीभादि^६ तथा मेण्यादि^७।

भागुरि तथा गणशैली

आचार्य भागुरि ने सामसहिता का प्रवचन किया था। पतञ्जलि संकेतित उन आचार्यों में भागुरि भी एक है, जिन्होंने हलन्त शब्दों से स्त्रीलिङ्ग में टाप् प्रत्यय का विधान किया था।^८ अतः वैयाकरण भागुरि को पाणिनि से प्राचीन मानने में कोई बाधा नहीं है।

१ द्र० अ० प्रा०, विश्वबन्धु सम्पादित भूमिका भाग, पृष्ठ ३३ ३४। इस विषय में सम्पादकीय टिप्पणी परिशिष्ट में देखें।

२ यो जानाति भरद्वाजशिक्षामर्थसमन्विताम्। पृष्ठ ६६।

३. प्रवक्ष्यामि इति भरद्वाजमुनिना उक्तम्। पृष्ठ १।

४ द्र०—इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः। ऋक्तन्त्र १।४॥

५ द्र० सं० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ६६ (प्र० सं०)।

६ वैशम्भल्या च शीभादी पवर्गे च चतुर्थगः। श्लोक ५८।

७ मेण्यादौ प्राकृतश्च एः। श्लोक ६३।

८ द्र० सं० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ६६, ७० (प्र० सं०)।

जगदीश तर्कालकार ने वैयाकरण भागुरि के व्याकरण विषयक कतिपय नियम अपनी शब्दशक्तिप्रकाशिका में उद्धृत किए हैं। इन नियमों में गणशैली की दृष्टि से निम्न श्लोक विचारणीय हैं—

मुण्डादेस्तत् करोत्यर्थे गृह्णात्यर्थे कृतादितः ।

वक्तीत्यर्थे च सत्यादेरङ्गादेस्तन्निरस्यति ॥

तूस्ताद् विघाते संछादेर्वस्त्रात् पुञ्छादितस्तथा ।

सनातश्चाभियाने णि श्लोकादेरप्युपस्तुती ॥

ऐसा प्रतीत होना है कि पाणिनि के पुञ्छभाण्डचीरारिण्ड (३।१।२०) मुण्डमिश्रश्लेष (३।१।२१) सत्यापपाशरूप (३।१।२५) इन सूत्रों को ही गणशैली का सहारा लेकर उन्हें लघुरूप में उपस्थित करने का प्रयास किसी अर्वाचीन वैयाकरण द्वारा श्लोको में किया गया है।^१ परन्तु यदि ये श्लोक वस्तुतः प्राचीन आचार्य भागुरि के ही हों तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भागुरि ने पाणिनि की अपेक्षा कहीं अधिक गणशैली का उपयोग किया था।

इन श्लोकों के आधार पर भले ही हम भागुरि के व्याकरण में गणशैली के उपयोग के विषय में निश्चित रूप से कुछ न कह सकें पर भाषावृत्तिकार के साक्ष्य पर इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि भागुरि के व्याकरण में गणशैली अवश्य अपनायी गई थी। भाषावृत्तिकार ने यह सूचना दी है कि भागुरि के स्वस्त्रादि गण में नष्ट शब्द का भी पाठ था।^३

१ सं० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ७१ ।

२. सम्यादक के मत में ये श्लोक भागुरि प्रोक्त ही हैं। द्रष्टव्य इसी ग्रन्थ का परिशिष्ट ।

३. नप्ति भागुरिः । ४।१०॥ [कातन्त्र-परिशिष्ट की गोपीनाथ दत्त टीका पृष्ठ ३८६ (गुह्याय विद्यापति का संस्क०) में 'नप्ति भागवृत्तिः, नप्तीति भागुरिः' पाठ मिलता है। 'नष्ट' शब्द से खिलिह में ङीप् नहीं होता' यह मत भागवृत्तिकार के नाम से शब्दकोशुम (भाग ३, पृष्ठ १०) तथा दुर्घन्वृत्ति (पृष्ठ ७४) में भी उद्धृत है। ६० हमारा भागवृत्ति संकलन, ४।१।१०॥ हमारे विचार में भाषावृत्ति का पाठ यहाँ गणित है। पाठ कुछ भी हो, दोनों पदों में भागुरि के व्याकरण में 'स्वस्त्रादि' गण था, १।१।१० तो सर्वथा सत्य है। सम्या०]

काशकृत्स्न तथा गणशैली

डेकेन कालेज पूना से ए. एन. नरसिम्हैया सम्पादित 'काशकृत्स्न शब्द-बलाप धातुपाठ' नाम का एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है।^१ इस धातुपाठ पर चन्नवीर कविकृत वन्नड टीका भी है। इस टीका में आचार्य काशकृत्स्न के लगभग १३५ व्याकरण सूत्र उद्धृत हैं।^२ इन से काशकृत्स्न व्याकरण की रूपरेखा का पर्याप्त परिचय प्राप्त हो जाता है। इन्हीं सूत्रों में सौभाग्य से एक ऐसा सूत्र भी है, जिस से संकेत मिलता है कि काशकृत्स्न व्याकरण में गणशैली का उपयोग किया गया था। वह सूत्र है—

क्षिप्नादीनां न नो णः । पृष्ठ २८७ ।

इम सूत्र के द्वारा क्षिप् आदि धातुओं से निष्पन्न शब्दों में णत्व का निषेध किया गया है। काशकृत्स्न के इम सूत्र की पूरी तुलना पाणिनि के क्षुभ्नादिषु च (८।४।३९) सूत्र से की जा सकती है।

आपिशलि तथा उनका गणपाठ

पाणिनि ने अपने से पूर्ववर्ती वैयाकरण आपिशलि का अपने शब्दानुशामन में साक्षान् उल्लेख किया है।^३ श्री प० युधिष्ठिर मीमांसक ने व्याकरण शास्त्रीय विशाल वाङ्मय में इतस्तत विप्रकीर्ण आपिशलि के दस सूत्रों को प्रस्तुत किया है।^४ पतञ्जलि ने आपिशलि के एक नियम को प्रमाणरूप में महाभाष्य में उद्धृत किया है।^५ पदमञ्जरीकार हरदत्त ने आपिशलि-व्याकरण को पाणि-

१ काशकृत्स्न व्याकरण के सन्नध में विशेष देखें—स० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग २, अ० २०; तथा 'काशकृत्स्न व्याकरण और उसके उपलब्ध सूत्र' नामक निबन्ध ।

२ वा सुप्यापिशने । पा० ६।१।६६॥ [आपिशलि-प्रोक्त शिद्धा का उल्लेख भी पाणिनि ने अपनी सूत्रात्मक शिद्धा के आठवें प्रकरण में किया है—'स एव-मापिशनेः पञ्चदशभेदाख्या वर्णधर्मा भवन्ति' (पूर्णसंख्या ११६) । द्रष्टव्य हमारे द्वारा सम्पादित पाणिनीय शिद्धा । सम्पा०]

३ स० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ६८-६६ (प्र० स०) ।

४ एव च कृत्वा आपिशनेराचार्यस्य विधिरूपपत्नो भवति—धेनोरनञिकमुत्वा दयति । महा० ४।२।४५॥

नीय-व्याकरण की पृष्ठभूमि स्वीकार किया है।^१

इस प्रकार निश्चित रूप से पाणिनि से प्राचीन एव सुप्रतिष्ठित वैयाकरण आपिशलि के धातुपाठकी सत्ता को पतञ्जलि^२ और काशिकाकार^३ ने अस्पष्ट रूप में तथा स्कन्दस्वामी^४ और जिनेन्द्रबुद्धि^५ ने नाम निर्देशपूर्वक स्पष्टरूप में स्वीकार किया है। इसी प्रकार आपिशलि के सर्वादि गण की ओर भी पतञ्जलि और कैयट ने अस्पष्टरूप से संकेत किया है।^६ आचार्य भर्तृहरि ने आपिशलि का नामोल्लेख पूर्वक इस बात की स्पष्ट सूचना दी है कि आपिशलि के सर्वादिगण में पाणिनि के सर्वादिगण की अपेक्षा शब्दों के विन्यास में कुछ भिन्न क्रम अपनाया गया था।^७ उसमें त्यद् आदि शब्दों से पूर्व किम् को और उससे लेकर अस्मत् पर्यन्त शब्दों का पाठ करके पूर्वापराधर आदि गणसूत्रों अथवा शब्दों को स्थान दिया गया था।

उक्त सूचनाएँ इस तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि आचार्य आपिशलि ने अपने व्याकरण की दृष्टि से गणपाठ और धातुपाठ दोनों की निर्धारणा की थी।

१-कथं पुनराचार्यण पाणिनिना अवगतभेदे साधव इति ? आपिशलेन पूव व्याकरणेन । प० म० भाग १, पृष्ठ ६ । पाणिनिरपि स्वकाले शब्दान् प्रत्यक्षयन् आपिशलादिना पुत्रस्मिन्नपि काले सत्तामनुसंधत्ते, एवमापिशलिरपि । प० म० भाग १, पृष्ठ ७ ।

[पाणिनीय शिक्षासूत्रों की आपिशलि शिक्षासूत्रों के साथ तुलना करने से भी यही परिणाम निकलता है कि पाणिनीय शिक्षासूत्रों की पृष्ठभूमि आपिशलि शिक्षा सूत्र ही थे। सम्पा०]

२ अस्ति सकारमात्रमातिष्ठते । महा० १।३।२२॥ काशिका १।३।२२॥

३ उपजिघताति ह्यादसौ धातु व्याकरणस्य शास्त्रान्तरे आपिशलादौ स्मरणात् । निरुक्त भाष्य, भाग २, पृष्ठ २२ ।

४ सकारमात्रमस्ति धातुमापिशलिराचार्य प्रतिजानीते । तथाहि न तस्य पाणिनिरपि अस्य भुवीति पाठ । न्यास १।३।२२, पृष्ठ २२६ ।

५ द्र० व्यादादीनीति गण पठिवा वैश्वित् पूर्वादीनि पठितानि । महा० नवा० पृष्ठ ३११ ।

६ इह यदादीन्यापिशले किमादीनि अस्मत्पर्यन्तानि, तत पूर्वापराधरेति । उद्धृत सं० व्या० का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०२ (प्र० सं०) ।

उणादिसूत्र तथा गणशैली

उणादि सूत्रों के कर्त्ता तथा उनके समय के विषय में व्याकरण शास्त्र में ऐतिहासिक-मनीषा रखने वाले विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। नागेश भट्ट का विचार है कि उणादि सूत्र प्राचीन आचार्य शाकटायन द्वारा रचित हैं।^१ प्रो० मैक्समूलर ने इन सूत्रों को पाणिनि से प्राचीन माना है।^२ गोल्डस्ट्रुकर ने यह विचार उपस्थित किया है कि सम्प्रति उपलब्ध उणादि सूत्रों का प्रणयन आचार्य पाणिनि ने शाकटायन-व्याकरण के आधार पर किया था। पर उनमें बाद में कात्यायन ने प्रचुर परिवर्तन, परिवर्धन तथा सशोधन किया। इसी कारण वैयाकरण-परम्परा ने उनकी रचना का श्रेय कात्यायन को देना आरम्भ कर दिया, जिनका दूमरा नाम वररुचि था।^३

थोडेर आफ्रेक्ट ने उणादि सूत्रों का उज्ज्वलदत्त की वृत्ति के साथ सम्पादन किया है। इस स्वसम्पादित ग्रन्थ की भूमिका में कुछ रोचक हेतुओं को प्रस्तुत करके यह प्रतिपादन किया है कि “उणादि सूत्रों के कर्त्ता तथा उनके समय का पूरा-पूरा निश्चय भले ही न हो, पर इतना तो सर्वथा निश्चित है कि उणादि सूत्र अपने को पाणिनि से पर्याप्त प्राचीन प्रमाणित करते हैं।”^४ सम्पादक का कहना है कि “उणादि सूत्रों में कृपेर्वृद्धिशचोदीचाम् (१९६) तथा कृञ उदीचां कारुषु (५६५) इन दो सूत्रों से यह पता लगता है कि इस ग्रन्थ के रचयिता के समय, उत्तर देशवासियों के द्वारा खेती करने हारों के लिए कार्षिक तथा शिल्पी के लिए फारी शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर देशवासियों के शब्द प्रयोग की यह स्थिति निश्चित ही पाणिनि के समय नहीं थी।”^५ इसी तरह “भूसूभ्रस्त्रिभ्यश्चन्द्रसि (२३८) तथा अशि-

१ द्र० लघुशब्देन्दुशेखर, पूर्वार्ध ३।३।३१, पृष्ठ ४८६, ४८८, ४९०।

२ ए हिस्टरी आफ एन्शिएण्ट संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ७७।

३ पाणिनि हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ १६७-१७०।

४ द्र० भूमिका भाग, पृष्ठ १३।

५ पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कई स्थानों पर उदीच्य और प्राच्य देशवासियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों का अनुशासन किया है। यथा-अष्टा० ४।१।१५३, १५७, १६० ॥ अतः आफ्रेक्ट का लेख हेतुरहित कल्पनाप्रसूत होने से प्रमाणाहं नहीं हो सकता

मैक्समूलर फिट्सूत्रों को पाणिनि से प्राचीन मानते हैं।^१ गोल्डस्ट्रुकर ने भट्टोजी दीक्षित की फिट्सूत्र विषयक व्याख्या के दो एक स्थलों को उपस्थित करते हुए (केवल उन्हीं के आधार पर) फिट्सूत्रों को पाणिनि से अर्वाचीन मानना चाहा है। परन्तु चन्द्रगोमी की चान्द्रवृत्ति के एक स्थल से यह पूर्ण निश्चय हो जाता है कि फिट्सूत्र पाणिनि से प्राचीन हैं। वह स्थल इस प्रकार है—

एष प्रत्याहारः पूर्वव्याकरणेऽपि स्थित एव । अयं तु विशेषः—
एश्रोप् इति यदासीत् तद् एश्रोञ् इति कृतम् । तथाहि लघावन्ते
द्वयोश्च यद्वपो गुरुः, तृणधान्यानां च द्वयेषाम् इति पठ्यते ।^२

चान्द्रवृत्तिकार ने इन पङ्क्तियों में प्रत्याहार शैली की पाणिनि से प्राचीनता तथा प्राचीन प्रत्याहारों की पाणिनीय प्रत्याहारों से भिन्नता दिखाते हुए उदाहरण के रूप में फिट्सूत्र के दो सूत्र उद्धृत किये हैं। इस उद्धरण में फिट्सूत्रों की पाणिनि की अपेक्षा प्राकालिकता के विषय में उत्पन्न होने वाली सभी शङ्काएं समाप्त हो जाती हैं।

इस प्रकार पाणिनि से मुनिश्चित प्राचीन फिट्सूत्र जैसे छोटे संग्रह में घृतादि (११), आमादि (३८), कर्दमादि (५९), एशादि (८२) तथा वाचादि (८३) जैसे आकृति-गणों की विद्यमानता हमारी पूर्वोक्त 'गणशैली' के पाणिनि से पूर्व आविर्भूत होने की धारणा का पर्याप्त एवं अकाट्यरूपण पोषक है।

पाणिनि से पौरवकालिक गणपाठों की सत्ता के अन्य संकेत

अब कुछ ऐसे प्रमाण अथवा वचन उद्धृत किये जाते हैं, जिन से पाणिनि से प्राचीन आचार्यों के गणपाठों के विषय में थोड़ा वृत्त आभास मिलता है (अधिक कुछ नहीं)। विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए इन संकेतों को उपस्थित करना आवश्यक है।

अष्टाध्यायी से प्राप्त संकेत

पाणिनि के चूर्णादीन्यप्राण्यपष्ठथाः (६।२।१३४) सूत्र का पाठान्तर चूर्णादीन्यप्राण्युपप्रहात् के रूप में उपलब्ध होता है।^३ इस पाठान्तर में

१. द्र० ए हिस्ट्री ऑफ एशियेटिक संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ७८ ।

२. चान्द्रवृत्ति, तृतीयचन्द्र चटर्जी सम्पादित, प्रथम भाग, पृष्ठ ६ ।

३. द्र० काशिका ६।२।१३४॥

पाणिनि के सूत्र में विद्यमान पष्ठी पद के स्थान में उपग्रह शब्द का प्रयोग मिलता है। पाणिनीय सम्प्रदाय के वैयाकरण अच्छे प्रकार जानते हैं कि पाणिनि ने कहीं भी उपग्रह पद का प्रयोग नहीं किया। इस सम्प्रदाय में यदि कहीं उपग्रह पद का प्रयोग मिलता भी है^१ तो वह आत्मनेपद और परस्मै-पद का बोध कराने के लिए किया गया है, न कि पष्ठी विभक्ति के लिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चूर्णादीन्यप्राण्युपग्रहात् सूत्र किसी प्राचीन आचार्य का है। अर्थ की दृष्टि से सर्वथा समान दिखाई देने के कारण चूर्णादीन्यप्राण्युपग्रहात् सूत्र भी उपर्युक्त पाणिनीय सूत्र के पाठान्तर रूप में वृत्तिकारों द्वारा निर्दिष्ट होता चला आ रहा है। इसलिए यह संभावना स्वीकार्य हो सकती है कि पाणिनि के चूर्णादि गण का निर्धारण, पाठान्तर के रूप में स्मृत प्राचीन सूत्र के रचयिता आचार्य द्वारा हो चुका था। यह भी ध्यान रहे कि यह सूत्र समास-स्वरविषयक है, इसलिए पाणिनि से पूर्ववर्ती व्याकरणों में भी पाणिनि के समान ही स्वर का विधान था, यह भी स्पष्ट है।

पाणिनीय गणपाठ से प्राप्त संकेत

पाणिनि के यस्कादि गण (२।४।६३) में पुष्करसत् शब्द का पाठ मिलता है। यदि विचार किया जाए तो इस शब्द के यस्कादि गण में पढ़ने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यस्कादि गण में विद्यमान शब्दों में बहुवचन में वर्तमान गोत्रप्रत्यय के लुक् का विधान किया जाता है।^२ यनः पुष्करसत् शब्द प्राच्यगोत्र से संबन्ध रखता है, इसलिए इस से अभीष्ट लुग्विधान कार्य पाणिनि के एक अन्य सूत्र यद्वच इञः प्राच्यभरतेषु (२।४।६६) से हो जाता है। यस्कादि गण में पठित 'पुष्करसत्' शब्द को, उक्त अनावश्यक पाठ की स्थिति से बचाने के लिए हरदत्त ने अपनी पदमञ्जरी में यह विचार उपस्थित किया है कि सम्भवतः पाणिनि से प्राचीन किसी वैयाकरण ने अपने गोपवनादि गण में तौल्यल्यादयश्च^३ वाक्य भी पढ़ा था (ध्यान रहे कि पाणिनि के गोपवनादि गण में तौल्यल्यादयश्च

१. द्र० 'सुप्तिष्टुग्रहलिङ्गनराणाम्' । महा० ३।१।८५॥

२. द्र० यस्कादिभ्यो गोत्रे । पा० २।४।६३ ॥

३. यहां अष्टा० २।४।६१ में पठित 'न तौल्यलिभ्यः' सूत्र का पाठ न करके गोपवनादि के अन्तर्गत ही तौल्यल्यादि को पढ़ा या, यह अग्निप्राय नहीं है। क्योंकि

पाठ नहीं है)। इस का अभिप्राय यह हुआ कि किसी प्राचीन आचार्य ने तौल्वल्यादि गण में विद्यमान शब्दों की प्रकृतियों का भी गोपवनादि गण में अन्तर्भाव माना था। यत 'तौल्वल्यादि' गण में 'पुष्करमत्' शब्द भी पठित है इसलिए उक्त प्राचीन आचार्य के गणपाठ की दृष्टि से उसके 'गोपवनादि' गण में 'पुष्करमत्' शब्द भी अन्तर्भूत था। तदनुसार न गोपवनादिभ्य (२।४।६७) सूत्र जो गोपवनादि गण में पठित शब्दों में यस्कादिभ्य गोत्रे (२।४।६३) इत्यादि से प्राप्त होने वाले गोत्रप्रत्ययों की लुक्प्राप्ति का प्रतिषेध करता है, वह 'पुष्करमत्' शब्द के साथ समुक्त होने वाले गोत्रप्रत्यय के लुक् का भी प्रतिषेध कर देता है। इसलिए न गोपवनादिभ्य (२।४।६७) से प्राप्त लुक्प्रतिषेध को रोकने के लिए अर्थात् पुन लुक् की प्राप्ति कराने के लिए यस्कादि गण में 'पुष्करसत्' शब्द का पाठ किया है। दूसरे शब्दों में होने यह स्वीकार होगा कि आचार्य पाणिनि ने किसी प्राचीन आचार्य के गणपाठ की दृष्टि से अपने यस्कादि गण में 'पुष्करमत्' शब्द का पाठ किया है। यदि कोई यह कहे कि पाणिनि के अपने गणपाठ की दृष्टि से कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो रही थी, पुन पाणिनि ने यस्कादि गण में 'पुष्करसत्' शब्द का पाठ क्यों किया? इस का उत्तर यह है कि जिस प्रकार अनेक स्थानों में महाभाष्यकार अनर्थक सज्ज्ञापयत्याचार्य न्याय

'न तौल्वलिभ्य' (२।४।६१) सूत्र पृथसून से प्राप्त शुवप्रत्यय क लोप का निषेध करता है, और 'न गोपवनादिभ्य' (२।४।६७) सूत्र गोत्र में विहित प्रत्यय के बहुवचन में विहित लुग्विधान का प्रतिषेध करता है। दोनों का अपना भिन्न भिन्न कार्य है। इसलिए गोपवनादि गण में पठित 'तौल्वल्यादयश्च' सूत्र का 'न तौल्वलिभ्य' सूत्र के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। हा, 'न तौल्वलिभ्य' सूत्र में निर्दिष्ट तौल्वल्यादि गण का इसमें भी समावेश माना है। तदनुसार 'तौल्वलि तौल्वली, तौल्वलय' आदि में बहुवचन में इत्प्रत्यय का लोप नहीं होता। सम्पादक।

१ एव तर्हि गोपवनादिषु केचित् तौल्वल्यादयश्चेति पठन्ति। तौल्वल्यादिषु पठिता प्रकृतिभागा अपि गोपवनादिषु द्रष्टव्या इत्यर्थः। तेन 'न गोपवनादिभ्य' इति निषेधे प्राप्ते अत्रापि पाठः। अयमेव च पाठो शक्यति गोपवनादिषु तौल्वल्यादयोऽपि पठिता। पदमञ्जरी, भाग १ पृष्ठ ४८६।

[यही मत न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि का भी है। द्रष्टव्य न्यास २।४।६३, भाग १, पृष्ठ ४७३। सम्पादक]

पाणिनि के सूत्र मे विद्यमान पष्ठी पद के स्थान मे उपग्रह शब्द का प्रयोग मिलता है। पाणिनीय सम्प्रदाय के वैयाकरण अच्छे प्रकार जानते है कि पाणिनि ने कही भी उपग्रह पद का प्रयोग नही किया। इस सम्प्रदाय मे यदि कही उपग्रह पद का प्रयोग मिलता भी है^१ तो वह आत्मनेपद और परस्मै-पद का बोध कराने के लिए किया गया है, न कि पष्ठी विभक्ति के लिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चूर्णादीन्यप्राण्युपग्रहात् सूत्र किसी प्राचीन आचार्य का है। अर्थ की दृष्टि से सर्वथा समान दिखाई देने के कारण चूर्णादीन्यप्राण्युपग्रहात् सूत्र भी उपर्युक्त पाणिनीय सूत्र के पाठान्तर रूप मे वृत्तिकारो द्वारा निर्दिष्ट होता चला आ रहा है। इसलिए यह सभावना स्वीकार्य हो सकती है कि पाणिनि के चूर्णादि गण का निर्धारण, पाठान्तर के रूप मे स्मृत प्राचीन सूत्र के रचयिता आचार्य द्वारा हो चुका था। यह भी ध्यान रहे कि यह सूत्र समास स्वरविषयक है, इसलिए पाणिनि से पूर्ववर्ती व्याकरणो मे भी पाणिनि के समान ही स्वर का विधान था, यह भी स्पष्ट है।

पाणिनीय गणपाठ से प्राप्त संकेत

पाणिनि के यस्कादि गण (२।४।६३) मे पुष्करसत् शब्द का पाठ मिलता है। यदि विचार किया जाए तो इस शब्द के यस्कादि गण मे पढने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती। यस्कादि गण मे विद्यमान शब्दो से बहुवचन मे वर्तमान गोनप्रत्यय के लुक् का विधान किया जाता है।^२ यन. पुष्करसत् शब्द प्राच्यगोत्र से संबन्ध रखता है, इसलिए इस से अभीष्ट लुक्विधान कार्य पाणिनि के एक अन्य सूत्र यद्वच इजः प्राच्यभरतेषु (२।४।६६) से हो जाता है। यस्कादि गण मे पठित 'पुष्करसत्' शब्द को, उक्त अनावश्यक पाठ की स्थिति से बचाने के लिए हरदत्त ने अपनी पदमञ्जरी मे यह विचार उपस्थित किया है कि सम्भवत पाणिनि से प्राचीन किसी वैयाकरण ने अपने गोपवनादि गण मे तौल्यल्यादयश्च^३ वाक्य भी पढा था (ध्यान रहे कि पाणिनि के गोपवनादि गण मे तौल्यल्यादयश्च

१ द्र० 'सुप्तिष्ठुपग्रहलिङ्गनराणाम्'। महा० ३।१।८५॥

२ द्र० यस्कादिभ्यो गोत्रे। पा० २।४।६३॥

३ यहा अण० २।४।६१ में पठित 'न तौल्यलिङ्ग्य' सूत्र का पाठ न करके गोपवनादि के अन्तर्गत ही तौल्यल्यादि को पढा था, यह अभिप्राय नहीं है। क्योंकि

पाठ नहीं है)। इस का अभिप्राय यह हुआ कि किसी प्राचीन आचार्य ने तौल्वल्यादि गण में विद्यमान शब्दों की प्रकृतियों का भी गोपवनादि गण में अन्तर्भाव माना था। यत 'तौल्वल्यादि' गण में 'पुष्करमत्' शब्द भी पठित है इसलिए उक्त प्राचीन आचार्य के गणपाठ की दृष्टि से उसने 'गोपवनादि' गण में 'पुष्करमत्' शब्द भी अन्तर्भूत था। तदनुसार न गोपवनादिभ्यः (२।४।६७) सूत्र जो गोपवनादि गण में पठित शब्दों से यस्कादिभ्य गोत्रे (२।४।६३) इत्यादि से प्राप्त होने वाले गोत्रप्रत्ययों की लुक्प्राप्ति का प्रतिषेध करता है, वह 'पुष्करमत्' शब्द के साथ समुक्त होने वाले गोत्रप्रत्यय के लुक् का भी प्रतिषेध कर देता है। इसलिए न गोपवनादिभ्यः (२।४।६७) से प्राप्त लुक्प्रतिषेध को रोकने के लिए अर्थात् पुन लुक् की प्राप्ति कराने के लिए यस्कादि गण में 'पुष्करसत्' शब्द का पाठ किया है। दूसरे शब्दों में हमें यह स्वीकार होगा कि आचार्य पाणिनि ने किसी प्राचीन आचार्य के गणपाठ की दृष्टि से अपने यस्कादि गण में 'पुष्करमत्' शब्द का पाठ किया है। यदि कोई यह कहे कि पाणिनि ने अपने गणपाठ की दृष्टि से कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो रही थी, पुन. पाणिनि ने यस्कादि गण में पुष्करसत् शब्द का पाठ क्यों किया ? इस का उत्तर यह है कि जिस प्रकार अनेक स्थानों में महाभाष्यकार अनर्थक सञ्ज्ञापयत्याचार्य, न्याय

'न तौल्वलिभ्यः' (२।४।६१) सूत्र पृथसूत्र से प्राप्त सुबप्रत्यय के लोप का निषेध करता है, और 'न गोपवनादिभ्य' (२।४।६७) सूत्र गोत्र में विहित प्रत्यय के बहुवचन में विहित लुग्विधान का प्रतिषेध करता है। दोनों का अपना भिन्न भिन्न कार्य है। इसलिए गोपवनादि गण में पठित 'तौल्वल्यादयश्च' सूत्र का 'न तौल्वलिभ्य' सूत्र के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। हा, 'न तौल्वलिभ्य' सूत्र में निर्दिष्ट तौल्वल्यादि गण का इसमें भी समावेश माना है। तदनुसार 'तौल्वलि तौल्वली, तौल्वलय' आदि में बहुवचन में इत्प्रत्यय का लोप नहीं होता। सम्पादक।

१ एव तर्हि गोपवनादिषु केचित् तौल्वल्यादयश्चेति पठन्ति । तौल्वल्यादिषु पठिता प्रकृतिभागा अपि गोपवनादिषु द्रष्टव्या इत्यर्थं । तेन 'न गोपवनादिभ्य' इति निषेधे प्राप्ते अत्रास्य पाठ । अयमेव च पाठो शक्यति गोपवनादिषु तौल्वल्यादयोऽपि पठिता । पदमञ्जरी, भाग १ पृष्ठ ४८६ ।

[यही मत न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि का भी है। द्रष्टव्य न्यास २।४।६३, भाग १, पृष्ठ ४७३ । सम्पादक]

के अनुसार किसी पाणिनीय पद की अनर्थकता से अर्थ विशेष का ज्ञापन करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी यस्कादि गण में 'पुष्करमत्' पद का पाठ अनर्थक होकर ज्ञापन करता है कि गोपत्रनादि गण में तौल्वल्यादि प्रकृतियों का भी पाठ है (यही ज्ञापन पदमञ्जरीकार हरदत्त और न्यासकार जिनेन्द्र बुद्धि ने किया है)। इस ज्ञापक से तौल्वलि आदि शब्दों के बहुवचन में इत्र् का लोप नहीं होता। यदि यह ज्ञापक न माना जाय तो यस्कादि में पुष्कर मत् शब्द का पाठ तो अनर्थक होगा ही, साथ में तौल्वलि आदि शब्दों के बहुवचन में गोत्रप्रत्यय का लुग् प्राप्त होगा, जो कि इष्ट नहीं है।

पाणिनीय गणपाठ में उक्त्यादि (४।२।६०) तथा कथ्यादि (४।१।१०२) गणा में वृत्ति, संग्रह, गण, आयुर्दे प्रभृति शब्दों का समान पाठ मिलता है। ये सभी शब्द विभिन्न विषयों तथा उनके ग्रन्थविशेषों के वाचक हैं। इन में भी वृत्ति और संग्रह ये दो शब्द तो संभवतः व्याकरण क्षेत्र के ही ग्रन्थों के वाचक हैं। उन दोनों गणों में समानरूप से पठित गण शब्द भी, जैसा कि भट्ट यज्ञेश्वर का निश्चित विचार है, गणपाठ का ही बोधक है।^१ अतः यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ गणकार पाणिनि ने अपने से प्राचीन किसी या किन्हीं गणपाठों को ध्यान में रखकर गणमीध्यानों त्रिदन् वा अथवा गणो साधु इन अर्थों में प्रदुज्यमान गणिक शब्द के माधुत्व के लिए गण शब्द को उच्युक्त गणों में प्रस्तुत किया है।

श्री डा० वामुदेवशरण अग्रवाल ने उक्त्यादि गण में केवल काशिका के मुद्रित पाठ के अनुकरण पर गण गुण शब्दों के स्थान में गुणागुण पाठ माना है।^२ तथा 'गुण' शब्द को अत्रेङ्गुण (१।१।२) सूत्र से सञ्ज्ञित गुण और 'अगुण' को वृद्धि का बोधक स्वीकार किया है। परन्तु केवल काशिका मुद्रित गणपाठ को छोड़कर अन्य किसी भी पाणिनीय अथवा पाणिनीयेतर मुद्रित गणपाठों में तथा उनके हस्तलेखों में उक्त्यादि गण में गुणागुण पाठ नहीं मिलता। सर्वत्र गुण, गण इन दो शब्दों का ही पाठ मिलता है। 'कथ्यादि' गण के पाठ की तुलना से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। वहाँ काशिका में भी गुण, गण इन दो शब्दों का ही पाठ मिलता है। यह भी ध्यान रहे कि 'उक्त्यादि' तथा 'कथ्यादि' दोनों गणों में वृत्ति, संग्रह,

१. गणो गणपाठ । तमधीयानो त्रिदन् वा गणिक । गणरसाली, पृष्ठ ६८ ।

२. शिड्या एज नोन दु पाणिनि, पृष्ठ ३४८ ।

गुण, गण, श्रायुर्वेद ये पाचों शब्द लगभग एक ही क्रम से पठित हैं। केवल गुण तथा गण शब्दों के विन्यास में परिवर्त्य है। 'उक्थादि' गण में गण शब्द प्रथम पठित है और गुण वाद में, परन्तु 'कथादि' गण में गुण प्रथम है गण वाद में। इसलिए दोनों गणों में गुण तथा गण शब्दों का ही पाठ मानना होगा और वह भी पृथक्-पृथक्। ऐसी स्थिति गुणागुण पाठ के अनौचित्य स्वीकार करने के लिए हम बाध्य हैं। इतना ही नहीं, डा० अग्रवाल के द्वारा किया गया अगुण शब्द का वृद्धि अर्थ सम्पूर्ण वैयाकरण वाङ्मय उपलब्ध नहीं होता। इसलिए डा० अग्रवाल द्वारा स्वीकृत तथा व्याख्यात पाठ के साथ हम किसी भी प्रकार सहमत नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में गण शब्द का पाठ ही स्वीकार्य होता है। उस अवस्था में गण शब्द को पाणिनि से प्राचीन किसी गणपाठ का अथवा गणप्रक्रिया का बोधक मानना सर्वथा युक्तियुक्त है।

इसके अतिरिक्त पाणिनि के गौरादि (११।४१) गण के अन्त में पिप्पल्यादयश्च एक गणसूत्र मिलता है। इस गणसूत्र के द्वारा किसी पिप्पल्यादि गण का निर्देश किया गया है, यह सर्वथा स्पष्ट है। परन्तु पाणिनि ने अपने गणपाठ में पिप्पल्यादि नाम के किसी गण का निर्देश अन्यत्र नहीं किया। हां, इस गणसूत्र के साथ ही पिप्पली, हरीतकी, कोशातकी, शमी, करीरी, पृथिवी, क्रोष्टी^१ इतने शब्दों का पाठ भी पाणिनीय गणपाठ में उपलब्ध होता है, जो सम्भवतः वृत्तिकारों द्वारा संगृहीत है। यहां यह विचारणीय है कि 'गौरादि' गण में पिप्पल्यादयश्च गणसूत्र की तथा उसके द्वारा पिप्पल्यादि गण के निर्देश की क्या आवश्यकता है। यह तो संस्कृत व्याकरण का सामान्य विद्यार्थी भी जानता है कि गौरादिगण आकृतिगण है। आकृतिगण की परिभाषा करते हुए वैयाकरणों ने यह स्वीकार किया है कि प्रयोग की समानता के आधार पर आकृति गणों में यथेच्छ शब्दों का अन्तर्भाव किया जा सकता है। पदमञ्जरीकार ने स्पष्ट कहा है—प्रयोगदर्शनेन आकृति-ग्राह्यो गण आकृतिगणः।^२ इसलिए गौरादिगण के आकृतिगण होने के कारण पिप्पल्यादि से निर्दिष्ट पिप्पली, हरीतकी इत्यादि सभी शब्दों का गौरादिगण में स्वतः

१. महाभाष्य ७।१।६७ तथा उसके प्रदीप व्याख्यान के अनुसार डीप्रहित उकारान्त 'क्रोष्ट' शब्द का पाठ होना चाहिए।

२. प० म० भाग १, पृष्ठ ३८०।

अन्तर्भाव हो जाता है और इस रूप में पिप्पल्यादि गण के शब्दों से डीप् की प्राप्ति सर्वथा सुगम है। यदि पिप्पल्यादि गण की सत्ता ही अभीष्ट हो तो स्वयं उसके भी आकृतिगण होने से उसमें ही गौरादिगण से निष्पन्न 'गौरी' आदि अभीष्ट शब्दों का अन्तर्भाव हो जाएगा। तदनुसार गौरादिगण की सत्ता अवाञ्छनीय एवं अस्वीकार्य हो जाती है। इसलिए न्यूनानिन्यून पाणिनीय गणपाठ की दृष्टि से गौरादिगण में पिप्पल्यादयश्च गणसूत्र तथा उससे निर्दिष्ट पिप्पल्यादि गण का निर्धारण सर्वथा अनावश्यक है।^१ लोहितादि (४१११८) हरितादि (४१११००) अथवा कर्मादि (४१११११) जैसे अवान्तर गणों के समान इस पिप्पल्यादि गण को अवान्तर गण भी नहीं माना जा सकता क्योंकि अष्टध्यायी के किसी सूत्र में अवान्तरगण के रूप में इस गण का प्रयोग पाणिनि ने नहीं किया है। इतना ही नहीं दोनों गौरादि तथा पिप्पल्यादि गणों के शब्दस्वरूपों में एक मौलिक अन्तर भी है। यदि एक के शब्द अकारान्त हैं तो दूसरे के ईकारान्त। तथा यदि एक के शब्द अनिष्पन्न (डीप् रहित) हैं तो दूसरे के निष्पन्न (डीपन्त)। इसलिए भी पिप्पल्यादि को गौरादि का अवान्तरगण नहीं माना जा सकता। अतः हमारी यह निश्चित धारणा है कि गौरादि गण में गणसूत्र के रूप में दिखाई देने वाला पिप्पल्यादयश्च वाक्य पाणिनि से प्राचीन किसी वैयाकरण सूत्रकार का सत्र है उसीने अपने गणपाठ में पिप्पल्यादि गण का भी निर्धारण किया था।

पाणिनि ने सम्भवतः लाघव की दृष्टि से पिप्पल्यादि नाम न रखकर उम व स्थान में गौरादि नाम ही रखना उचित समझा परन्तु दोनों गणों का अभिप्राय एक होने के कारण अनावश्यक होने पर भी प्रमादवश पाणिनि व गौरादिगण में पूवाचार्य निर्धारित पिप्पल्यादि गण अपने कुछ शब्दों व माय अपनी आकृति-गणना में घोटन करते हुए आज भी अपनी मत्ता बनाए हुए हैं।^२

१. पिप्पल्यादयो गौरादियु पठयन्त। डीपतपाठस्तु चिन्त्यप्रयोजन।
किञ्च श्रवान्तरगणवाभ्युपगमोऽपि। धालमनोरमा (४१११४१)।

२. 'पिप्पल्यादयश्च गणसूत्रे श्रीर उक्ते उदाहरणभूत 'पृथिवी क्रोधी आदि शब्दो व विषय में श्रु० ७।१।६६ का 'एव गौरादियु पाठादीकारो भविष्यति। गौरादियु न पठयत। यदि किञ्चित्पुनर्त गौरादियु पठयते इति' भाष्यप्रत्यय श्रीर

इसी प्रकार पाणिनीय गणपाठ के कुछ गणों के शब्दों तथा उनका निर्देश करने वाले अष्टाध्यायी के उन उन सूत्रों में आए शब्दों के स्वरूपों पर विचार करे तो प्रस्तुत प्रसंग से संबन्ध रखने वाले कुछ और संकेत भी उपलब्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए नन्द्यादि (३।१।१३४), ग्रहादि, (३।१।१३४) पचादि (२।१।१३४) तथा भिदादि (३।३।१०४) गण द्रष्टव्य है। स्पष्ट है कि इन गणों में नन्दन, ग्राही, पचः तथा भिदा जैसे निष्पन्न शब्दों का पाठ किया गया है। यह स्वरूप उन उन सूत्रों से विधीयमान प्रत्ययों का उन उन धातुओं के साथ संयोग होने पर ही बनना है, परन्तु इन गणों से संबन्ध रखकर अभिप्रेत प्रत्ययों का विधान करने वाले नन्दि-ग्रहपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः (३।१।१३४) तथा पिद्भिदादिभ्योऽङ् (३।३।१०४) सूत्रों में इनकी प्रकृतिभूत नन्दि, ग्रहि, पच, भिद आदि धातुओं का ही निर्देश किया गया है। इस विपमता के साथ साथ, ठीक इस के विपरीत स्थिति भी गणपाठ में उपलब्ध होती है। नित्य सपत्न्यादिपु (४।१।३५) सूत्र गणपाठ के सपत्न्यादि गण से संबन्ध रखता है। परन्तु दोनों में पर्याप्त विपमता है। गणपाठ के इस गण में समान, एक, वीर आदि पत्नी-शब्दरहित केवल पूर्वपद के शब्दों का ही पाठ मिलता है। परन्तु सूत्र में गणनिर्देशक शब्द सपत्न्यादि है। सूत्रनिर्देश के अनुसार गणपाठ में सपत्नी एकपत्नी आदि शब्दों का पाठ होना चाहिए था, अथवा इस गण में पठित शब्दों के अनुसार इस गण का नाम समानादि होना चाहिए था। तदनुसार इस गण से सम्बद्ध पाणिनि के सूत्र का पाठ होना चाहिए था—नित्यं समानादिभ्यः। प्रकरण को दृष्टि में रखते हुए यह सूत्र रचना स्वाभाविक थी और पर्याप्त भी। क्योंकि पत्युर्नो यद्सयोगे (६।१।३३) इस पूर्व सूत्र से पति शब्द की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, उससे पत्यन्त अभिप्राय सूत्रार्थ में स्वतः उपस्थित हो जाता।

उस का व्याख्यानभूत 'गौरादिपाठादिति-पृथिवी क्रोष्टु पिप्पल्यादयश्चेति छेदाध्यायिन' पठन्ति। न किञ्चिदिति-सहिताध्यायिनो न पठन्ति' प्रदीप ग्रन्थ विशेष द्रष्टव्य और विचारणीय है। कैयट के 'छेदाध्यायिन' और 'सहिताध्यायिन' निर्देश अत्यधिक महत्त्व रखते हैं। सम्पूर्ण गणपाठ का इस दृष्टि से भी विचार करना आवश्यक है। सम्पादक।

पाणिनीय सूत्रपाठ और गणपाठ दोनों में एक प्रकार की विपमता और भी उपलब्ध होती है। पाणिनि का सूत्र है—अज्ययीभावाच्च (४।३।५९), परन्तु गणपाठ में इस में प्रसङ्ग परिमुख, परिहनु आदि विशिष्ट शब्दों का पाठ मिलता है।^१ यहाँ सूत्र और गणस्थ शब्दों में न पूर्वपद की समानता है, न प्रकृत्यश की और न सूत्रविहित प्रत्ययसन्नियोग से निष्पन्न शब्दों का ही निर्देश है।

उपर्युक्त तीनों प्रकार की विपमताएँ इस सभावन को व्यक्त करती हैं कि पाणिनि ने अपने से पूर्वभावी किसी आचार्य के गणपाठ अथवा सूत्रपाठ का अनुसरण करते हुए सूत्ररचना के अनुकूल इन गणों के स्वरूप का निर्धारण नहीं किया, अथवा गणों में विद्यमान शब्दों के स्वरूप के अनुकूल सूत्ररचना को नहीं अपनाया। दोनों में से किसी भी एक स्थिति को मानने पर उपर्युक्त गणों की सत्ता पाणिनि से पूर्व स्वतः मिथ्य होती है।

कात्यायन तथा पतञ्जलि के संकेत

पाणिनि के गोत्राद्ययवात् (४।१।७९) सूत्र की आवश्यकता पर विचार करते हुए कात्यायन के सिद्ध तु रौढश्चादिपूपसंख्यानात्^२ वार्तिक भी इस प्रसंग में विशेष विचारणीय है। कात्यायन का यह विचार है कि पाणिनि के उक्त सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूत्र के द्वारा जिन शब्दों से प्यङ् आदेश अभीष्ट है उन का रौढश्चादि गण में उपसह्यायन कर दिया जायगा। परन्तु प्रश्न यह है कि रौढश्चादि गण है कहा? पाणिनि के गणपाठ में तो इस नाम का कोई गण है ही नहीं। महाभाष्यकार पतञ्जलि ने यह सूचना दी है कि पाणिनि के गणपाठ में जिसे कौडश्चादि

१. कई वैयाकरण 'अज्ययीभावाच्च' (४।३।५९) सूत्र पर 'परिमुखादिभ्य उपसंख्यानात्' वार्तिक को देखकर परिमुखादि को वार्तिकगण मानते हैं। न्यासकार ने परिमुखादि को वार्तिकगण न मानकर गणपाठस्थ गण ही स्वीकार किया है और सूत्रपाठ तथा गणपाठ की विपमता के कारण का विस्तार से प्रतिपादन किया है। गणरचनायलीकार यशेश्वर भट्ट ने भी परिमुखादि गण को गणकार का ही स्वीकार किया है (पृष्ठ २६१, हमारा हस्तलेख)। नालमनोरमा और तत्त्वबोधिनी के रचयिताओं का भी यही मत है। सम्भा०।

२. महा० ४।१।७९।। सम्पादक के मत में यह कात्यायन का वार्तिक नहीं है। इस पर विशेष विचार परिशिष्ट में देंगे।

नाम दिया है, उसे ही किमी पूर्वाचार्य के गण मे रौढ्यादि नाम दिया गया था ।^१ पर आश्चर्य है कि पाणिनि के कौड्यादि गण मे 'रौढि' शब्द क्यों नहीं दिखाई देता ?

अपने गणपाठ मे रौढ्यादि गण का निर्देश करने वाला यह प्राचीन आचार्य कौन था, यह ठीक ठीक निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता । व्याकरण के वाङ्मय मे एक रौढि नाम का आचार्य प्रसिद्ध है ।^२ क्या रौढ्यादि गण के साथ उसका कुछ मन्व्य हो सकता है ?

प्रो० बुहलर तथा उनके अनुयायी प्रो० बर्नेल का यह विचार है कि 'अष्टाध्यायी मे प्राचीन आचार्य शाकटायन के जो दो तीन मत उद्धृत है, वे सभी अर्वाचीन जैन शाकटायन व्याकरण मे भी उपलब्ध होते हैं ।'^३ यत वही भी उस प्राचीन आचार्य का नाम लेकर उन मतों को जैन शाकटायन व्याकरण मे उपस्थित नहीं किया गया, इसलिए इन विद्वानों की धारणा है कि पाल्यकीर्ति के जैन शाकटायन व्याकरण का आधार पाणिनि द्वारा स्मृत प्राचीन शाकटायन व्याकरण ही था ।^४ यद्यपि यह धारणा बहुत सुस्पष्ट तथा प्रौढ युक्ति वाली नहीं है, पर यदि इन ही यह धारणा किसी प्रकार ठीक मानली जाए तो उमी धारणा के आधार पर यह संभावना भी की जा सकती है कि पाणिनि के कौड्यादि गण का पूर्वरूप रौढ्यादि गण का निर्धारण भी प्राचीन आचार्य शाकटायन द्वारा ही किया गया होगा । प्राचीन शाकटायन के रौढ्यादि नाम का दूसरा रूप रूढादि आज भी जैन शाकटायन व्याकरण मे विद्यमान है ।^५

चाक्रवर्मण का सर्वादिगण

पाणिनि की अष्टाध्यायी मे स्मृत आचार्य चाक्रवर्मण के मत मे द्वय शब्द की भी सर्वनाम मज्ञा होती थी, ऐसा कतिपय विद्वानों का कथन है ।^६

१. के पुना रौढ्यादय । ये कौड्यादय । महामाध्य । द्र० कैयट — 'पूर्वाचार्य-संज्ञया एवमभिहितम् इत्यर्थं । महा० प्रदीप ४।१।७६ ।

२. इस आचार्य के सामन्य परिचय के लिए स० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ६६ (प्र० स०) देखिए ।

३. द्र० आन दी ऐन्द्रस्वूल आफ संस्कृत प्रामेरियन्स, पृष्ठ ६६ तथा उसके आगे ।

४. रूढादिभ्य १।३।४ ॥

५. यत्तु कश्चिदाह चाक्रवर्मणव्याकरणे द्वयपदस्यापि सर्वनामताभ्युपमात् । शब्दकोशुम् १।१।२७ ॥

तृतीय अध्याय

✓ आचार्य पाणिनि और उन का गणपाठ

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आचार्य पाणिनि से पूर्व वैयाकरणों की एक सुदीर्घ परम्परा भारतवर्ष में विद्यमान थी। इस परम्परा के जिन विभिन्न व्याकरणों की पृष्ठभूमि पर पाणिनीय व्याकरण का निर्माण सम्भव हो सका, वे सभी प्राचीन व्याकरण सम्प्रति अनुपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में उन के स्वरूप व विषय में कुछ भी धारणा बनानी अनुचित होगी, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि पाणिनि से पूर्व के व्याकरण-दीपक विशालतम संस्कृत भाषा के एक एक कोने को ही प्रकाशित कर पाते थे। भाषा-धारा की सतत परिवर्तमान स्वाभाविक एवं स्वच्छन्द गतिविधि से परित्यक्त तथा अधिष्ठत सभी पुराणों तथा नये प्रदेशों का यथावश्यक सूक्ष्म ध्यान रखकर सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय को प्रकाशित करने वाले सरल, सरल एवं सूक्ष्म सूत्र शैली में निरद्वय व्याकरण के महान् अभाव की पूर्ति एक मात्र आचार्य पाणिनि ने द्वारा ही सम्भव हो सकी। सम्भवतः यही कारण है कि लौकिक वैदिक शब्दों को व्याप्त करने वाले पाणिनीय शब्दानुशासन ने महान् प्रकाशस्तम्भ के जाज्वल्यमान पारदर्शी प्रकाश के सम्मुख प्राचीन व्याकरण अभिभूत होने गए और कुछ समय पश्चात् नाम शेषता को प्राप्त हो गए। इतना ही नहीं, अपने उत्तरवर्ती आचार्य चन्द्रगोमी, पूज्यपाद (देवनन्दी), पाल्यकीर्ति, श्रीभोज, हमचन्द्र तथा नरेन्द्राचार्य जैसे अनेक वैयाकरणों को अपनी विशिष्ट आभा का मुक्तहस्त दान देता हुआ, विद्वन्मूर्धन्य भाषा तत्त्वज्ञों की उत्कृष्ट प्रतिभा की खरी रसौटी बना हुआ ढाई महान् वर्षों के करान-शूर घटना-क्रमों से उत्पन्न अनिवार्य परिस्थितियों का तिरस्कार करता हुआ महान् सुविहित पाणिनीय शब्दानुशासन आज भी अमिताभ एवं चिर-तेजस्वी बना हुआ संस्कृतवाङ्मय के अगाध महार्णव के मुक्ताग्राहक गम्भीर गोनाबोरो के लिए मार्ग प्रदर्शन का कार्य कर रहा है।

पाणिनि का समय

पाणिनि का समय भी ऐतिहासिक अन्वेषकों के लिए प्राग्भ में ही

पर्याप्त विवाद का विषय रहा है। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इस विषय में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इण्डिया एज नोन टु पाणिनि' में पर्याप्त विस्तार से विचार किया है। बहुविध हेतुओं साहित्यिक युक्तियों, अष्टाध्यायी में मिलने वाले मखलि गोमाल का वाचक 'मस्वरी' शब्द कुमारीश्रमणा, निर्वाण, निकाय इत्यादि बौद्ध शब्द, श्रविष्ठा नक्षत्र की प्रायमिकता, तारानाय, कथासरित्सागर, मञ्जूश्रीमूलकल्प, यूवान् च्वाग और राजशस्त्र आदि के पाणिनि तथा नन्द विषयक उल्लेखों पाणिनि-कालिक राजनैतिक स्थितियों, मुद्राआ और मनुष्य नामों की गम्भीर परीक्षा के आधार पर पाणिनि का समय पाचवी शताब्दी ईस्वी पूर्व निश्चित किया है, जिसे हम भी पर्याप्त प्रामाणिक मानने ह।

पाणिनि की सूत्र-शैली

या तो ब्राह्मण ग्रन्थों के कर्मकाण्डी वातावरण में जन्म ल कर श्रौत, गृह्य तथा धर्मसूत्रों में ही नहीं अपितु दर्शन आदुर्वेद प्रभृति अनेक क्षेत्रों में और विोपत व्याकरण के क्षेत्र में सूत्रशैली उत्तरोत्तर अपने स्वरूप निर्धारित करनी जा रही थी। ऐसे समय में संस्कृत व्याकरण के विपुल आकाश में परम तेजस्वी महान् सूत्रशिल्पी आचार्य पाणिनि का उदय हुआ। आचार्य पाणिनि की गम्भीर और तेजस्विनी प्रतिभा ने, अपने से प्राचीन आचार्यों के, उपसर्ग अर्थ के वाचक ह अथवा द्योतक, शब्द का अर्थ व्यक्ति ह अथवा जाति, सभी नाम आख्यातज हैं अथवा नहीं, इन विभिन्न मतभेदों से अपने को दूर रख कर तटस्थता की नीति अपनाते हुए अथवा दूसरे शब्दों में मध्यम मार्ग अर्थान् यथावन्तर उपर्युक्त सभी विचारों का आश्रयण करते हुए प्राचीन आचार्यों की लोकप्रसिद्ध कालविषयक अथवा उस प्रकार की अन्य परिभाषाओं के अनावश्यक भार से सूत्र-पद्धति को मुक्त करते हुए^१, सूत्रों के सजा,

१ द्र० इण्डिया एज नोन टु पाणिनि। पृष्ठ ४५५-४५७।

विशेष-इस विषय में सम्पादकीय मत सर्वथा भिन्न है। परिशिष्ट में इस विषय में टिप्पणी देखें।

२ पाणिन्युपसर्गकालक व्याकरणम्। काशिका २।४।२१, सरस्वतीकण्ठामरण हृदयहारिणी टीका ३।३।१२६। तुलना करिए-पाणिनापसर्गकालक व्याकरणम्। चाद्र-वृत्ति २।२।६२॥

परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, तथा अधिकार इन सभी प्रकारों को अपनाकर अनुवृत्तियों की सहायता से इन सूत्रों को यथासम्भव अधिकाधिक सूक्ष्म और व्यापक बनाते हुए, नए नए प्रत्याहारों तथा अनुबन्धों के आकर्षक अलंकारों तथा गणपाठ और धातुपाठ के तानेबाने वाले झीने पर अछोर परिधान देकर सूत्र शैली को वह प्रौढता तथा अनुपम निखार प्रदान किया, जिसके बल पर सूत्र शैली ने अपनी अदाओं में सस्कृत भाषा के किन किन गम्भीर रहस्यों को अभिव्यक्त किया यह तो कात्यायन, पञ्चनि तथा भर्तृहरि जैसे पाणिनि के हृदय को समझनेवाले विद्वान् ही बता सकते हैं, परन्तु इतना अवश्य स्वीकार करना होगा कि पाणिनि की इस विशिष्ट सूत्रशैली का ही वह प्रभाव था, जिसने पूरे सस्कृत व्याकरण को ही सूत्रमय बना दिया तथा उस के विषय में महती सूक्ष्मेक्षिका दर्तते सूत्रकारस्य^१ एव पाणिनीय महत् सुविहितम्^२ जैसे स्तुति के आघोष सर्वत्र सुनाई देने लगे। ऐसी अवस्था में पाणिनि का नाम लोक में इतना प्रकाशित हुआ^३ कि उनके यश के कथामृत से देश के छोटे छोटे बच्चे भी अपने बानों को पवित्र करने लगे।^४

सूत्र-रचना के पूर्व ही गणपाठ का निर्धारण

आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों की रचना करने से पूर्व ही गणपाठ का सुव्यवस्थित निर्धारण कर लिया था इस तथ्य के बड़े सुस्पष्ट प्रचुर प्रमाण अष्टाध्यायी, वार्तिकपाठ तथा महाभाष्य से प्राप्त किए जा सकते हैं।

सूत्रों का साक्ष्य

सर्व प्रथम हम अष्टाध्यायी के ऐसे सूत्रों का साक्ष्य उपस्थित करते हैं, जिनमें सूत्ररचना में पूर्व गणपाठ के निर्धारण कर लेने का ज्ञापन होता है। ये सूत्र कई प्रकार हैं। यथा—

१—इम प्रमंग मे अष्टाध्यायी व उन सूत्रों को उपस्थापित किया जा सता है, जिनम सूत्रार न आदि अथवा प्रभृति अथवा किमी शब्द वा

१ काशिका ४ २।७४ ॥

२ महाभाष्य ४।३।६६ ॥

३ पाणिनिशब्दों लोके प्रकाशित । काशिका २।१।६ ॥

४ आकुमारं यश पाणिनी । काशिका २।१।१३ ॥

बहुवचनान्त प्रयोग करके किसी गण अथवा विशिष्ट शब्द समूह का संकेत किया है। यथा—

सर्वादीनि सर्वनामानि । १।१।२७ ॥

साक्षात्प्रभृतीनि च । १।१।७४ ॥

सप्तमी शौण्डे । २।१।४० ॥

इन सूत्रों से सप्तम सर्वादि, साक्षादादि तथा शौण्डादि शब्दों का सम्यक् निर्धारण स्वयं सूत्रकार ने न किया होता तो वह इस तरह की सूत्ररचना को कैसे अपना सकता था ।^१

२—दूसरे प्रकार के वे सूत्र हैं, जिनमें सूत्रकार ने किसी गण के कनिष्ठ शब्दों की विशिष्ट आनुपूर्वी का संकेत किया है।^२ यथा—

अद्रड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः । ७।१।२५ ॥

पूर्वादिभ्यो नभ्यो या । ७।१।१६ ॥

त्यदादीनि च । १।१।७४ ॥

त्यदादीनि सर्वैर्निन्यम् । १।२।७२ ॥

सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः । १।१।१८ ॥

इन सूत्रों में से पहले चार सूत्रों में पाणिनि ने सर्वादिगण में पठित इतर आदि पाच, पूर्व आदि नव और त्यद आदि शब्दों के विशिष्ट क्रम अथवा सुव्यवस्थित पाठ का संकेत किया है। यदि उक्त सूत्रों की दृष्टि से पाणिनि ने सर्वादिगण में इन शब्दों का सुव्यवस्थित पाठ न किया होता तो उक्त सूत्रों से विहित कार्य सर्वादिगण के अन्य शब्दों से भी प्राप्त हो जाते, उस अवस्था में इन सूत्रों द्वारा किन्हीं विशिष्ट शब्दों से विशिष्ट कार्यों का विधान करना ही व्यर्थ हो जाता। प्रथम दो सूत्रों में पठित पञ्चभ्यः और नभ्य शब्द तो उक्त संकेत के और भी अधिक स्पष्ट द्योतक हैं। अन्तिम सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्य सूत्र से सर्वादिगण के अन्तर्गत लोहितादि अवान्तराण के लोहित से कतपर्यन्त शब्दों की विशिष्ट आनुपूर्वी का संकेत प्राप्त होता है।

१. द्र० यदादिप्रहण करोति तज्जापयत्याचार्य—अस्ति ह पाठो बाह्यश्च सूत्रात् ।

महा० १।३।१ ॥

२. यह सूत्र संकेतित क्रम गणपाठ में आज भी उसी रूप में उपलब्ध होता है ।

३—तीसरे प्रकार के वे सूत्र हैं जो गणशैली का आश्रयण लेकर विधान किए गए किमी प्रत्यय विशेष के परे रहने पर कार्य विशेष का विधान करते हैं। यथा—

प्रवाहणस्य ढे । ७।३।२८ ॥

विल्वकादिभ्यश्छस्य लुक् । ६।४।१५३ ॥

चर्ग्यादयश्च । ६।२।१३१ ॥

इनमें प्रथम ढक् प्रत्यय के परे रहने पर प्रवाहण शब्द के उत्तरपद के अदि अच् को वृद्धि का विधान करता है। 'प्रवाहण' शब्द से ढक् की प्राप्ति केवल शुभ्रादिभ्यश्च (४।१।१२३) सूत्र निर्दिष्ट शुभ्रादिगण में प्रवाहण' शब्द के बल पर ही सम्भव है। इसलिए प्रवाहणस्य ढे सूत्र इस बात का निश्चयायक है कि इस सूत्र को बनाने से पूर्व ही सूत्रकार ने शुभ्रादि गण उम में प्रवाहण' शब्द का पाठ और शुभ्रादि गण से ढक् प्रत्यय का विधान इन तीनों कार्यों को सम्पन्न कर लिया था।

द्वितीय सूत्र विल्व आदि शब्दों से उत्तर विद्यमान भसज्जक छ प्रत्यय का तद्धित प्रत्यय परे लुक् का विधान करता है। इस सूत्र में निर्दिष्ट विल्व-कादि शब्द नडादिना कुक् च (४।२।९१) सूत्र विहित कुक् आगम युक्त है। इस लिए विल्वकादिभ्यश्छस्य लुक् सूत्र में कृत कुगागम विल्वकादि शब्दों का निर्देश, नडादि गण और उस में विल्व आदि शब्दों की पूर्व प्रकल्पना को द्योतित करता है।

तृतीय सूत्र यत्प्रत्ययान्त वर्ग आदि उत्तरपदों का कर्मधारयभिन्न तत्पुरुष समास में आद्यदात्तत्व का विधान करता है। वर्ग आदि शब्दों से यत् प्रत्यय की प्राप्ति दिगादिभ्यो यत् (४।३।५४) सूत्र निर्दिष्ट दिगादि गण में वर्ग आदि शब्दों के पाठ के बल पर ही सम्भव है। इसलिए चर्ग्यादयश्च सूत्र में यत्प्रत्ययान्त वर्ग आदि शब्दों का निर्देश दिगादि गण उस में वर्गादि शब्दों का पाठ और उम से यत्प्रत्यय का विधान इन तीनों बातों की पूर्व प्रकल्पना का द्योतक है।

४—चौथे प्रकार के सूत्र वे हैं जो बिन्ही गणा में पड़े गए अवान्तर गणों का निर्देश करते हैं। यथा—

सर्वथ लोहितादिवतन्तेभ्य । ४।१।१८ ॥

फण्यादिभ्यो गोत्रे । ४।२।१११ ॥

न गोपवनादिभ्यः । २।४।६७ ॥

हरितादिभ्योऽञ् । ४।१।१०० ॥

प्रथम सूत्र मे गर्गादिभ्यो गोत्रे (४।१।१०५) सूत्रनिर्दिष्ट गर्गादि गण के अन्तर्गत पठित लोहितादिगण का और द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सूत्रो मे क्रमशः बिदादिभ्योऽञ् (४।१।१०४) निर्दिष्ट बिदादि गण के अन्तर्गत पठित कण्वादि, गोपवनादि तथा हरितादि गणो का निर्देश मिलता है । इन अवान्तर गणो के निर्देशो से स्पष्ट है कि पाणिनि ने उक्त अवान्तर गणो के निर्देश करने वाले सूत्रो की रचना से पूर्व गर्गादि और बिदादि इन प्रधान गणो के शब्दो का निर्धारण कर लिया था ।

५—पाचवे प्रकार के वे सूत्र है, जिनमे निर्दिष्ट गणो के अन्तर्गत पठित शब्दो से सामान्यविहित कार्य की स्वन प्राप्ति होने पर भी, उन शब्दो का किमी गण विशेष मे पाठ होने के कारण पुनः सामान्यविहित कार्य का विधान करना पडा । यथा—

शुण्डिकादिभ्योऽण् । ४।३।७६ ॥

सूत्र पठित शुण्डिक आदि शब्दो से प्राग्दीव्यतोऽण् (४।१।८३) सूत्रविहित ययाप्राप्त अण प्राप्त था, परन्तु कतिपय शब्दो मे पूर्वविहित ठक्, 'उद्वान्' शब्द का उत्सादिगण (४।१।८६) मे पाठ होने से 'अञ् 'तीर्थ' शब्द का धूमादिगण (४।२।१२७) मे पाठ होने से खुञ् आदि की प्राप्ति थी । उन को हट कर अण् ही होवे, इसलिए इस सूत्र और एतत्सूत्र निर्दिष्ट गण का पठ सूत्रकार ने किया है । इस से स्पष्ट है कि इस सूत्र और गण की रचना से पूर्व उत्सादि तथा धूमादि गणो की प्रकल्पना की जा चुकी थी ।

६—इसी प्रसङ्ग मे अष्टाध्यायी के धातु-प्रकरण मे पठित कण्ड्वादिभ्यो यक् (३।१।२७) सूत्र तथा कण्ड्वादि गण मे पठित ऋण्ड आदि दीर्घान्त शब्दो की ओर विद्वन्महानुभावो का ध्यान आकृष्ट करना भी आवश्यक है । यहा सूत्रकार और गणकार दोनो के द्वारा 'कण्ड्वादि' गण पठित शब्दो के द्वैविध्य=प्रानुत्व तथा प्रातिपदिकत्व के प्रतिपादन

१ इस प्रकरण के स्पष्टीकरण के लिए इसी सूत्र का न्यास ग्रन्थ देखना चाहिए ।

के लिए सहत प्रयत्न किया गया है। यह सहत प्रयत्न भी इस तथ्य का पर्याप्त उपोद्भवक है कि अष्टाध्यायी के सूत्रों तथा तत्संबद्ध गणपाठ दोनों की रचना तथा निवारण एक ही आचार्य ने किया था।

✓ वार्तिकों का साक्ष्य

आचार्य कात्यायन के वार्तिकों से भी इस विषय के पर्याप्त संकेत मिलते हैं कि गणपाठ और सूत्रपाठ का प्रवक्ता एक ही आचार्य है। गणपाठ से सम्बद्ध वार्तिकों और उनके द्वारा उपस्थापित विषयों को तो यथावसर अन्यत्र प्रस्तुत किया जायगा, यहाँ केवल प्रस्तुत प्रसंग से संबद्ध कतिपय प्रमुख वार्तिकों की ओर ही पाठकों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं।

१—गणपाठ के साथ अष्टाध्यायी का साक्षात् सम्बन्ध दर्शाने वाली निम्न वार्तिकों के अत्यन्त महत्त्व की है—

क-अथरादिना पुन सूत्रपाठे ग्रहणानर्थन्य, गणो पठितत्वात् ।^१

ख-लोहितडाज्भ्य ऋप्रचनम्, भृशादिष्वितराणि ।^२

ग-पाठात्पर्युदास, पठितानां सज्ञाकरणम् ।^३

घ-एकशितिपात्स्वरवचन तु ज्ञापक निमित्तस्वरवलीयस्त्वस्य ।^४

ङ-भ्रातृपुत्रग्रहण ज्ञापकम् एकदेशनिमित्तात् पश्यप्रतिषेधस्य ।^५

इत्यादि कात्यायन के वार्तिकों वड़े स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर रहे हैं कि सूत्रकार और गणकार एक ही व्यक्ति हैं, और वह है आचार्य पाणिनि।

२—कतिपय वार्तिकों में अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्याख्या के प्रसंग में विभिन्न गणों में पठित निशिष्ट शब्दों के पाठ पर विचार किया है। यथा—

क-भित्तादिषु युवतिग्रहणानर्थन्यम्, पु वद्गात्रस्य सिद्धत्वात् प्रत्ययविधौ ।^६

ख-त्रिल्यादिषु गधीधुकाग्रहण मयट्प्रतिषेधार्थम् ।^७

१. महा० नवा० १।१।३३ ट्ट ३१० ।

२. महा० नवा० १।१।२६, ट्ट २६४ ।

५. महा० ८।३।४१॥

७. महा० ४।३।१३४॥

२. महा० ३।१।१३॥

४. महा० २।१।१॥

६. महा० ४।२।३८॥

३—कात्यायन की कुछ वार्तिकें ऐसी हैं, जिनमें किसी गण में पठित शब्दों की न्यूनता देखकर उनमें अन्य शब्दों के उपसंख्यान की आवश्यकता दर्शाई है। यथा—

क-मरुच्छब्दस्योपसंख्यानम् ।^१

ख-अच्छब्दस्योपसंख्यानम् ।^२

४—कतिपय वार्तिके ऐसी हैं, जिनमें विभिन्नगणों में पठित कुछ एक शब्दों के साथ विशिष्ट उपाधियों का संयोजन किया है। यथा—

क-तिष्ठद्गुः कालविशेषे ।^३

ख-पलेयमर्दानि प्रथमान्तान्यन्यपदार्थं ।^४

ग-शूद्रा चामहत्पूर्वा जातिः ।^५

इन उपाधियों के बिना अनिष्ट प्रयोगों की प्राप्ति होती है।

५—कुछ वार्तिकों में कात्यायन ने यह विचार व्यक्त किया है कि सप्तमी शौण्डेः (२।१।४०) अथवा अर्धर्चाः पुंसि च (२।४।३१) जैसे सूत्रों में जहाँ पाणिनि ने बहुवचान्त प्रयोग द्वारा गणनिर्देश किया है वहाँ स्पष्टत आदि पद का निर्देश करना चाहिए। यथा—

क-शौण्डादिभिः ।^६

ख-अर्धर्चादयः ।^७

उपर्युक्त वार्तिकों से स्पष्ट है कि आचार्य कात्यायन सूत्रकार और गणकार को एक ही व्यक्ति मानने हैं और मूल की रचना से पूर्व गणपाठ के निर्धारण का संकेत भी करते हैं।

महाभाष्य का साक्ष्य

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने स पूर्वः पाठः, अर्थ पुनः पाठः^६ कह कर बड़े स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया है कि पाणिनि ने सूत्र-रचना से पूर्व ही गणपाठ का निर्धारण कर लिया था। इस प्रतिज्ञा में हेतु उपस्थित करते हुए पतञ्जलि ने लिखा है—

यद्यं 'पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा' (७।२।२६) इति नवग्रहणं करोति । नरेव हि पूर्वादीनि ।^७

१. महा० १।४।५८॥

२. महा० २।१।१७॥

३. महा० ४।१।४ ॥

४. महा० २।१।४०॥

५. महा० २।४।३१॥

६. महा० नवा० १।२।३३; पृष्ठ ३११॥

७. महा० नवा० १।१।३३, पृष्ठ ३११॥

कैयट इसकी व्याख्या में लिखता है—

तत्र हि नःप्रहण्ण त्यदादीना निरासार्थं क्रियत । यदि च नियतसन्निवेशो गणपाठ पूर्ण, ततोऽधिरुष्यवच्छेदाथ नःप्रहण्ण कर्तव्यम् ।

इतना ही नहीं आचार्य पतञ्जलि ने अनेक स्थानों पर गणपाठ में पठित शब्दों को सूत्रवत् पाणिनीय स्वीकार करते हुए और सूत्रवत् ही प्रामाणिक मानते हुए उनके द्वारा सूत्रकार आचार्य पाणिनि की विविध प्रवृत्तियों का ज्ञापन किया है । इन दृष्टि से

क-एव तर्हि आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति नोदात्तनिवृत्तिस्वरं शुभ्यं तरति यदय श्वन्शब्द गौरादिषु पठति अन्तोदात्ताथ यत्न करोति सिद्ध हि स्यान्डीपेव । महा० १।४।२ ६।४।२२ ॥

ख-एव तर्हि आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति न तद्विशेषेभ्यो भ्रमति यदय विपाटशब्द शरत्प्रभृतिषु पठति । महा० नवा० १।१।२२ पृष्ठ २७६ ॥

ग-एव तर्हि, सिद्धे सति य सवनादिषु अश्वसनिशब्द पठति तच्चापयत्याचार्याऽनिष्ण-तादपि पत्व भ्रमतीति । महा० ८।३।११० ॥

घ-आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवत्यृकारात्तो शत्वमिति यदय चुम्नादिषु नृगमशब्द पठति । एव तर्हि यत्तृप्पोतिशब्द पठति । महा० नवा० १।१ । प्रत्या० ८, पृष्ठ १०८ ।

उद्धरण विशेष महत्व के हैं । इन में व्याकरण-शास्त्र के महान् मनीषी पतञ्जलि ने क्रमशः गौरादिगण (४।१।४१) के श्वन् शब्द शरत्प्रभृति (५।४।१०७) के 'विपाट्' शब्द सवनादिगण (८।३।११०) के 'अश्वसनि' शब्द और चुम्नादिगण (८।१।३९) के 'नृगमन्' तथा 'तृप्' शब्दों का निर्देश करके इन के पाणिनीयत्व की स्पष्ट घोषणा की ।

इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी के अतिसाक्ष्य तथा उसके प्रामाणिक व्याख्याता कात्यायन और पतञ्जलि के पूर्वनिर्दिष्ट प्रचुर प्रमाण प्रस्तुत कर देने के पश्चात् उनके अनुयायी काशिकाकार कैयट भट्टोजी दीक्षित तथा नागेश भट्ट आदि के वचनों को विद्वानों के समक्ष उपस्थित करना विष्ट प्रयोज्यमान होगा ।

न्यासकार के आक्षेप

काशिकाविवरणपञ्जिका अथवा न्यास के रचयिता जिनेन्द्रबुद्धि का मत इसमें भिन्न है । वह पाणिनीय तत्र संबद्ध गणपाठ को अपाणिनीय

मानना है। उमके अण्णिनीयत्व प्रतिपादक हेतु इस प्रकार है—

१-न्यासकार का प्रथम हेतु है कि यदि सूत्रकार और गणकार एक ही व्यक्ति होता तो 'गर्गादि' गण में तथा उसी प्रकरण के मधुवभ्रुर्घ्राह्णकौ शिकयो' सूत्र में दोनों स्थानों पर 'वभ्रु' शब्द का पाठ न करके केवल गर्गादि गण में ही यभ्र कौशिके ऐसा गणसूत्र पढ़ देता। इस प्रकार सूत्रपाठ में लाघव हो जाता।^१

२-जिनेन्द्रबुद्धि का दूसरा हेतु यह है कि यदि सूत्रपाठ और गणपाठ दोनों का रचयिता एक ही होता तो वह 'सर्वादि' गण में 'द्वि' प्रभृति शब्दों से पूर्व ही 'किम्' शब्द का पाठ कर देता। इस प्रकार पाठ करने से किं सर्वनामबहुभ्योऽद्-यादिभ्य' ^३ सूत्र में 'किम्' शब्द के पाठ की आवश्यकता न होती।^२

३-तीसरा हेतु न्यासकार का यह है कि यदि सूत्रपाठ और गणपाठ का कर्ता एक ही होता तो वह यौग्रेयादि गण को चतुर्थ अध्याय के प्रथमपाद (सूत्र-१७८) तथा पाचवे अध्याय के तृतीय पाद (सूत्र ११७) में दो स्थानों पर न पढ़ता।^३

इन तीन हेतुओं अथवा आक्षेपों को उपस्थित करके न्यासकार ने यह निर्णय दिया है कि सूत्रकार पाणिनि से गणकार कोई भिन्न व्यक्ति है। अतः गणपाठ के यथास्थित पाठ के आधार पर पाणिनि पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता।

न्यासकार के आक्षेपों का समाधान

न्यासकार ने गणपाठ के पाणिनीयत्व पर जो आक्षेप किये हैं, वे ऐसे अकाट्य नहीं हैं कि उनका उचित उत्तर ही न दिया जा सके। वस्तुतः न्यासकार के तीनों हेतु हेत्वाभासमान हैं। अतः उन से किसी विशिष्ट मत का प्रज्ञापन नहीं हो सकता।

प्रथम हेतु का समाधान-न्यासकार के प्रथम हेतु का समाधान यह है कि गणसूत्रशैली आचार्य पाणिनि की ही उपजात नहीं हैं। उसके गणपाठ में जो गणसूत्र निर्दिष्ट मिलने हैं वे प्रायः प्राचीन आचार्यों के समूहीन

१. पा० ४।१।१०६ ॥

२. पा० ५।३।२ ॥

३. द्र० न्यास ५।३।११७ ॥

० द्र० न्यास ४।१।१०६ ॥

४. द्र० न्यास ५।३।२ ॥

है। अतः पाणिनि ने गर्गादि गण मे ही बभ्रु कौशिके ऐसा सूत्र क्यो नही पढा, यह आक्षेप ही नही उठता। इतना ही नही, आचार्य पाणिनि ने अनेक स्थानो पर प्राचीन आचार्यों के अनुसार सूत्ररचना की है। यथा—

औड् आपः ।७।१।१८ ॥ आडि चापः ।७।३।१०५ ॥
आडो नाऽस्त्रियाम् ।७।३।१२० ॥

इन सूत्रो मे निर्दिष्ट औड् तथा आड् प्रत्यय पाणिनि के सम्पूर्ण शब्दानुशासन मे वही पर भी निर्दिष्ट नही है। तथापि पाणिनि ने इन का निर्देश किया है। इसी प्रकार पाणिनि ने वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम् (१।१।७३) सूत्र द्वारा स्वीय वृद्धसजा का निर्देश करके भी वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः (१।२।६५) सूत्र मे वृद्ध शब्द का निर्देश गौत्र के स्थान पर किया है। पाणिनीय शब्दानुशासन मे भी इस प्रकार परस्पर विरोध होने पर यदि वह अपाणिनीय नही माना जा सकता और उस मे निर्देशोऽयं पूर्वसूत्रेण वा स्यात् पूर्वमूत्रानुसार निर्देश मानकर विरोध अथवा असंगति का परिहार हो सकता है तो उसी के अनुसार उक्त आक्षेप का परिहार भी अनायास हो सकता है।

इतना ही नही, न्यासकार स्वय अपने 'सूत्रकार अन्य है और गणकार अन्य' समाधान से मन्तुष्ट नही था, क्योंकि गणकार को अन्य मानने पर भी प्रश्न हो सकता है कि उम्ने ही लाघव के लिए गण मे बभ्रु कौशिके ऐसा सूत्र क्यो नही पढा ? इसलिए न्यासकार लिखता है—

गणकारेणापि हि न कृतं वैचित्र्यार्थम्, विचित्रा हि गणस्य कृतिर्गण-
कारेण ।^१

अर्थान्—गणकार ने भी बभ्रु कौशिके ऐसा सूत्र नही बनाया वैचित्र्य के लिए। गणकार के गण की कृति विचित्र है।

प्रथम तो यह कोई समाधान नही, यदि इसे समाधान मान लिया जाए तो यही समाधान पाणिनि को ही गणकार मानने पर क्यो नही दिया जा सकता ?

द्वितीय हेतु का समाधान—न्यासकार ने जो दूसरा हेतु दिया है, उन से वह स्वय मन्तुष्ट नही है। अत एव उम्ने स्वय समाधान करते हुए लिखा,

१. न्यास ४।१।१०६, भाग १, पृष्ठ ६०१; २० न्यास ५।३।१०७, पृष्ठ १४१।

है कि त्यदादि शब्दों में जो जो शब्द परे है वह एकशय में अवशिष्ट रहता है।^१ त्यदादियों के साथ किम् की सहविवक्षा में किम् का ही शेष इष्ट है। यथा-त्य च कश्च कौ, भवाश्च कश्च कौ। यह व्यवस्था किम् को त्यदादि से पूर्व पढ़ने पर नहीं बनती। अतः गणपाठ का यथान्यास पाठ ही ठीक है।^२

इस प्रकार न्यासकार का दूसरा हेतु उनके समाधान से ही समाप्त हो जाता है।

तृतीय हेतु का समाधान—न्यासकार ने जो तीसरा हेतु दिया है कि गणपाठ में यौधेयादि गण का दो स्थान पर पाठ क्या किया है। इसका सीधा साधा उत्तर यह दिया जा सकता है कि यौधेयादि का पुनः पाठ सम्भवतः नखक प्रमादजन्य हो। इतना ही नहीं गणपाठ का रचयिता अन्य व्यक्ति को मानने पर भी न्यासकार का आक्षेप तदवस्थ ही रहता है कि उसने यौधेयादि का पाठ दो बार क्यों किया? इस आपत्ति में बचने के लिए न्यासकार ने लिखा है—

विचित्रा हि गणाना कृतिर्गणकारस्येति पुनः पठिता।^३

अर्थात् गणकार की गणों की कृति विचित्र है इसलिए उसने इन्हें पुनः पढ़ा है।

प्रथम तो यह कोई उत्तर नहीं है और यदि यह उत्तर पाणिनि में भिन्न गणकार के लिये हो सकता है तो यही उत्तर पाणिनि को ही गणकार मान कर क्यों नहीं दिया जा सकता? न्यासकार ने सूत्रकार के लिए भी ऐसे समाधान अन्यत्र दिए हैं। डे प्रथमयोरम् (७१।२८) सूत्र पर न्यासकार ने लिखा है कि पाणिनि ने डे सुटोरम् ऐसा लघु यानन करके डे प्रथमयोरम् ऐसा सूत्र वैचिन्यार्थ किया है^४ यदि पाणिनि को सूत्रकार मानने हुए उम् के सूत्रों के लिए वैचिन्यार्थम् उत्तर हो सकता है तो उन्हीं को गणकार मानने हुए गणपाठ के लिए क्या नहीं हो सकता?

^१ त्यदादीनाम् यथा यश्च परं तत्तच्छिष्येन । स च यश्च यौ यश्च कश्च कौ । काशिका १।२।७२॥

^२ यास ५।३१, पृष्ठ १०६।

^३ यास ५।३।११७, पृष्ठ १४१। द्रष्टव्यं न्यास ४।१।१०६ पृष्ठ ६०१।

^४ सुटोरिति उक्तव्यं च प्रथमयोरिति वचनं वैचिन्यार्थम् । ७।१।८, पृष्ठ ६३६।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि न्यासकार ने गणपाठ को अपाणिनीय बताने के लिए जो हेतु दिए हैं, वे हेतुवीभास मान हैं। उन से गणपाठ का अपाणिनीयत्व कथमपि सिद्ध नहीं हो सकता।

न्यासकार का बदतोव्याघात

इतना ही नहीं न्यासकार के ऐसे स्थल भी उपस्थित किए जा सकते हैं, जिन की उचित सगति पाणिनि को ही गणकार मानन पर लग सकती है। दूसरे शब्दों में न्यासकार ने अस्पष्ट रूप से पाणिनि को ही गणकार स्वीकार किया है। यथा—

१-न्यासकार कहना है कि पारस्करादिगण (६।१।१५७) के आकृतिगण होने से उसी में प्रतिष्कशश्च कशे (६।१।१५२) से लेकर इम सुट् प्रकरण के अन्त तक के सभी सूत्रों का समावेश हो जाने पर भी इन सूत्रों का पृथक् पाठ पाणिनि न केवल प्रपञ्चार्थ किया है।^१

इम से स्पष्ट है कि पारस्करादिगण को न्यासकार पाणिनीय ही मानता है। अन्यथा वह सुट् प्रकरणस्थ सूत्रों के पृथक् निर्देश को प्रपञ्चार्थ न कह कर अन्यो हि गणकार, अन्यश्च सूत्रकार समाधान देता।

२-न्यासकार धातुपाठ को सूत्रकार पाणिनि की रचना मानता हुआ लिखता है—

न तस्य (आपिशले) पाणिनेरिय अस भुवीति गणे पाठ ।^२

अर्थात्—पाणिनि क धातुपाठ के समान आपिशलि के धातुपाठ में अस भुवि पाठ नहीं था।

यदि धातुपाठ और सूत्रपाठ में अनेक विषमताएँ होने पर भी धातुपाठ पाणिनि का माना जा सकता है तो गणपाठ को पाणिनीय स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है ?

१. यदि तदि पारस्करप्रभृतिराजातगण 'प्रतिष्कशश्च कशे' इत्यारम्य पूर्ण सूत्र न पठित यम् । तस्याप्यननैव संग्रहात् । सत्यमेतत्, प्रपञ्चार्थं तु पठितव्यम् । ६।१।१५७, पृष्ठ २६६ । तुलना करो—'त वै एतदपि विषय सुपरिगृहीता भवन्ति, यथा लक्षणं प्रपञ्चश्च । केवल लक्षणं केवल प्रपञ्चो वा न तथा कारक भवति ।' महाभाष्य ६।३।१५।।

२ न्यास १।३।२२, पृष्ठ २२६ ।

३ यह ध्यान रह कि न्यासकार ने दो एक स्थानों पर धातुपाठ को अपाणिनीय

३—न्यासकार न उपदेशेऽजनुनासिक इत् (१।६।२) सूत्रस्य उपदेशः शास्त्रशाम्यानि सूत्रपाठ खिलपाठश्च इमं काशिका वचन की व्याख्या करते हुए लिखा है—

खिलपाठो धातुपाठ प्रातिपदिकपाठश्च ।

जब यहाँ न्यासकार को सूत्रपाठ से पाणिनि का सूत्रपाठ ही निश्चित रूप से अभिप्रेत है ता धातुपाठ और प्रातिपदिकपाठ (=गणपाठ) भी पाणिनि का ही क्या नहीं? उपदेशेऽजनुनासिक इत् सूत्र की रचना करते हुए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है कि अनुनासिक अच्चा के उपदेश के लिए सूत्रपाठ के समान ही धातुपाठ तथा प्रातिपदिकपाठ (=गणपाठ) का भी प्रवचन पाणिनि द्वारा ही किया जाए ।

इसमें स्पष्ट है कि न्य नकार के सभी वचन वदताव्याघात दाज से पूर्ण हैं । अतः उन के द्वारा यह कदपि सिद्ध नहीं हो सकता कि आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी से सबद्ध गणपाठ का निगारण उन से पूर्व किसी अन्य आचार्य द्वारा किया जा चुका था, अथवा अपने से पूर्व आचार्य द्वारा निगारित गणपाठ का ही तादात्म्यन अपनाकर पाणिनि ने अपने सूत्रों की रचना की थी ।

आई० एस० पावते की हेय कल्पना

एसी स्थिति में न्यासकार के उपर्युक्त तथा कतिपय अन्य वचना के आधार पर आई० एस० पावते का यह निर्णय कि अष्टाध्यायी के कर्ता न गणपाठ और धातुपाठ दोनों का अथवा पूर्व आचार्यों से प्राप्त किया युक्ति रहित होन से सर्वथा हेय है ।

इस विवेचना से सर्वथा स्पष्ट है कि सूत्रकार पाणिनि ने ही अपने शास्त्र में सम्बद्ध गणपाठ का स्वयं प्रवचन किया था और उसका निर्वाण्य सूत्रपाठ पाठ से पूर्व ही हा गया था यही सिद्धांत युक्तियुक्त है ।

भी स्वीकार किया है । द्र० ७।४।^२, पृष्ठ ८४० ७।४।७५ पृष्ठ ८७३। न्यासकार का धातुपाठविषयक कथन भी वदताव्याघात दाजयुक्त है । धातुपाठ के पाणिनीयत्व के लिए दोस्तए चारतरङ्गिणी की भूमिका पृष्ठ ८ (रामलाल कपूर ट्रस्ट संस्करण) तथा स० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग २, अ० २१ ।

1 The author of the अष्टाध्यायी received both the गणपाठ and धातुपाठ from his आचार्य स १० उपदेश । दी सूत्रचर आक अष्टाध्यायी, पृष्ठ ६१ ।

✓ गणनिर्धारण में प्राचीन गणकारों की अनुकृति

गणपाठ के प्रवक्ता की समस्या पर विचार करते हुए हमे इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि व्याकरण के नियमों का निर्धारण करने वाले वैयाकरणों को प्रवक्ता माना गया है न कि कर्त्ता। इसीलिए तेन प्रोक्तम् (४३।१०१) सूत्र के उदाहरण के रूप में पाणिनीयम् आपिशलम् तथा काशकृत्स्नम् प्रयाग काशिकाकार द्वारा उपस्थित किये गये हैं। इनका अभिप्राय यह है कि इन वैयाकरणों ने परम्परा से चने आ रहे भाषा विषयक नियमों का अपनी दृष्टि से शब्दानुपूर्वी क थोड़े बहुत परिवर्तन तथा परिवर्तन के साथ उपदेश किया था न कि जिस प्रकार कोई कवि अपनी श्लोक रचना में प्रतिभा के बल पर अपनी नवीन कल्पनाओं शब्दावलियों चित्तावपक अलंकारों तथा छन्दों का चामत्कारिक नवीन प्रदर्शन करता है उस प्रकार कोई नवीन आविष्कार किया था। इसीलिये व्याकरण शास्त्र को प्रोक्त और काव्य आदि को कृत माना जाता है। वस्तुतः भाषा की गतिविधि का अनुसरण करता हुआ उसके शब्दों के साव्युत्त्व अभाव्युत्त्व का निर्णयमान करने वाला वैयाकरण व्याकरण के नियमों की रचना में कोई मौलिक वस्तु उपस्थित ही क्या कर सकता है? 'प्रोक्त' और 'कृत' के उपर्युक्त भेद को दृष्टि में रखकर ही पाणिनि ने तेन प्रोक्तम् (४३।१०१) तथा कृते ग्रन्थे (४३।११६) इन दो सूत्रों की रचना की। पतञ्जलि ने भी यत्तेन प्रोक्तम् न च तेन कृतम् तथा यत्तेन कृतम् न च तेन प्रोक्तम् कह कर प्राक्त और कृत का भेद स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है।

इस प्रकार पाणिनीय व्याकरण के भी प्राक्त होने के कारण उसमें प्राचीन आचार्यों से विरामत में प्राप्त प्रचुर सामग्री की वर्तमानता स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक भी है। यह दूसरी बात है कि संस्कृत भाषा की तात्कालिक विभिन्न गति विप्रिया का सूक्ष्मानि सूक्ष्म ध्यान रख कर आचार्य पाणिनि ने प्राचीन नियमों में पयस परिवर्तन एवं संपादन करने हुए उसे सर्वथा नवीन रूप प्रदान किया।

इसनिष्ठ पाणिनीय व्याकरण में प्राचीन वैयाकरणा द्वारा निर्धारित परिवर्तित अथवा अपरिवर्तित कितनी सामग्री ली गयी और कितनी पाणिनि

के द्वारा स्वयं निर्धारित है, यह कह सकना कठिन ही नहीं, अपितु असंभव भी है।^१ वह भी विशेषतः उम स्थिति में जब कि हमारे समस्त प्राचीन व्याकरणों का सर्वथा अभाव है।

हरदत्त के कथनानुसार^२ इतना तो स्पष्ट ही है कि पाणिनि ने अपने व्याकरण की रचना में आपिशलि के व्याकरण का पर्याप्त उपयोग किया था। इसके अतिरिक्त पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति, परिपन्थ च तिष्ठति (४।१।३५, ३६) जैसे कुछ सूत्र उपस्थित किये जा सकते हैं, जिनमें प्राचीन आचार्यों की सूत्ररचना का स्पष्ट प्रतिबिम्ब दिखाई देता है।^३ इसी प्रकार गणपाठ के नन्दादि, ग्रह्यादि पचादि, भिदादि तथा सपत्यादि जैसे स्थलो के सूत्र निर्दिष्ट शब्दों तथा गणपठिन शब्दों में विद्यमान स्वरूपवैषम्य भी प्राचीन आचार्यों के शब्दांश, शासन से किसी न किसी प्रकार प्रभावित होने का संकेत देते हैं। इन विषय में विस्तार से पूर्व लिख चुके हैं।^४

पूर्वतः प्राप्त गणपाठ में किए गए परिवर्तन के प्रमग में ऋक्तन्त्र के कौतस्कुतादि गण के स्थान पर पाणिनि के लघु तथा नवीन नाम कस्कादि^५, अथर्व प्रातिशाख्य के वृहस्पत्यादि गण के शब्दों का वनस्पत्यादि तथा देवताद्वन्द्वे च सूत्र में पाणिनि के द्वारा किये गये वर्गीकरण^६, आपिशलि के 'सवादि' गण में पठित 'द्वि' शब्द के पाठक्रम में पाणिनि द्वारा 'सवादि' गण में किये गये परिवर्तन^७ तथा प्राचीनों के रोढ्यादि नाम के स्थान पर

१. द्र० It will be long before we understand, if indeed we ever come to do so, what and how much of it is पाणिनि's own in addition to the work of his grammatical predecessors दी यदान इन पाणिनि, पृष्ठ १ ।

२ कथं पुनरिदमाचार्येण पाणिनिना अत्रगतमेव साधयति ? आपिशलिन पृथग्व्याकरणेन । प० म० भाग १, पृष्ठ ६ ।

३ संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, (पृष्ठ ८३-८४) पाद टिप्पण सं० ३ ।

४. द्र० पूर्व पृष्ठ ३५ ।

५. द्र० पूर्व पृष्ठ १६ ।

६. द्र० पूर्व पृष्ठ २२, २३ ।

७ द्र० पूर्व पृष्ठ २६ ।

पाणिनि द्वारा रचे गये 'क्रौड्यादि' नाम की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है

गणों के दो प्रकार

पाणिनीय गणराठ मे दो प्रकार के गण उल्लेख होने हैं—एक आकृति-गण तथा दूसरे पठितगण। यो तो अथर्व-प्रातिशाख्य^१ ऋक्तन्त्र^२, फिट्सूत्र^३ उणादिसूत्रों^४ मे भी आकृतिगण के दर्शन हो जाने हैं, परन्तु पठितगणों की उपलब्धि, अथर्व प्रातिशाख्य के सूत्रों^५ अपिशलि के सर्वादिगण-विषयक भर्तृ-हरि के कथन^६ के अतिरिक्त, पाणिनि-व्याकरण से पहले अन्यत्र कहीं नहीं होती।

प्रायः सूत्रों मे गणों का निर्देश करने के लिये उन उन के प्रथम शब्द के साथ 'आदि' अथवा 'प्रभृति' पद का प्रयोग सूत्रकार ने किया है। कहीं कहीं गण के प्रथम शब्द का बहुवचनान्त प्रयोग भी पाया जाता है^७, परन्तु जहाँ सूत्र मे कोई गण अभिप्रेत है, वह चाहे 'आदि' अथवा 'प्रभृति' पद का प्रयोग हो अथवा बहुवचनान्त का प्रयोग, उसका अभिप्राय ऐसे स्थलों मे सर्वत्र 'आदि' ही होता है। इस 'आदि' शब्द का प्रयोग सामान्यतः सामीप्य, व्यवस्था, प्रकार तथा अवयव इन चार अर्थों मे विद्वानों ने स्वीकार किया है^८। इन मे से गण के निर्देश के लिये व्यवस्थावाची तथा प्रकारवाची 'आदि' शब्द का ही प्रयोग उपयुक्त जान पड़ता है। उसमे भी 'आदि' शब्द जब 'प्रकार' अर्थ को अभिव्यक्त करता हुआ किसी गण का निर्देशक बनता है तो वह निर्दिष्ट गण आकृतिगण माना जाता है और जब 'व्यवस्था' अर्थ की अभिव्यक्ति करता है तो वह निर्दिष्ट गण पठितगण माना जाता है। इसे यो भी कहा जा सकता है कि जब

१. द्र० पृ० पृष्ठ ३६, ३७।

२. द्र० पृ० पृष्ठ २१।

३. द्र० पृ० पृष्ठ १६।

४. द्र० पृ० पृष्ठ २६।

५. द्र० पृ० पृष्ठ २७, २८।

६. द्र० पृ० पृष्ठ २६।

७. संभव है कि गण निर्देशन की ये तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाणिनि ने अपने प्रसंगों की तीन पद्धतियों ने अनुकरण पर अपनाई हों।

८. सामीप्येऽथ व्यवस्थाया प्रकारेऽप्ये तथा। चतुर्थेषु मेधावी आदि-शब्दं तु लक्षयेत् ॥ कातन्त्र सन्धिसूत्र (८) त्रिलोचन टीका।

किसी 'आकृति'गण के निर्देश के लिये 'आदि' अथवा तदर्थक किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब वह 'आदि' अथवा तदर्थक शब्द प्रसारवाची होता है परन्तु जब किसी 'पठित गण के निर्देश के लिये 'आदि' अथवा उस अभिप्राय वाले किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब वह प्रकारवाचक न होकर व्यवस्थावाची होता है। पनजलि न 'आदि' शब्द के इस द्विविध वैशिष्ट्य को निम्न शब्दों में उदाहरण के साथ स्पष्ट किया है—

अथमादिशब्दोऽस्त्येव व्यवस्थाया वर्तते । तद्यथा देवदत्तादीन् समुपधिष्टानाह 'देवदत्तादय आनीयन्ताम् । त उन्थाप्य आनीयन्ते । अस्ति च प्रकारे वर्तते । तद्यथा देवदत्तादय आढत्या अभिरूपा दर्शनीया पक्षवतः । देवदत्तप्रकारा इति गम्यते ।'

आकृति-गण

आकृतिगण की परिभाषा वैयाकरणों ने निम्न प्रकार दशाई है—

१—पदमञ्जरीकार हरदत्त आकृतिगण की परिभाषा इस प्रकार लिखता है—

प्रयोगदर्शनेन आकृतिग्राह्यो गण आकृतिगण ।^१

इसका अभिप्राय है कि प्रयोगों की समानता के आधार पर जिन गणों में शब्दों का सम्मिश्रण किया जाए, वह 'आकृति' गण होता है।

२—वर्धमान ने अपनी गणरत्नमहोदधि में कम्पादिगण की आकृतिगणता स्वीकार करते हुए 'आकृति'गण के स्वरूप को—

आकृतिगणश्चाय तेनापरिमितशब्दसमूह । आकृत्या आकारेण लक्ष्यते स आकृतिगण ।^२

इन शब्दों में और अधिक स्पष्ट किया है। तदनुसार वर्धमान आकृतिगण में अनन्त शब्द-समूह का अन्तर्भाव मानता है। अर्थात् आकृतिगणों में प्रयोग अथवा स्वरूप अथवा शब्द साधुत्व की परिस्थितियों की समानता को आधार बना कर, समान आकृतिगणों के आधार पर, गणपठित शब्दों के समान जितने भी शब्द प्राप्त हो सकें, उन सब का अन्तर्भाव तत्सम्बद्ध आकृतिगण में माना जाता है।

१ महा० १।३।११ ।।

२ प० म० भाग १ पृष्ठ ३८० ।

३ गणरत्नमहोदधि पृष्ठ ४३ ।

वालमनोरमाकार के शब्दों में इसी अभिप्राय को—

आकृत्या एव जातीयकतया निर्योतन्योऽय गण इत्यर्थः । लोकरप्रयोगा-
नुसारेण एव जातीयका शब्दा अस्मिन् गणे निवेशनीया इति यावत् ।

इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है

आकृतिगणों में पठितशब्दों की उपलक्षणता

ऊपर लिखी गई परिभाषाओं से यह सर्वथा स्पष्ट है कि आकृतिगणों में शब्दों की अतन्त्र परम्परा का समावेश सम्भव है, तथा उनका साकल्येन परिगणन कथमपि सम्भव नहीं है। इसीलिए गणपाठ के प्रवक्ता द्वारा आकृतिगणों में उपलक्षण के रूप में कतिपय शब्दों का ही पाठ किया जाता है। उन ७ पठितगणों के समान शब्दों की पूरी गणना नहीं की गई है। सक्षेप में आकृतिगण शब्दों का वह अपठित समूह है, जिसमें तद्गण सम्बन्धी सूत्र में स्थान दिए गए विशिष्ट शब्दों की प्रयोग रूप आकृति की समानता रखने वाले सभी शब्दों का समावेश माना जाता है।^१

वस्तुतः पठितगणों और आकृतिगणों का भेद पूर्ण तथा अपूर्ण पाठ के आधार पर ही किया जा सकता है। आकृतिगण शब्दों के स्थान पर यदि 'अपठितगण' शब्दों का प्रयोग किया जाए तो अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है। पतञ्जलि की श्रेण्यादयः पठन्ते, कृतादिराकृतिगण^२ साधिकार उक्ति से हमारे पूर्व कथन की सर्वात्मना पुष्टि होती है। पतञ्जलि ने उक्त वाक्य में श्रेण्यादिको पठितगण कहा है और कृतादि को उसके विपरीत अपठित न कह कर उसके पर्याय अकृतिगण का नाम दिया है।

आकृतिगणों में व्याख्याकारों द्वारा प्राक्षेप

यतः पाणिनि ने आकृतिगणों में सार शब्दों का पाठ नहीं किया था, अतः वृत्तिकारों और व्याख्याकारों द्वारा इनमें समय-समय पर यथेष्ट शब्दों का प्रक्षेप होता रहा। इसका स्पष्ट संकेत कैयट^३ और हरदत्त^४ के कृतादिगण

१ अविहितलक्षणो मूर्धन्य सुधामादिषु । महा० ८ । ३ । ६८ ॥

अविहित लक्षणो णत्वप्रतिषेधं लुम्नादिषु । महा० ८ । ४ । ३६ ॥

२ महा० २ । १ । ५६ ॥

३ कृतादिरिष्यनादिशब्द प्रकारवाची

प्रयोगदर्शनाद्योत्तरहरणम्पानीया कतिपय वृत्तिकारैः प्रदर्शिता । महा० प्रदीप २ । १ । ५६ ॥

४ आकृतिगणोऽप्युत्तरहरणरूपेण कतिपयान् पठति । प० म० भाग १ पृष्ठ ३८० ।

की आकृतिगणता स्वीकार करते हुए किया है। यही वाग्ण्य है कि आज उपनव्य गणपाठों में आवृत्तिगणों में शब्दों का विस्तृत परिगणन प्राप्त होता है। अथस्मयादि (१।४।२०) तथा स्नात्व्यादि (७।१।८९) जैसे गण, जिनमें छान्दम होने के कारण मुगमता से शब्द नहीं भरे जा सकते थे, उपर्युक्त वाग्ण्य की सत्यता की प्रतीक रूप में देये जा सकते हैं। हा, ब्राह्मणादि (५।१।१२४) तथा पचादि (३।१।१३४) जैसे वृत्तिपय आवृत्तिगण ऐसे अवश्य हैं, जिनमें कुछ शब्दों का पाठ स्वयं गणकार ने किया होगा, ऐसी सम्भावना की जा सकती है। क्योंकि उन त्रिगिष्ट शब्दों के पाठ को व्याख्याकारों ने चाध्रऋध्रानार्थ आदि विभेय प्रयोजन उपस्थित करते हुए प्रायः अनिर्णय बनाया है और गणकार द्वारा ही इन शब्दों का पाठ किया गया है, एमा स्वीकार किया है। अन्यथा इन्हें वह प्रामाणिकता न दी जाती जो दी गई है। वही वही मूत्रा से अनुपपन्न किसी शब्द विभेय की सिद्धि के लिए कात्यायन तथा पतञ्जलि ने उस शब्द का, उसकी स्थिति के अनुसार किसी आवृत्तिगण में अन्तर्भाव माना है। ऐसे स्थलों में पाठ करिष्यते का अभिप्राय 'पाठ किया जायगा' न होकर समावेश अथवा अन्तर्भावमान समझना चाहिए।

आवृत्तिगणों का उपर्युक्त अतीव व्यापक स्वरूप स्वीकार कर लेने पर पाणिनि के अनेक आवृत्तिगणों से, तत्प्रकरणस्थ अनेक सूत्रों का कार्य अथवा प्रयोजन पूरा हो जाता है। इसलिए पाणिनि के अनेक सूत्रों के त्रिपय में यह पूछा जा सकता है कि उन्हें अप्टाध्यायी में स्थान क्या दिया गया। यथा—

१-इन्द्रजननादि (१।३।८) आवृत्तिगण होने से उसमें शिशुक्रुड और यमसभ शब्दों का समावेश हो सकता था फिर सूत्र में इन शब्दों को क्या स्थान दिया गया ?^१

२-देवपथादिगण (५।३।१००) की आवृत्तिगणता में ही लुम्भनुष्ये (५।३।९८) तथा जीविकाथे चापण्ये (५।३।९९) सूत्रों का प्रयोजन पूर्ण हो जाने पर भी सूत्ररूप में इन्हें क्या पढ़ा गया ?

३-पारस्करादि (६।१।१५७) और लुम्नादि (८।४।३९) गणों को आवृत्तिगण मानने के कारण इन प्रकरणों के वृत्त सूत्रों के कार्य पूर्ण हो जाने पर भी वे सूत्र क्या बनाए गए ?

१ द्र० महा० ८।२।१२॥

२. शिशुकुद्रयमसभइन्द्रजननादिभ्यश्छ । पा० ४।३।८८॥

इन प्रश्नों का तथा इस प्रकार के अन्य प्रश्नों का उत्तर व्याख्याकारों ने प्रपञ्चार्थ अथवा दूसरे शब्दों में स्पष्टीकरणार्थ ही दिया है।^१

हमारा मन्तव्य

हमारा विचार है कि आकृतिगणों में मूलतः प्रायः इस ही निष्पन्न शब्दों का पाठ किया गया था जिनकी सिद्धि व्याकरण के सूत्रों द्वारा नहीं हो सकती थीं। कात्यायन ने किसी किसी आकृतिगण के विषय में अविहित लक्षणों एवं प्रतिषेध लुभ्नादिपु^३ जैसी वार्तिका द्वारा इस स्वभाव का अभिव्यक्त किया है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इन आकृतिगणों में प्रकृति प्रत्यय के विभाग को प्रधानता न देते हुए कथमपि उनके साधुत्व का प्रतिपादन किया गया है। इसीलिए आचार्य पाणिनि ने शब्दों के प्रकृति प्रत्यय विभाग को प्रधानता देते हुए यथासम्भव उपरिनिर्दिष्ट अनेक स्थलों पर तत्प्रकरणस्थ आकृतिगणों में उन-उन शब्दों का समावेश करना नहीं चाहा और प्रकृति प्रत्यय विभाग के स्पष्टीकरण के लिए उन-उन प्रकरणों में अनेक सूत्रों की रचना को सादर अपनाया।

आकृतिगण तथा उत्तरवता वैयाकरण

पाणिनि के पश्चात् आनेवाली वैयाकरणों की परम्परा ने उत्तरोत्तर इन आकृतिगणों में शब्दों की सख्या तो बढ़ाई ही साथ ही पाणिनि के मत से पठित गणों को भी आकृतिगण ही मान लिया।^२ हेमचन्द्र और वर्धमान ने तो जहाँ तक संभव हो सका, शब्दों के विस्तृत समूह को तत्संबद्ध आकृतिगणों में उपस्थित करके अन्य अपठित शब्दों की सिद्धि के लिए उन-उन गणों की आकृतिगणता स्वीकार की। ऐसे आकृतिगणों के उदाहरण के लिए वर्धमान के तारकादि तथा पृषोदरादि जैसे गणों को उपस्थित किया जा सकता है जिनमें विशाल शब्द समूह उपसरयात है।

१ महाभाष्यकार ने इस स्थलों के विषय में लिखा है— उदाहरणभूयस्वात् । तर्क एतन्नपि विषय सुपरिगृहीता भवति । यथा लक्षण प्रश्नश्च । केवल लक्षण फल प्रश्नो वा । तथा कारक भवति । सर्वत्र परिषद हीन शास्त्रम् । तत्र नैक पथा शक्य ग्राह्यास्तु । महा० ६ । ३ । १४ ॥ तथा द्रष्टव्य इष्ट हि विदुषु लाने समास-यासधारणम् । महाभारत आदि० १ । ४६ ॥

२ महा० ८ । ४ । ६ ॥

३ द्र० अथ्यादिगण हमउहृत्तुत्ति २ । ११०३ ॥ गणरत्नमहो धि पृष्ठ ८५ ।

आकृतिगणता के द्योतरु शब्द

आकृतिगणो की आकृतिगणना के द्योतन के लिए वैयाकरणों ने अनेक प्रकार बर्ते हैं। यथा—

१-चकार निर्देश-पाणिनि ने कही कही आकृतिगणता के द्योतन के लिए सूत्रपाठ में आदि पद के साथ साथ अनुक्त समुच्चयार्थक च शब्द का प्रयोग किया है। यथा—

प्रवृद्धादीनां च (६।२।१७) । सुपामादिषु च (८।३।१८) ।

प्रथम सूत्र पर न्यासकार लिखता है—

आकृतिगणश्च प्रवृद्धादिर्द्रष्टव्य । कुत एतत् ? आकृतिगणतां तस्य सूचयितु अनुक्तसमुच्चयार्थस्य चकारस्य इह दृत्तत्वात् ।^१

इसी प्रकार हरदत्त दूसरे सूत्र पर लिखता है—

चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थ आकृतिगणता तस्य सूचयति ।^२

२-वृत्करण का अभाव—पाणिनीय सम्प्रदाय में सर्वत्र पठितगणो के अन्त में समाप्त्यर्थक पारिभाषिक वृत् शब्द पढ़ने की व्यवस्था थी। अतः जिन गणो के अन्त में वृत् शब्द का पाठ नहीं है, उन्हें आकृतिगण माना जाता है। इसीलिए पात्रे समितादि गण की आकृतिगणता को द्योतित करते हुए काशिकाकार ने स्पष्ट लिखा है—

अवृत्करणाद् आकृतिगणोऽयम् ।^३ २।१।४८ ॥

इस वाक्य का दूसरा पाठ अन्यन्तत्वाद् आकृतिगणोऽयम् मिलता है परन्तु यह पाठ निरर्थक तथा अमगत होने से सर्वथा अनुपयुक्त है।

-बहुवचन निर्देश—शाकटायन तथा हैमव्याकरण के जिन जिन सूत्रों में गणनिर्देश के लिए बहुवचन का प्रयोग किया है,^४ उन उन स्थानों पर शाकटायन-व्याकरण की अमोघावृत्ति तथा हैमव्याकरण की बृहद्वृत्ति में बहुवचन निर्देश को आकृतिगणता का सूचक माना है। इसलिए ऐसे स्थानों पर—

१ न्यस ६।२।१४७ पृष्ठ ४०३ ॥

२ प० म० भाग १ पृष्ठ १०१० ॥

३. तुलना करो—न्यायनिकरणास्तु भ्यादयाऽपरिसमाप्ता एव अवृत्करणात् । धातुप्रदीप, पृष्ठ ७५ ।

४ इन व्याकरणा में बहुवचन के साथ आदि पद का प्रयोग भी किया गया है ।

बहुवचनमस्याऽऽकृतिगणत्व द्योतयति ।^१

बहुवचनमाकृतिगणार्थम् ।^२

वचन प्राय मिलते हैं ।

४—श्रीभोज के सरस्वतीकण्ठाभरण में पठितगणों के सभी शब्दों का पाठ सूत्रों में ही कर दिया है, इसलिए उसमें आकृतिगणों की आकृतिगणता के द्योतन के लिए गण अन्त में 'आदि' शब्द का ही निर्देश किया गया है ।

आकृतिगण शैली की प्रथम आविष्कृति

व्याकरण मनीषी सूत्रकारों के मस्तिष्क में गणशैली पहले पहल सम्भवतः आकृतिगणता के रूप में ही प्रादुर्भूत हुई थी । इसके संकेत पाणिनि से पूर्ववर्ती व्याकरण के विभिन्न ग्रन्थों में मिलने वाली आकृतिगणों की प्रचुरता से प्राप्त किए जा सकते हैं । भाषा के भयंकर प्रवाह में पड़े हुए शब्दों के नित्य परिवर्तमान, विविध एवं अज्ञेय रूपों की सिद्धि के लिए व्याकुल एव असमर्थ वैयाकरणों के मस्तिष्क में पठित गण-पद्धति की अपेक्षा आकृतिगण पद्धति रूप एकमात्र उपाय का प्रथम प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक ही था ।

पाणिनीय-तन्त्र में आकृतिगणता का उपयोग

आकृतिगणों की इस व्यापक पद्धति का ही सहारा लेकर पाणिनि ने अनेक प्रकरणों में अनन्त शब्दों को संकतित करने का प्रयत्न किया है । यथा—

१—अत्रय्यो तथा निपातो का निर्देश—वैदिक एवं लौकिक संस्कृत ऋग्मय में विकरे हुए अनन्त अव्ययों और निपातों को स्वरदि तथा चादि गणों की आकृतिगणता के आधार पर स्वरदिनिपातमन्ययम् (१।१।३७) तथा चाद्योऽसत्त्व (१।१।५७) जैसे दो छोटे छोटे सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया ।

२—समासों का निर्देश—व्याकरण के सूत्रों से मिद्ध न हो सकने वाले समामयुक्त शब्दों की परम्परा को पात्रेसमितादि, मयूरव्यसकादि तथा राजदन्तादि गणों के साहाय्य से पात्रेसमितादयश्च (२।१।४८)

१. अमोषा वृत्ति १।१।८० इत्यादि ।

२. उद्गति १।१।१।३० ३१ इत्यादि ।

मयूरव्यसकादयश्च (२।१।७२) तथा राजदन्तादिषु परम् (२।२।३१) सूत्रों में साधु स्वीकार किया गया ।

३-लिङ्गों का निर्देश-अर्थ वैशिष्ट्य के आधार पर पुल्लिङ्ग नपुंसक-लिङ्ग में प्रयुक्त होनेवाली शब्दों की सुविस्तृत परम्परा को अर्धर्चादि गण की सहायता से केवल अर्धर्चाः पु सि च (२।४।३१) इस एक छोटे से सूत्र द्वारा अनुगमित किया गया ।

४-तद्धितान्तों का निर्देश-अनन्त शब्दों के तद्धित प्रत्ययान्त स्वरुणों को शिवादि तथा शुभ्रादि गणों की कल्पना करने शिवादिभ्योऽण् (४।१।११२) तथा शुभ्रादिभ्यश्च (१।१।१२३) सूत्रों द्वारा दर्शाया गया ।

५-स्वर्गों का निर्देश-असन्ध शब्दों में व्याकरण की दृष्टि से अप्राप्त, परन्तु अभीष्ट आद्युदात्त तथा अन्तोदात्त स्वर की स्थिति को क्रमश उच्च्यादि तथा वृषादि गणों की आकृतिगणना का आश्रय लेकर उच्च्यादीना च (६।१।१५६) तथा वृषादीनां च (६।१।१९९) इन दो सूत्रों द्वारा निर्दिशित किया गया ।

६-पत्वसिद्धि, एत्याभास का निर्देश-जिन शब्दों में किसी पाणिनीय सूत्र द्वारा पत्व की सिद्धि अथवा एत्व का अभाव व्याकृत नहीं होता था, उन शब्दों की पूरी सृष्टि को क्रमश सुपामादि तथा जुभ्नादि गणों का सहारा लेकर सुपामादिषु च (८।३।१८) तथा जुभ्नादिषु च (८।४।३९) इन दो सूत्रों द्वारा माधु शब्दों की श्रेणी में उपस्थित किया गया ।

७-सर्वथा अग्याकृत शब्दों का निर्देश-अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों से सिद्ध न हो सकने वाले शिष्टप्रयुक्त साधु शब्दों के महान प्रवाह को पृषोदरादि गण की प्रकल्पना करके पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् (६।३।१०८) इस एक सूत्र से ही प्रदर्शित एवं माधु प्रमाणित कर सकने में आचार्य पाणिनि समर्थ हो सके ।

आकृतिगणात्मकशैली पर आक्षेप

कुछ आलोचकों ने आकृतिगणात्मक शैली को अपनाने वाले वैयाकरणों के शब्दानुशासना पर आक्षेप करते हुए ' भाषा पर पूरा अधिकार न होने के कारण अभिप्रेत शब्दों की पूरी सूची उपस्थित न कर सकने वाले वैयाकरण ही आकृतिगणा की शरण लेने हैं ' कह कर दोषपूर्ण बताया है ।

वास्तविकता इस से सर्वथा विपरीत है, व्याकरण चाहे कितना ही विस्तृत क्यों न हो वह प्रतिपद निर्देश द्वारा शब्दों के अन्वाख्यान में सर्वथा असमर्थ होता है। इसलिए व्याकरण की अपूर्णता को दूर करने अथवा दूसरे शब्दों में सक्षिप्त सूत्रों के आधार पर एक सजीव तथा अतिविशाल वाङ्मय वाली भाषा के सम्पूर्ण क्षेत्र को स्वायत्त कर सकने अथवा अध्ययन कर सकने का, गणपाठ की आकृतिगणात्मक शैली को अपनाने के अतिरिक्त अन्य कोई मरल, व्यापक एवं उपादेय मार्ग ही नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है कि पाणिनि ने तो यथासंभव आकृतिगणों के क्षेत्र से शब्दों को दूर रख कर उनके प्रकृति प्रत्यय विभाग के प्रदर्शन का पूरा पूरा प्रयास किया है। इसलिए पाणिनि के व्याकरण में यत्र तत्र स्वीकृत आकृतिगणता के लिए उपर्युक्त आलोचना का कोई मूल्य नहीं है। हा, हेमचन्द्र और वर्धमान की आकृतिगणात्मक पद्धति के लिए जिनमें अधिक से अधिक गणों को आकृतिगणता का रूप दिया गया है, उक्त आलोचना कथंचित् ठीक हो सकती है।

पठितगण

आकृतिगणों के विपरीत पठितगण उन सूत्र सक्तित शब्दसमूहों को कहा जाता है, जिनमें शब्दों की परिपूर्ण सूची स्वयं गणकार द्वारा उपस्थित कर दी जाती है। यथा—सर्गादि, स्त्रन्नादि तथा कथादि आदि गण। इस प्रकार पठितगणों में स्वयं गणकार अथवा सूत्रकार द्वारा अनेकित शब्दों को व्यवस्थित कर देने के कारण इन में अन्य शब्दों का समावेश नहीं किया जा सकता। इसी कारण इन पठितगणों को नियतगण भी कहा जाता है।

इन पठितगणों का निर्देश भी आकृतिगणों के समान गण के प्रथम शब्द के साथ आदि अथवा प्रभृति शब्दों का अथवा बहुवचन का प्रयोग करके किया जाता है।

समाप्तिबोधार्थ 'वृत्'करण

पठितगणों की समाप्ति की सूचना के लिए पाणिनीय सम्प्रदाय के गणपाठ में उन उन गणों के अन्तिम शब्द के पश्चान् समाप्त्यर्थक परिभाषित

वृत् शब्द का प्रयोग किया गया था। इस 'वृत्' शब्द का अर्थ व्याख्याकारों ने वृत्त समाप्ति आदि किया है। इस पारिभाषिक 'वृत्' शब्द का पाणिनीय धातुपाठ में पठितगणों की समाप्ति का द्योतन कराने के लिए उपयोग किया गया है।^१ भ्वादिगण की समाप्ति पर मिलने वाले वृत्करण को यज्ञादि अवान्तर गण से संबद्ध करके उसे पठितगण माना जाता है तथा भ्वादि गण से उसका संबन्ध न होने के कारण भ्वादि को आकृतिगण कहा जाता है।^२ दुर्भाग्य की बात है कि गणपाठ में पठितगणत्व के सूचक वृत्करण की प्रक्रिया सम्प्रति पठितगणों में सर्वत्र दिखाई नहीं देती। काशिकाकार ने केवल सकलादि, सुधास्त्वादि जैसे दो चार गणों में तथा गणपाठ के हस्तलेख सख्या २^४ में निष्वादि तथा यौधेयादि गणों में वृत् शब्द का प्रयोग मिलता है। नागेश ने लघुशब्देन्दुशेखर में कुछ गणों के अन्त में वृत् करण की प्रक्रिया को दर्शाने का प्रयास किया है। इसकी सूचना हमने यथास्थान गणपाठ की आलोचनात्मक टिप्पणी में दी है।^३ व्याकरण सिद्धान्त सुधानिधिकार ने सर्वादि गण में 'वृत्' की सत्ता का निर्देश करके उसके पठितगणत्व की घोषणा की है। काशिकाकार ने पात्रे समितादि गण में वृत्करण के न होने के कारण ही उनको आकृतिगण माना है।^४ इससे यह

१. द्र० व्या० सि० सुधानिधि १। १। २५, धातुवृत्ति, पृष्ठ ३५४।

२ पाणिनि से प्राचीन काशकृष्ण व्याकरण की कन्नड टीका में वृत्करण नहीं मिलता। उत्तरवर्ती व्याकरणों के धातुपाठों में भी 'वृत्' का प्रयोग स्वल्प ही मिलता है। चन्द्रगोमी के मुद्रित धातुपाठ में केवल भ्वादि व अन्त में यज्ञादि की समाप्ति के लिए वृत्करण उपलब्ध होता है। जैनन्द्र व्याकरण व शब्दागव (दाक्षिण्य) शास्त्र ने धातुपाठ में केवल यथांतर गणों की समाप्ति के लिए 'वृत्' शब्द का निर्देश पाया जाता है। यही अत्रस्था कातत्र तथा हैमधातुपाठ की भी है। केवल शाक्यगण धातुपाठ में प्रधान गणों के अन्त में वृत्करण उपलब्ध होता है।

३ वृत्ति यज्ञादिपरिसमाप्ति । न्याय्यविकरणान्तु भ्वादयोऽपरिसमाप्ता एव, वृत्करणं वात् । धातुप्रदाय पृष्ठ ७५।

४ हमारे द्वारा गणपाठ के अत्रश सस्करण के सम्पादनार्थ सद्यहीत हस्तलेखों में विशिष्ट हस्तलेख । ५ द्र० हमारे गणपाठ के अत्रशसस्करण के अत्र म ।

६ अत्रवृत्करणान्कृतिगणोऽयम् । काशिका २। १। २६ ॥ इस के पाठान्तर के लिए देखो इसी ग्रंथ का पृष्ठ ६१ पक्ष १६ ।

स्पष्ट है कि 'वृत्' शब्द का निर्देश ही किसी गण को पठितगण बनाता है और उसका अभाव ही आकृतिगण बना देता है ।

पाणिनि के उत्तरवर्ती सूत्रकारों की पीढ़ी ने सम्भवतः पठितगणत्व के चोत्सव वृत्करण की प्रक्रिया को उपेक्षित कर दिया, क्योंकि उत्तरवर्ती किसी वैयाकरण के गणपाठ में वही पर भी वृत्करण उपलब्ध नहीं होता ।

गणपाठ का द्विविध पाठ

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने गौरादिगण के विषय में लिखा है—

एव तर्हि गौरादिषु पाठादीकारो भविष्यति । गौरादिषु न पठ्यते । नहि किञ्चित् तुन्नन्तं गौरादिषु पठ्यते । ७।२।९६ ॥

अर्थात्—[क्रोष्ट्र शब्द के] गौरादि गण में पाठ होने से ईकार हो जाएगा । गौरादि गण में नहीं पढ़ा जाता । कोई भी तुन्नन्त गौरादि गण में नहीं पढ़ा जाता ।

पतञ्जलि के इस परस्पर विरुद्ध वाक्य की सगति दर्शाते हुए कैयट ने लिखा है—

गौरादिपाठादिति—पृथिवी, क्रोष्ट्र, पिप्पल्यादयश्चेति छेदाध्यायिनः पठन्ति । नहि किञ्चिदिति—संहिताध्यायिनो न पठन्ति । महा० प्रदीप ७।२।९६ ॥

अर्थात्—गौरादि गण में पृथिवी क्रोष्ट्र पिप्पल्यादयश्च पेसा छेदाध्यायी पढ़ते हैं और संहिताध्यायी नहीं पढ़ते ।

कैयट ने इस व्याख्या में गणपाठ के संहिताध्यायी और छेदाध्यायी द्विविध आचार्यों का निर्देश किया है । इससे स्पष्ट है कि कैयट के समय तक गणपाठ के छेदात्मक और संहितात्मक अर्थात् वृहत्=दीर्घ=वृद्ध तथा लघु दो प्रकार के पाठ विद्यमान थे । इन द्विविध पाठों के विषय में कैयट के उक्त निर्देश के अतिरिक्त और कोई सकेत उपलब्ध नहीं होता । हा, संस्कृत वाङ्मय में अनेक ऐसे ग्रन्थ हैं जिनके वृद्ध और लघु दो प्रकार के पाठ मिलते हैं । यथा—निघण्टु निरुक्त, भरत नाट्यशास्त्र, सुश्रुत, चरणक्य-नीति आदि । पाणिनि अष्टाध्यायी व भी वृद्ध और लघु दो पाठ हैं । वाशिकावृत्ति वृद्ध पाठ पर है और कात्यायन के वार्तिक तथा महाभाष्य लघुपाठ का आश्रयण करते हैं ।

कृतिपय गणों में निष्पन्न शब्दों का पाठ

पाणिनि तथा अन्य सभी व्याकरणों के कृतिपय गणों में निष्पन्न शब्दों का पाठ मिलता है। यह निष्पन्न शब्दों का पाठ भी दो प्रकार का है। एक सूत्रों में प्रकृतिमान का पाठ करके गणपाठ में निष्पन्न शब्दों का पाठ करना। यथा-नन्दिग्रह्णिपचादिभ्यो ल्युण्णिन्वचः (३।१।१३४) सूत्रसवद्ध नन्द्यादि ग्रह्ण्यादि और पचादि आदि गणों में नन्दनः ग्राही पचः आदि प्रकृतिप्रत्यय-निष्पन्न शब्दों का पाठ। दूसरा सूत्रों में ही निष्पन्न शब्दों का निर्देश करके गणपाठ में भी निष्पन्न शब्दों का ही पाठ करना यथा-तिष्ठद्गु-प्रभृतीनि च (२।१।१७) पात्रे समितादयश्च (२।१।१८) मयूरव्यंसकादयश्च (२।१।७२) आदि सूत्र सवद्ध गणों में तिष्ठद्गु, पात्रे समितः, मयूरव्यंसकः आदि समस्त निष्पन्न शब्दों का पाठ। द्वितीय प्रकार के निष्पन्न शब्दों के पाठ की शैली का निपातन शब्द से भी व्यवहार होता है। निपातन का अभिप्राय भी यही होता है कि जो शब्द जिस रूप में वर्तमान हो उसको उन्ही रूप में पढ़कर साधु मान लेना। यह निपातन की शैली गणपाठ के अतिरिक्त अष्टाध्यायी के अनेक सूत्रों में भी प्रतिष्ठित है।^१

निपातन शैली पर आक्षेप और उसका समाधान

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि सम्भवतः वैयाकरणों में प्रथम इन्द्र, जिसने पतञ्जलि के कथनानुसार शब्दों का प्रतिपद पाठ किया था^२ तथा अन्वेषको की धारणानुसार इन्द्र के अनुयायी प्रातिशाख्यकारों^३ ने भले ही शब्दों की प्रकृति-प्रत्यय विभाग की ओर विशेष ध्यान न देते हुए उनके निष्पन्न रूपों को ही अपने व्याकरण में स्थान दिया हो, परन्तु लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्^४ के अपूर्व आदर्श पर चलने वाले महान सूक्ष्मेक्षिक पाणिनि जैसे सूत्रशैली के निष्णात आचार्य के व्याकरण में निपातन शैली ने क्यों स्थान प्राप्त किया।

१ 'छन्दसि निष्कपदेवहृय' (३।१।१२३) इत्यादि वैदिक, 'मृत्विग्दधृक्मृग्' (३।२।५६) इत्यादि लौकिक पद साधु-निदर्शक सूत्र।

२ महा० नवा० पृष्ठ ५०।

३ द्र० ग्रान टी एन्ड्रम्बल आफ सट्टन ग्रामरियन्स, पृष्ठ १२ तथा उसमें ग्रामे।

४ महा० नवा० पृष्ठ ७१।

इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें उन शब्दों के स्वरूप पर ध्यान देना होगा, जिनके लिए निपातन शैली का आश्रयण किया गया है। सुपामादि तथा क्षुभ्नादि गणों के विषय में कात्यायन का अविहितलक्षणो मूर्धन्यः सुपामादिपु तथा अविहितलक्षणो ण्प्रतिषेधः क्षुभ्नादिपु^१ कथन, इसी प्रकार पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् (६।३।१०८) सूत्र की व्याख्या में पृषोदर आदि निपातित शब्दों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए पतञ्जलि का येषु लोपागमवर्णविकाराः श्रूयन्ते न चोच्यन्ते^२ वक्तव्य निपातित शब्दों के स्वरूप को भली भाँति स्पष्ट कर देता है। इसी बात को काशिकाकार के शब्दों में अधिक स्पष्ट करके यों भी कहा जा सकता है—

यदिह लक्षणेनानुपन्नं तत्सर्वं निपातनात् सिद्धम् ।^३

इस लक्षण के अनुसार जिन कतिपय शब्दों में लोप, आगम, वर्णविकार आदि कुछ ऐसे कार्य दिखाई पड़ते हैं, जिनकी प्राप्ति सूत्रकार के किसी सूत्र द्वारा नहीं होती, परन्तु होते हैं वे शिष्ट-प्रयुक्त। ऐसे शब्दों की साधुता को प्रमाणित करने के लिए उन्हें उनके स्वरूप में ही उपस्थित किया जाता है।

निपातन शैली के मर्मज्ञ किसी विद्वान् ने निपातन की तीन विशेषताओं को निम्न श्लोक में उपस्थित किया है—

अप्राप्तेः प्रापणं चापि प्राप्तेर्वारणमेव वा ।

अधिकार्यं विवक्षा च त्रयमेतन्निपातनम् ॥

अर्थात्-अप्राप्त कार्य की प्राप्ति, प्राप्ति का प्रतिषेध और अधिक अर्थ (विशेषार्थ) को विवक्षा इन तीन कार्यों के लिए निपातन किया जाता है।

भर्तृहरि ने निपातन का स्वरूप इस प्रकार व्यक्त किया है—

धातुसाधनकालानां प्राप्त्यर्थं नियमस्य च ।

अनुबन्धविकाराणां रूढवर्थं च निपातनम् ॥ वाक्यपदीय ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उन रूढि शब्दों के लिए, जिनमें प्रकृति और प्रत्यय को देखकर अर्थ की कल्पना नहीं की जा सकती, अपितु उनके अर्थ को जान कर ही प्रकृति-प्रत्यय की प्रकल्पना की जाती है, तथा जिनकी प्रारम्भिक उत्पत्ति कब, कैसे, तथा किस रूप में हुई, एवं भाषा-प्रवाह के

१. महा० ८।३।६८ ॥

२. महा० ८।४।३६ ॥

३. महा० ६।६।१०८ ॥

४. काशिका ५।१।५६ ॥

प्रचण्ड थपेडो ने उनके प्रारम्भिक रूप में कितना परिवर्तन कर दिया, यह सब कुछ ज्ञात नहीं, निपातन की पद्धति के अतिरिक्त दूसरी कोई सम्भव पद्धति ही नहीं थी, जिसे पाणिनि आदि वैयाकरण अपनाते।

गणों में शब्दों का निर्विभक्तिरूपाठ

जिम प्रकार धातुपाठ में धातुओं को उनके वास्तविक स्वरूप के निदर्शन के लिए निर्विभक्तिरूपाठ पढ़ा गया है, उसी प्रकार गणपाठ में भी शब्दों के मूल स्वरूप के ज्ञापन के लिए उनका निर्विभक्तिरूपाठ मूलरूप अर्थात् प्रातिपदिक अवस्था में वर्तमान स्वरूप को ही अपनाया गया। इस कारण गणपाठ का दूसरा नाम प्रातिपदिक पाठ भी है।^१ इस प्रातिपदिक अवस्था को ही ध्यान में रखकर पत्तञ्जलि ने प्रातिपदिकान्यपि शुद्धानि पठन्ते^२ शब्दों द्वारा गणपाठ में प्रातिपदिक पाठ का संकेत किया है।

क्वचित् सविभक्तिरूपाठ

गणपाठ में कहीं कहीं किन्हीं शब्दों का सविभक्तिरूपाठ भी उपलब्ध होता है। यथा उर.प्रभृति (५।४।१४१) गण में पुमान् अनङ्घान्, पयः, नौ, लक्ष्मीः इन शब्दों का एक वचनान्त रूप में पाठ मिलता है। इस पाठ वैशम्पय ने व्याख्याकारों को सविभक्तिनिर्देश का प्रयोजन बताने के लिए विवशकर दिया। काशिकाकार ने उक्त शब्दों के सविभक्तिरूपाठ का प्रयोजन इस प्रकार दर्शाया है—

पुमान् अनङ्घान् पयो नौर्लक्ष्मीरिति विभक्त्यन्ता, न प्रातिपदिकानि। तत्रेदं प्रयोजनम्, एकवचनान्तानामेव ग्रहणमिदं विज्ञायेत्, द्विवचन-बहुवचनान्तानां भा भूदिति। तत्र शेषाद् विभाषा (५।४।१५४) इति विकल्प एव भवति-द्विपुमान्, द्विपुस्कः; बहुपुमान्, बहुपुस्कः।
काशिका ५।१।१५१ ॥

अर्थात्-पुमान् आदि शब्दों के एकवचनान्त पाठ का यह प्रयोजन है कि इस सूत्र में इन शब्दों के एकवचनान्त से निष्पन्न बहुव्रीहि समास में ही नित्य कप् हो। द्विवचनान्त तथा बहुवचनान्त से निष्पन्न बहुव्रीहि में शेषाद्

१ लिलपट्टो धातुपाठ चकारात् प्रातिपदिकपाठश्च । न्यास १।३।२ ॥

२ महा० नवा०, पृष्ठ ७६ ।

विभाषा (५।१।१५४) सूत्र से विकल्प स कन् हो। यथा-द्विपुमान्, द्विपु स्क, बहुपुमान्, बहुपु स्क।

पुमान् आदि शब्दों के सविभक्तिक पाठ का यही प्रयोजन चन्द्रगोमी तथा वर्धमान प्रभृति व्याख्याकारों ने भी दर्शाया है।^१

कचिद् वाक्य-प्रयोग

पाणिनीय गणपाठ के प्रवृद्धादि गण (६।२।१७) म-

प्रवृद्ध यानम् । प्रवृद्धो वृषल । प्रयुक्ता सक्तव । आरुषेऽवहित । अरहितो भोगेषु ।

आदि वाक्यों का पाठ दृष्टिगोचर होता है। ये विशिष्ट प्रयोग भी व्याख्याकारों को उनका विशिष्ट प्रयोजन को व्यक्त करने के लिए विवश करत ह। काशिकाकार ने इन वाक्य प्रयोगों का प्रयोजन इस प्रकार दर्शाया है—

यानादीनामत्र गणो पाठ प्रायोवृत्तिप्रदर्शनार्था न विषयनियमार्थ । यानादिभ्योऽपत्रापि तयामन्तोदात्तत्व भ्रतयेव । विषयनियमार्थ एवेत्येके ।

अर्थात् यानम् आदि का इस गण में पाठ उन उन शब्दों की प्रायिक वृत्ति के निर्द्गान के लिए है, विषय के नियमन के लिए नहीं क्योंकि यानादि विषयों से अन्यत्र भी प्रवृद्ध आदि शब्दों का अन्तोदात्तत्व देखा जाता है। विषयनियमार्थ ही [यानादि का] पाठ है ऐसा कई व्याख्याकारों का मत है।

भट्ट यज्ञेश्वर ने अपनी गणरत्नावली के मूल पाठ (श्लोक) में केवल प्रवृद्ध प्रयुक्त आदि शब्दों का ही निर्देश करके व्याख्या में काशिकाकार के मत से प्रवृद्ध यानम् इत्यादि का पाठ माना है और उसका काशिकाकारोक्त प्रयोजन ही लिखा है।^२

१ चन्द्रमात ४।४।१३६ गणरत्नमहोदधि पृष्ठ ६६।

२ काशिकाकार क द्वारा दो विभिन्न प्रयानों का उल्लेख होने से तथा प्रवृद्ध और अरहित शब्दों का द्विधापाठ उपलब्ध होने से इस बात की सम्भवा हाती है कि प्रवृद्ध यानम् आदि वाक्य मूल गणपाठ के नहीं हैं अपितु उत्तिकारा व उदाहरण कथन्त्रि गणपाठ में प्रविष्ट हो गए हैं। प्राचीन हस्तलिपियों पर काम करने वाले पण्डितान् जानते हैं कि किसी हस्तलिपि पर उसके प्रात में (मात्र पर) दिए गए विररुगामक पाठ उत्तर प्रतिलिपि करने वाले की अज्ञानता अथवा प्रमाद से मूल पाठ में सन्निविष्ट हो जाते हैं।

गण में शब्द विशेष के प्रथम पाठ का कारण

गणों के आरम्भ में जिन शब्दों को स्थान दिया गया है अथवा जिन शब्दों के आधार पर उन उन गणों के नाम-करण हुए हैं, यथा सर्वादि चादि आदि, उन उन शब्दों को प्रथम स्थान क्यों दिया गया, इस पर भी कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।

यद्यपि गण निर्देश करते समय किसी न किसी शब्द को प्रथम पढ़ना ही पड़ता और जिस शब्द को भी प्रथम स्थान दिया जाता, उसके लिए भी यह पूछा जा सकता है कि इस शब्द को प्रथम स्थान क्यों दिया गया। इसलिए सर्वत्र इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दिया जा सकता। तथापि इतना अवश्य है कि कतिपय गणों में इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है और उसका उत्तर भी मिल सकता है। हमारे विचार में सामान्यतया किसी भी शब्द को प्रथम स्थान देने के लिए यह वाञ्छनीय है कि उस शब्द में अपने गण के अन्य शब्दों की अज्ञेता लाघव, प्राचीन-परम्परा, प्रसिद्धि अथवा किसी अन्य प्रकार की विशेषता विद्यमान हो। हमारी इस धारणा में यह कारण है कि गण के प्राथमिक शब्द को ही अष्टाध्यायी के तद्गण सन्धी सूत्र में रखकर उसी एक शब्द से सूत्रकार पाणिनि को पूरे गण का प्रतिनिधित्व करवाना इष्ट था। अतः सूत्र यथासंभव सक्षिप्त, सरल एवं सुबोध बन मके, इसलिए उपर्युक्त गुणों की सत्ता गण के आरम्भ में प्रस्तुत शब्द में सर्वथा वाञ्छनीय है।

लाघव-सूत्रकार पाणिनि ने लाघव की दृष्टि से कई प्राचीन गणों के प्रारम्भिक बड़े शब्द के स्थान पर लघु शब्द का निर्देश किया है। यथा ऋक्तन्त्र में प्राप्त होने वाले कौतस्कुतादि (सूत्र १२८) गण के प्रथम कौतस्कुत शब्द के स्थान पर पाणिनि ने अति लघु कस्क शब्द को इस गण के आरम्भ में पढ़ा।^१

एक मात्र शब्द-लाघव को ही अपने व्याकरण का आदर्श मानने वाले अर्वाचीन चन्द्रगोमी, पाल्यकीर्ति हेमचन्द्र भोज तथा वर्धमान प्रभृति वैयाकरणों ने पाणिनि के द्वारा स्वीकृत अनेक गण-नामों के स्थान पर छोटा नाम रखने के लिए पाणिनीय गण के प्रारम्भिक शब्द को हटाकर उनके

स्थान पर अन्य अपेक्षाकृत छोटे शब्दों को रखने का प्रयास किया है। इन का निर्देश उन उन वैयाकरणों के प्रकरण में यथास्थान किया जाएगा।

अनेक साम्प्रतिक विद्वान् अर्वाचीन शब्दानुशासना में इस प्रकार का शब्द लाघव देखकर उन्हें पाणिनीय तन्त्र की अपेक्षा अधिक विकसित और प्रौढ मानते हैं परन्तु वास्तविकता इससे विपरीत है। पाणिनि प्रभृति प्राचीन वैयाकरण एक मात्र शब्द लाघव को ही अपना आदर्श नहीं मानते थे। वे अर्थ-लाघव का भी उतना ही ध्यान रखते थे। इसलिए पाणिनि ने 'सर्वनाम स्थान' जैसी महती प्राचीन अन्वर्थ सज्ञाओं को भी अपने शास्त्र में स्थान दिया। ये सज्ञाएँ शाब्दिक रूप में महती होनी हुईं भी परम्परा से लोक विज्ञात होने के कारण अर्थरूप में लघुभूत थीं। अर्वाचीन शब्दानुशासना में सर्वथा नवीन सज्ञाओं के होने के कारण वे शाब्दिक दृष्टि से लघु होते हुए भी अर्थ की दुरूहता के कारण गुरु बन गए।

प्राचीन परम्परा-आचार्य पाणिनि ने लाघव के साथ साथ प्राचीन परम्परा का भी ध्यान रखते हुए लघुभूत शब्द के स्थान पर परम्परा प्राप्त बड़े शब्दों को आदि में रखना उचित समझा। यथा-सर्वादिगण में त्यत् तद्र त्व आदि अनेक शब्द ऐसे पठित हैं जो 'सर्व' की अपेक्षा लघु हैं परन्तु पाणिनि ने उन्हें प्रथम स्थान न देकर प्राचीन परम्परा को ध्यान में रखते हुए 'सर्व' शब्द को ही प्रथम रखा। 'सर्व' शब्द की महत्ता इससे भी प्रकट है कि प्राचीन आचार्यों ने सर्वादिगण की जो अन्वर्थ सज्ञा (सर्वनाम) रखी उसमें भी 'सर्व' शब्द को ही स्थान दिया है। इसलिए पाणिनि ने इस गण के आरम्भ में पठित शब्द तथा सर्वनाम सज्ञा का निर्देश प्राचीन परम्परा के अनुरोध से किया है। इसमें यद्यपि शब्द गौरव तो हुआ परन्तु अर्थकृत लाघव ही गया। शब्द-लाघव और अर्थ-लाघव में अर्थ-लाघव ही प्रधान होता है।

इसी प्रकार पात्रेसमितादि पारस्करादि तथा पृषोदरादि जैसे गणों के बड़े बड़े प्रारम्भिक शब्द भी सम्भवतः वैयाकरणों की प्राचीन परम्परा के अनुकरण पर ही गणों में प्राथमिकता प्राप्त कर सके हैं। इन में पृषोदरादि गण के लिए पाणिनि के पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् (६। ३। १०८) के यथोपदिष्टम्-पृषोदरादि शब्दा का जिस रूप में उपदेश किया गया की दृष्टि में प्राचीन आचार्यों द्वारा इतने अंश का अध्याहार करते हुए यह अनुमान करना सरल है कि यह गण पाणिनि से प्राचीन रहा होगा। पाणिनि से

प्राचीन परम्परा के अनुगामी ऋक्तन्त्र में यह गण उपलब्ध भी होता है। देखो ऋक्तन्त्र सूत्र सख्या १६६।

प्रसिद्धि—इसी प्रकार गोत्रविषयक गणों में तथा मयूरच्यसकादि, याजकादि, तक्षशिलादि एव ब्राह्मणादि गणों में बड़े बड़े शब्दों को प्रथम स्थान देने में उन उन शब्दों की तात्कालिक पर्याप्त प्रसिद्धि को ही कारण मानना होगा, जिसकी स्पष्ट छाप तत्कालीन साहित्य में हम पा सकते हैं। लोहितादि गण के प्रारम्भिक 'लोहित' शब्द के क्यपन्त होने से उभयपद के प्रयोग न केवल पाणिनि के समय ही प्रसिद्ध थे, अपितु कात्यायन और पतञ्जलि के समय में भी विद्यमान थे, जब कि इस गण के अन्य सभी शब्द परस्मैपद के प्रयोगों से हाथ धो बैठे, केवल आत्मनेपद में ही उन के प्रयोग सीमित रह गए। यही कारण है कि 'लोहित' शब्द को छोड़ कर इस गण के शेष सभी शब्दों को लोहितादिगण में हटाकर भृशादिगण में (जिससे क्यङ् होकर केवल आत्मनेपद के प्रयोग होते हैं) पढ़ने का प्रस्ताव कात्यायन द्वारा रखा गया और पतञ्जलि द्वारा अनुमोदित हुआ।^१ अथवा दूसरे शब्दों में लोहितादि गण को समाप्त करके लोहितडाज्भ्य क्यप-जैमी सूत्ररचना करने का सुझाव दिया। इसमें विदित होता है कि पाणिनि के समय ही लोहितादि गण के 'लोहित' के अतिरिक्त शेष शब्दों के उभयपद के प्रयोग उतने प्रसिद्ध नहीं थे जितने लोहित के। सम्भवतः इसी कारण पाणिनि ने लोहित शब्द को ही प्रथम स्थान देना उचित समझा होगा।

वैशिष्ट्य—पाणिनीय गणपाठ में कतिपय ऐसे भी गण उपलब्ध होते हैं, जिनमें किसी शब्द को उसकी किसी विशेषता अथवा महत्ता को देखते हुए ही प्रथम स्थान दिया गया है। इसके उदाहरण के रूप में भी सर्वादि गण को उपस्थित कर सकते हैं। प्राचीन आचार्यों द्वारा रखी गई सर्वादि शब्दों की सर्वनाम सज्ञा में सर्व शब्द का प्रयोग होने से 'सर्व' शब्द का महत्त्व अतिशय बढ़ गया। इसलिए प्राचीन अन्वय्य सर्वनाम सज्ञा को अपनाते हुए पाणिनि को सर्वादि गण में पठित न्यु शब्दों की उरक्षा करके 'सर्व' शब्द को ही प्रथम स्थान देना पड़ा। सर्व शब्द के इसी वैशिष्ट्य ने पाणिनि के पश्चान् आनेवाली वैयाकरणों की नग्यी पीढ़ी को भी जिसने यथावसर केवल लघुता

^१ लोहितडाज्भ्य क्यपन्तः भृशादिष्वितराणि । महा० ३ । १ । १३ ॥

को ही प्रधानता देते हुए बहुत से पाणिनीय गणों के प्रथम शब्दों को हटाकर अन्य लघुभूत शब्दों को स्थान दिया, सर्व शब्दों के स्थान पर अन्य किमी छोटे शब्द को रखने का दुस्साहस करने से रोक दिया।

इसी प्रकार कण्डूवादि गण के द्विविध अर्थात् प्रातिपदिक और धातु रूप स्वभाव के द्योतन में सहायक होने के कारण ही गण के अन्य शब्दों की अपेक्षा कण्डू को ही प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

✓ गणपाठ में अवान्तर गण

पाणिनि ने केवल गणों के आदि शब्द के निर्धारण में ही विशेष ध्यान रखा ही ऐसी बात नहीं है। उसने प्रायः सम्पूर्ण शब्दों के पौर्वापर्यक्रम के निर्धारण में भी विशेष प्रयत्न किया था।^१ इस प्रयत्न की सूचना जहाँ सवादिगण के शब्दों के पाणिनीय क्रम की आपिशलक्रम की तुलना^२ से

१ आह चायमिम दीर्घ मन्य धातुवभाषित । महा० ३ । १ । १२७ ॥ कण्डूवादि गण के शब्दों को केवल धातु मानन पर 'कण्डू' में दीर्घ ऊकार का पाठ व्यर्थ होता है क्योंकि ह्रस्वान्त 'कण्डू' पाठ होने पर भी यक् परे रहन पर 'अकृतसारधातुकयोर्दीर्घ' (७ । ४ । २५) से दीर्घ होकर कण्डूयति रूप निष्पन्न हो ही जाता। पुनः दीर्घ पाठ व्यर्थ होकर शपन करता है कि कण्डूवादि शब्द केवल धातु ही नहीं हैं, प्रातिपदिक भी हैं।

२. इस विषय पर पराग (पृष्ठ ७७-८१) विस्तार से लिखा जाएगा।

३. पाणिनि के सर्वादिगण का पाठ क्रम है—पूर्वपराधरदक्षिणा 'त्यद्, तद् यद् इदम्, अदस्, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवद्, किम् ।' आपिशलि के गण में इसका पाठ इस क्रम से था—'किम्, त्यद्, तद्, यद्, एतद्, इदम्, अदस, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद् पूर्वपराधर...' भवद्' (द्रष्टव्य—'इह त्यदादिन्यापिशलि किमादीन्यस्मत्पयन्तानि तत पूर्वपराधरेति' । भर्तृहरि महा० गीका पृष्ठ २८७)। आपिशलि क्रम के अनुसार 'किसर्नामरहृम्योऽद्वयादिभ्य' (पा० ५ । ३ । २) सूत्र में द्वयादि के अन्तर्गत न होने से 'किम्' के ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी परन्तु पाणिनि ने 'त्यदादीना मियो यच्च पर तच्छिष्यत' (काशिका २।२।६२) नियम को ध्यान में रखत हुए 'यश्च कश्च कौ, भवाश्च कश्च कौ' आदि एकशेष में 'किम्' शब्द का शेष द्योतनार्थ आपिशलि द्वारा त्यदादि से पूर्व पठे गण 'किम्' शब्द का सर्वान्त में पढ़ा। आपिशलि का एक शेष का नियम अशक्य है।

प्राप्त होती है, वहा अवान्तर गणो के निर्देश अथवा व्यवहार' से इसकी अतिस्पष्ट प्रतीति होती है ।

पाणिनि ने गणो के शब्दो के क्रमनिर्धारण मे उन गणो से मात्रात् सवन्ध रखने वाले प्रमुख सूत्रो के अतिरिक्त किन अन्य सूत्रो मे तद्गणस्थ कतिपय शब्दो का उपयोग हो सकता है, इस बात का भी सूक्ष्म ध्यान रखकर कतिपय गणो मे किन्ही विशिष्ट शब्दो को एक साथ रखने का प्रयाम किया है । तथा उन शब्दो मे प्रथम पठित शब्द के साथ आदि शब्द का प्रयोग करके सूत्रो को सरल तथा सज्जित करने का लाभ उठाया है । इस प्रकार के अन्य सूत्रो के कार्य मे उपयोगी शब्द समूहो को अवान्तरगण कहा जाना है । ये शब्द एक ओर मुख्य गण मे विद्यमान रह कर मुख्य गण सम्बन्धी सूत्र द्वारा निर्दिष्ट होकर उसे मही शक्ति प्रदान करते है और तद्विहित कार्य को प्राप्त होते है, तथा दूसरी ओर अपनी छोटीसी शब्द मण्डली के रूप मे अन्य सूत्रो द्वारा निर्दिष्ट होकर उनकी सज्जितता मे महायक बनने है और तद्विहित विशिष्ट कार्य को भी प्राप्त होने है ।

अब कतिपय अवान्तर गणो का निदर्शन कराते ह—

१—सर्गाद्यन्तर्गत—गणपाठ के प्रथम सर्वादिगण मे डतरादि, पूर्वादि, त्यदादि तथा द्वयादि ये चार अवान्तर गण है । इन मे से त्यदादि का निर्देश पाणिनि ने चार सूत्र^१ मे डतरादि, पूर्वादि तथा द्वयादि का एक एक सूत्र^२ मे निर्देश किया है ।

२—गर्गाद्यन्तर्गत—चतुर्थ अध्याय के गणादि गण मे लोहितादि तथा कणादि ये दो अवान्तर गण पाए जाते है । लोहितादि^३ का निर्देश

१ द्रष्टव्य—'सर्गत्र लोहितादिकतन्त्रेभ्य' (४ । १ । १८) सूत्र मे आद्यन्त शब्दों का उपादान ।

२ द्रष्टव्य—त्यदादीनि च (१ । १ । ७४), त्यदादीनि मरेनित्यम् (१ । २ । ७२), त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ् च (३ । २ । ६०) त्यदादीनाम्. (७ । २ । १०२) ।

३. द्रष्टव्य—अदृङ् डतरादिभ्य पञ्चम्य (७ । १ । २५), पूर्वादिभ्यो नग्भ्यो वा (७ । १ । १६) किंसरेनामग्भ्योऽद्वयादिभ्य (५ । ३ । २) ।

४. लोहितादिडाग्भ्य क्यप् (३ । १ । १३) सूत्र निर्दिष्ट लोहितादिगण इस स भिन्न है ।

सर्जन लोहितादिकृतन्तेभ्य (४।१।१८) तथा कण्वादि का कण्वादिभ्यो गोत्रे (४।२।१११) म किया है।

३-नडाद्यन्तर्गत-नडादिगण मे पठित विल्व आदि शब्दा का नडादीना कुक्च (१।२।९१) सूत्र विहित कुगागम से युक्त कर क 'विल्वकादिश्छस्य लुरु (६।१।१५३) इस सूत्र मे उपयोग हुआ ह। इसलिए इन्ह भी अवान्तरगण क रूप म ही मानना होगा।

४-विदाद्यन्तर्गत-विदादिगण म गोपवनादि आर हरितादि ये दो अवान्तर गण मिलते ह। सूत्रकार ने इनका निर्देश न गोपवनादिभ्य (२।१।६७) तथा हरितादिभ्योऽञ (४।१।१००) सूत्रो मे किया है। एसा प्रतीत होता है कि यह गोपवनादि गण उत्तर काल मे अवान्तर गण न रहकर स्वतन्त्र गण क रूप म पठित अथवा व्यवहृत होने लगा और उम स्वतन्त्र गोपवनादि गण म इसके मूल अथवा प्रधान विदादिगण म गोपवन आदि शब्दा वे पश्चात् पढे गए हरित आदि शब्द भी प्रमादवश पढे जान गये। सम्भवत इसी अव्यवधा को कात्यायन ने गोपवनादिभ्य प्रतिषेध प्राग्हरितादिभ्य इस वार्तिक की रचना द्वारा प्राग् हरितादि हरितादि शब्दा स पहल पहले-के रूप म दूर करने का प्रयत्न किया। इसी कात्यायनीय वार्तिक क आधार पर आचार्य चन्द्रगोमी न न गोपवनादिभ्यो ष्टभ्य^२ सूत्र द्वारा ष्टभ्य कवल गोपवनादि आठ शब्दा से-के रूप मे गोपवनादि गण को नियमित अथवा व्यवस्थित करना चाहा। काशिकाकार न न गोपवनादिभ्य (२।१।६७) इस पाणिनीय सूत्र की व्याख्या करत हुए कात्यायन की उपर्युक्त वार्तिक तथा चन्द्रगोमी क पूर्व निर्दिष्ट सूत्र की पृष्भूमि म यह स्पष्ट कह दिया-

एताद्यन्त एषाष्टौ गोपवनादय , परिशिष्टाना हरितादीना प्रमाद पाठ ।^३

अथात्-गोपवन आदि आठ शब्द ही इस गण में अभीष्ट हैं शेष हरित आदि शब्द जा इन गण म पठित मिलते ह व प्रमाद पठित ह। वाग्विभार क इस कथन स उपर्युक्त कारण गोपवनादि स्वतन्त्र गण

^२ मश० २।४।६७ ॥

^२ चान्द्र २।४।१६ ॥

^३ काशिका २।४।६७ ॥

के रूप में पढ़ा जाने लगा था' का स्पष्ट संकेत मिलता है। अतएव पदमञ्जरीकार ने स्पष्ट लिखा है कि वृत्तिकार यहाँ पर स्वतन्त्र पाठ मानता है—

वृत्तिकारस्तु चतुर्थे अत्र च पृथक् पाठ मन्यते । भाग १, पृष्ठ ४९० ।

५-गौराद्यन्तर्गत-गौरादि गण के अन्त में मिलने वाले तथा उसके अवान्तरगण के रूप में प्रतीत होने वाले पिप्पली आदि शब्द समूह का अष्टाध्यायी में कहीं भी किसी सूत्र में निर्देश न होने के कारण उसे अपाणिनीय ही मानना होगा। इसका प्रतिपादन हम पूर्व (पृष्ठ ३४, ३५) कर चुके हैं।

इन अवान्तर गणों के प्रसङ्ग में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि ये अवान्तर गण पठितगणा में ही अपना स्वरूप निवारित कर मके हैं, तथा जिन सूत्रों में इनका उपयोग हुआ है वहाँ भी ये पठितगण के रूप में ही उपस्थित हुए हैं। दूसरे शब्दों में इस बात को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि न तो आकृतिगणों से कहीं कोई अवान्तर गण लिया गया है और नाहीं ये स्वयं वही आकृतिगणों के रूप में स्वीकृत हुए हैं। यह तथ्य भी इस बात का पोषक है कि आकृतिगणों का पाठ अथवा उनके शब्दों का निर्धारण सूत्रकार द्वारा नहीं किया गया था, जब कि पठितगणों के प्रत्येक शब्द का निर्धारण स्वयं सूत्रकार ने ही किया था।

गणपाठ में शब्दों का क्रम

गणपाठ में निर्दिष्ट गणों में जो शब्द पढ़े गए हैं, उनमें गणकार को कोई विनिष्ट क्रम अभिप्रेत था अथवा नहीं, यदि था तो क्या वही क्रम आज भी गणपाठ में विद्यमान है अथवा नहीं, इस विषय पर भी विचार करना अत्यावश्यक है।

जहाँ तक आकृतिगणों का सम्बन्ध है, उनमें शब्दों के क्रम का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आकृतिगणों में अभिप्रेत समस्त शब्दों का पाठ सूत्रकार (क्योंकि वही गणकार भी है) ने नहीं किया था। उपलक्षण रूप में भले ही दो चार शब्दों का पाठ उस न किया हो अथवा किसी विशेष प्रयोजन को दृष्टि में रखते हुए कतिपय शब्दों को स्वतन्त्र आकृतिगण में स्थान दिया हो यह दूसरी बात है। इसलिए उक्त विचार पठितगणों से ही सम्बन्ध रखता है अतः उन्हीं के विषय में विचार करने है।

उपर्युक्त प्रश्न अथवा जिज्ञासा का मन्तायजनक समाधान स्वयं पाणिनि ने कतिपय सूत्रों में ही प्राप्त हो जाता है। यथा—

१-सर्वादि गण के शब्दों के अभिप्रेत क्रम विगण के लिए अष्टाध्यायी के कतिपय सूत्र उपस्थित किए जा सकते हैं। वे सूत्र हैं-

अदडडतरादिभ्य पञ्चभ्य । ७।१।२५ ॥

पूर्वादिभ्यो नञभ्यो वा । ७।१।१६ ॥

त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् । १।२।७२ ॥

किंसर्वनामरहभ्योऽद्वयादिभ्य । ५।३।० ॥

अब एक एक सूत्र की मीमांसा करने हैं-

अदडडतरादिभ्य पञ्चभ्य (७।१।२५) सूत्र सर्वादि गण पठित नपु सक लिङ्ग मे वर्तमान डतर आदि पाच शब्दों को प्रथमा और द्वितीया विभक्ति मे एक वचन 'मु' तथा अम्' के परे रहने पर 'अदड्' आदेश का विधान करता है। सर्वादि गण मे डतर आदि शब्दों का जो क्रम है तथा उस क्रम के अनुसार जो डतर डतम इतर अन्य अन्यतर पाच शब्द गृहीत होते हैं केवल उनमे ही मु तथा अम् के परे 'अदड्' आदेश नोक मे दखा जाता है। यदि गणपाठ मे कोई निश्चित क्रम अभिप्रेत न होता तो सूत्रकार का पञ्चभ्य कथन कथंचिद् भी उपपन्न न होता।

पूरादिभ्यो नञभ्यो वा (७।१।१६) सूत्र सर्वादि गण पठित पूर्व आदि नों गद्दा से पञ्चमी तथा सप्तमी विभक्ति के एक वचन मे क्रमशः स्मात् 'स्मिन् आत्मा रा विवल्प से विधान करता है। यहा भी यह निर्विवाद सत्य है कि जिस क्रम मे पूर्व आदि गद्दा का सर्वादिगण मे पाठ उपलब्ध होता है उमी क्रम के अनुसार जो पूर्व पर आदि नों शब्द गृहीत होते हैं उनमे ही वैकल्पिक स्मात् स्मिन् आदेश भाषा मे पाए जात ह। यदि गणकार का मरादि गण मे गद्दा का कोई निश्चित क्रम अभिप्रेत न होता तो यहा भी नञभ्य निर्देश कथंचिदपि उपपन्न न होता।

द्वाना सूत्रा मे निश्चित मय्या-द्योतन पञ्चभ्य और नञभ्य शब्दों का प्रयोग करने मे सूत्रकार तभी समर्थ हो सकते थे जब कि गणकार के रूप मे उन्होंने गणपाठ मे शब्दों का कोई निश्चित क्रम अपनाया हो।

त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् (१।२।७२) सूत्र बताता है कि यदि किसी वा सिन्धी गद्दा के साथ त्यद् आदि गद्दा का प्रयोग अभिप्रेत हा तो वहा कवन त्यद् आदि गद्दा ही पञ्चभ्य द्वयादि अत्रिगण गहन हैं अथान् प्रयुक्त होने हैं। यथा-म च द्यदत्तञ्च नो इत्यादि। जब त्यदादि गण मे पठित शब्दों

का ही एक साथ प्रयोग अभिप्रेत होता है तब उनमें जो जो शब्द पर होता है, वही अवशिष्ट रहता है। इस बात का द्योतक वैयाकरणों का एक नियम है—*त्यदादीनां मिथ सहोक्तौ यद्यत्पर तच्छ्लुष्यते*। प्रस्तुत प्रसंग में यह नियम बड़े महत्त्व का है। इसका अभिप्राय यह है कि *त्यद्, तद्, यद्, एतद्, इदम्, अदस्, एकं द्वि, युष्मद्, अस्मद्, भवतु* किम्पे शब्द आपस में ही सहोक्ति के रूप में प्रयुज्यमान हो तो इनमें जो जो पर है उसी का एकशेष के रूप में प्रयोग होगा। यथा—*स च यश्च यौ, यश्च कश्च कौ*। इस प्रकार पाणिनि का सूत्र और वैयाकरणों द्वारा आश्रित नियम, इन दोनों से यह स्पष्ट है कि एकशेष विषयक भाषागत विभिन्न प्रयोगों को देखकर ही गणकार ने *त्यद्* आदि शब्दों के क्रम अथवा पौर्वापर्य का निर्वाण किया था।

किसर्जनामबहुभ्योऽद्वाद्यादिभ्यः—इस सूत्र में 'किम्' शब्द की विद्यमानता यह स्पष्ट घोषित कर रही है कि सर्वादिगण में किम् शब्द को द्वि इत्यादि शब्दों के अनन्तर पढ़ा था। अन्यथा यदि द्वि शब्द से पूर्व किम् को रखा गया होता, जैसा कि आपिशलि ने सर्वादिगण में रखा था^१, तो सूत्र के *अद्वाद्यादि* पद से उसका निषेध नहीं होता। उस अवस्था में 'किम्' पद को सूत्र में पढ़ना सर्वथा अनावश्यक था।^२ पतञ्जलि, कैयट, तथा भर्तृहरि के प्रामाणिक साक्ष्य से हम यह भी जानते हैं कि कुछ वैयाकरणों ने अपने सर्वादिगण में *त्यद्* आदि शब्दों के पश्चात् पूर्वपराधर आदि सूत्रों अथवा शब्दों को रखा था।^३ इनमें आपिशलि भी एक है।^३ इस से स्पष्ट है कि इन प्राचीन वैयाकरणों के सर्वादिगण के शब्दक्रम को पाणिनि ने अपने गणपाठ में नहीं अपनाया।

इस प्रकरण में गर्गादि गण से सबन्ध रखन वाले एक रोचक एवं अत्यावश्यक प्रसंग की ओर भी विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करना उचित है।

१. द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ ७४ की टिप्पणी ३।

२. इस विचार से यह भी व्यक्त होता है कि आपिशलि के सूत्रपाठ में 'किम्' शब्द का पाठ नहीं रहा होगा। तदनुसार उसका सूत्रपाठ समस्त 'सर्जनामबहुभ्योऽद्वादिभ्यः' रहा होगा।

३. द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ २६ टिप्पणी ५ ६।

गर्गादि प्रथान गण मे दो अवान्तर गण हैं लोहितादि तथा कण्वादि । इनकी चर्चा पूर्व की जा चुकी है ।^१ वार्तिककार के अनुसार जिस शब्द पर लोहितादि गण ममाप्त होता है, ठीक उसी के अनन्तर शकल शब्द का पाठ करके और कण्वादि शब्द मे पष्ठी समास का भी निर्देश मानकर कण्वादि गण का आरम्भ माना जाता है ।^२ परन्तु गर्गादि गण मे पाठक्रम इस प्रकार है—

लोहित, संशित, कपि, कत, कुरुकत, अन्नडुह, कण्व, शकल । इस रूप मे लोहितादिगण लोहित शब्द से लेकर कत पर्यन्त माना जाता है^३ और कण्व से लेकर अन्त तक कण्वादि गण । इस क्रम और व्यवस्था के अनुसार शकल शब्द केवल कण्वादि के अन्तर्गत आसकता है, लोहितादि गण के अन्तर्गत नहीं । इसलिए यत्रन्त शकल शब्द से स्त्रीलिङ्ग मे फ् प्रत्यय की प्राप्ति नहीं होती, परन्तु फ् प्रत्यय का प्रयोग उपलब्ध होने से इष्ट है । इसी प्रकार गोनप्रत्ययान्त शकल शब्द से शैपिक अण भी इष्ट है । इसलिए शाकल्यायनी तथा शाकल्यस्य छात्रा. शाकलाः दोनो प्रकार के प्रयोगो की सिद्धि के लिए आवश्यकता इस बात है कि शकल शब्द का लोहितादि तथा कण्वादि दोनो अवान्तर गणो मे सग्रह हो । इस ममस्या के समाधान के लिए श्लोकवार्तिककार ने एक उपाय सुझाया है कि शकल शब्द को अपने मूल स्थान से हटाकर कण्व से पूर्व तथा कत शब्द के पश्चात् रखना चाहिए (और मध्यवर्ती कुरुकत अन्नडुह शब्दो को लोहित से पूर्व पढ देना चाहिए) ।^४ इस परिवर्तित अवस्था मे शब्दो का क्रम होगा—कत, शकल, कण्व । इस प्रकार शकल शब्द के कत शब्द के पश्चात् होने पर लोहितादिकृतन्तेभ्यः मे कतस्य अन्तः कतन्तः पष्ठी समास मानने पर सूत्रगत कतन्त शब्द से शकल का ग्रहण भी लोहितादि गण मे हो जाएगा और उसमे स्त्रीलिङ्ग मे फ् प्रत्यय हो जाएगा । इसी प्रकार कण्वादिभ्य मे कण्वस्य आदि कण्वादि, कण्वादिरादियेषां ते

१ द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ ७५, ७६ ।

२. कण्वात् शकल पूर्व कतादुत्तर इध्यते ।

प्रयोजनम् । महा० ४ । १ । १८ ॥

३. द्रष्टव्य—सर्वत्र लोहितादिकृतन्तेभ्य । पा० ४ । १ । १८ ॥

४. कोष्ठान्तर्गत निर्देश ग्रथापत्ति से शक्ति होता है ।

करवाद्य (मध्यपदलोपी समास) विग्रह मान कर शकल का रूपवादि में भी अन्तर्भाव हो जाएगा और उसमें शेषिक अणु प्रत्यय की प्राप्ति भी हो जाएगी ।^१ इस प्रकार देहलीदीप न्याय में शकल का उभय गणों में अन्तर्भाव हो जाता है ।

उपर्युक्त मीमांसा से दो बातें स्पष्ट हैं—एक तो पाणिनि ने लोहितादिक तन्त्रेभ्यः सूत्र निर्दिष्ट गण के आद्यन्त=दोनों ओर के शब्दों का निर्देश करके यह ज्ञापित कर दिया कि उनके गणपाठ में शब्दों का विशेष क्रम अपेक्षित है । दूसरा श्लोकवार्तिककार का उपरिनिर्दिष्ट समासान् इस बात की घोषणा कर रहा है कि उस के समय में गणादि गण में लोहितादि शब्दों का वही क्रम था जो गणकार पाणिनि ने निर्धारित किया था ।

मीमांस्य की बात है कि गणपाठ के उपरि निर्दिष्ट सभी स्थलों में शब्दों के पौर्वापर्य क्रम में आज तक भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ । इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिस गण में शब्दों के क्रम विधान का कोई महत्त्व नहीं है, उस गण के शब्दों के क्रम निवारण का भी कोई विशेष प्रयोजन नहीं । परन्तु जिन गणों के शब्द विन्यास-क्रम का शब्द-माधन में थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ सकता था, उसका गणकार पाणिनि ने पूरा पूरा ध्यान रखा था । इस को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि गणपाठ में स्वीकृत शब्दों के क्रम का पूरा पूरा ध्यान रखने हुए ही सूत्रकार पाणिनि ने अपनी सूत्ररचना को साकार किया था ।

पाणिनीय गणपाठ में अपाणिनीय गण

पाणिनीय गणपाठ के हस्तलेखों एवं पाणिनीय अष्टाध्यायी के काशिका आदि व्याख्या ग्रन्थों में परिमुखादि तथा काष्ठादि ये दो गण भी पठित मिलते हैं । इन में परिमुखादि गण का संबंध जिस अन्ययीभाषाञ्च (४ । ३ । ५९) सूत्र से स्थापित किया जाता है, उस में पाणिनि ने 'आदि' शब्द का प्रयोग नहीं किया है । अन्य सभी गण-सम्बद्ध सूत्रों में चाहे वे धानुगण में सत्रद्वय हो चाहे प्रातिपदिक गण में सूत्रकार ने सर्वत्र अनिवार्य तथा गणनिर्देशक 'आदि' अथवा 'प्रभृति' अथवा वन्वचनन्त शब्द का प्रयोग किया है । इसलिए परिमुखादि को अन्यमणि पाणिनीय नहीं माना

१. कण्वात् शकल पूर्ण क्तादुत्तर इष्यते ।

पूर्वोत्तरो तदन्तादी षाणो तत्र प्रयोजनम् ॥ महा० ४ । १ । १८ ॥

जा सकता। हा, पाणिनि के उपर्युक्त सूत्र से सबद्ध कात्यायन के व्यग्ररू-
रूले परिमुखादिभ्य उपसख्यानम्' वार्तिक में पठित 'परिमुखादिभ्य से
इम गण का सबन्ध मानना होगा। पतञ्जलि न इस वार्तिक की जो व्याख्या
प्रस्तुत की है और जिस का अनुगमन कैयट तथा नागेश ने किया है^२ उससे
यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जाती है कि परिमुखादि गण का निर्धारण पाणिनि
द्वारा नहीं हुआ है। धानुवृत्तिकार ने स्पष्ट ही कहा है—परिमुखादिभ्य उप
सख्यानमिति वार्तिकम्। प्रतीत होता है उत्तरवर्ती वैयाकरणों ने उक्त
वार्तिक का अनुसरण करके इम गण को पाणिनीय गणपाठ में स्थान दे दिया
और शनै शनै पाणिनीय गणपाठ का अङ्ग ही बन गया। सम्भवत इसी कारण
न्यासकार जिनन्द्रबुद्धि^३, हरदत्त^४ तथा भट्टोजी दीक्षित^५ प्रभृति ने दिगादिगण
के अनन्तर इम परिमुखादि गण का पाठ देख कर पाणिनीय ममज्ञ लिया
और इस के पाणिनीयत्व के प्रतिपादन में अनेक युक्तिया उपस्थित की, जो
उपर्युक्त स्थिति में सर्वथा हेय एव उपक्ष्य है।

इसी प्रकार काष्ठादिगण भी पूजनात् पूजितमनुदात्तम् (८।१।६७)
इम पाणिनीय सूत्र से सबद्ध कात्यायन के पूजितस्यानुदात्तत्वे काष्ठादि
ग्रहण कर्त्तव्यम्^६ वार्तिक से सबन्ध रखता है न कि पाणिनीय सूत्र से।
इसलिए इम गण को भी पाणिनीय गणपाठ में वृत्तिकारों के प्रमादवश
स्थान मिला है।

वास्तविकता यह है कि कात्यायन तथा पतञ्जलि के उत्तरवर्ती
वैयाकरण चन्द्रगोमी ने पाणिनीय सूत्रों के विषय में इन दोनों मनीषियों
द्वारा प्रस्तुत प्राय सभी सशोबनों, परिवर्तना तथा परिवर्धनों को अपनी
सूत्ररचना में सर्वाशत स्वीकृत कर लिया। इसलिए कात्यायन की अनेक
वार्तिके चान्द्र व्याकरण के सूत्रों में प्रतिष्ठित दिखाई देती है। प्रो० कील
हार्न की निश्चित धारणा है कि काशिकाकार ने चन्द्रगोमी की सारी
मामथ्री का अपनी वृत्ति रचना में पर्याप्त उपयोग किया है। इसलिए

१. महा० ४।३।५६ ॥

२. द्र० ४।३।५६ का भाष्य, प्रदीप तथा उद्योत ग्रंथ।

३. न्यास ४।३।५६ ॥

४. प० मं० भाग २ पृष्ठ १७४।

५. श० की० ४।३।५६, पृष्ठ १६६ ॥

६. महा० ८।१।६७।

कात्यायन भी वार्तिकों के आधार पर रचित चन्द्रगोमी के कुछ सूत्रों को भी काशिकाकार ने पाणिनि के मौलिक सूत्रों के स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया है। संभवतः इसी प्रवृत्ति में प्रभावित होकर यहां भी काशिकाकार ने पाणिनि के 'पूजनात् पूजितमनुदात्तम् (८।१।६७) सूत्र के स्थान पर पूजनात् पूजितमनुदात्तं काष्ठादिभ्यः (का० ८।१।६७) इस प्रकार की सूत्ररचना को प्रथम दिया, और इसी कारण वार्तिक में सबद काष्ठादि गण पाणिनीय गणपाठ में प्रविष्ट हो गया।

पाणिनीय गणपाठ में औणादिक गण

पाणिनि के गणपाठ में गम्यादि (३।३।३) तथा भीमादि (३।४।७४) ये दो गण भी प्राप्त होने हैं। इन गणों में पठित शब्दों की मिद्धि अष्टाध्यायी के सूत्रों से न होने के कारण इन गणों का विशेष सवन्ध अष्टाध्यायी से न होकर उणादि सूत्रों से है। इन गणों की सत्ता से भी विद्वानों की इस सम्भावना को बल मिल सकता है कि उणादि सूत्रों की रचना पाणिनि की सूत्र-रचना से पूर्व ही हो चुकी थी।^१

पाणिनि के न्यङ्क्वादि (७।३।५३) गण में भी कुछ औणादिक शब्दों का पाठ है। उसे देख कर तागेश भट्ट ने लिखा है कि गणपाठ में इन शब्दों का पाठ व्युत्पत्तिवादी किन्हीं अन्य वैयाकरणों के अभिप्रायानुसार है।^२

गणनिर्धारण में शब्दों की इयत्ता

पाणिनीय गणपाठ में कुछ ऐसे भी गण हैं जिन का निर्धारण केवल चार पांच शब्दों के लिए ही किया गया है। उदाहरण के लिए क्रमादि अथवा फोटरादि गण द्रष्टव्य है। इसके विपरीत अष्टाध्यायी में इन्द्रवरुणभवशर्ष (४।१।८९) अथवा जानपदकुरण्डगोण (४।१।८२) अनेक ऐसे बड़े बड़े मूत्र मिलते हैं जिन में दस दस बीस बीस शब्द विद्यमान हैं, जिन के लिए गणशैली का उपयोग लाघव की दृष्टि में विशेष लाभकारी हो सकता था। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पाणिनि की गणशैली अथवा गण निर्धारण शब्दों की किसी निश्चिन्त मंश्या पर आश्रित थी।

१. द्रष्टव्य—वृत् ०८।

२. एषु उणादिपाठो व्युत्पत्तिवादि वैयाकरणान्तराभिप्रायेण । लघुशब्देन्दु० उत्तरार्ध, पृष्ठ ४७० ।

उपर्युक्त दोनों प्रकार के स्थलो मे उत्तरवर्ती वैयाकरणो ने पर्याप्त परिवर्तन किया है। उन्हो ने क्रमादि जैसे गणो को, जिन मे शब्दो की सरया बहुत स्वल्प थी, उन्हे गणरूप मे न रख कर सूत्रो मे ही उन शब्दो का साक्षात् पाठ कर दिया।^१ इसी प्रकार जिन सूत्रो मे अधिक शब्दो का निर्देश करना आवश्यक था जैसे इन्द्रवरुणभवशर्व (४।१।४९) अथवा जानपदकुण्डगोण (४।१।४२) इत्यादि सूत्र, उन्हे इन्द्रादि^२ तथा जानपदादि^३ अथवा कुण्डादि^४ जैसे गणो मे परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार पाणिनि के वे वे सूत्र पर्याप्त लघु हो गए।

प्रश्न हो सकता है कि गणशैली को अपनाते ए भी पाणिनि ने उसका आश्रय लेकर बड़े बड़े सूत्रो को लघुरूप क्यो नही दिया ? हमारे विचार मे इसका प्रधान कारण यह है कि सर्वत्र ही गणशैली का आश्रय लेकर प्रथमातिरिक्त शब्दो को दृष्टि से ओझल कर देने से जहा व्याकरण के वास्तविक कार्य (शब्दमाधुत्व बोधन) मे बाधा होती है, वहा शास्त्र की सरलता और साक्षात् उपदेशता भी समाप्त हो जाती है।

क्रमादि जैसे गणो को, जिनमे शब्दो की सरया बहुत स्वल्प है, पाणिनि ने गणपाठ मे स्थान क्यो दिया ? इस का उत्तर यह है कि इन गणो को पाणिनि ने अपने से पूर्व वैयाकरणो द्वारा प्राप्त किया था, हमारे शब्दो मे वैयाकरणो की प्राचीन परम्परा के अनुसार इन्हे पढा था।

गणपाठ में उपलभ्यमान गणसूत्रों की समस्या

पाणिनीय गणपाठ के विभिन्न गणो मे अनेक वाक्य उपलब्ध होते है, जिन्हे गणशास्त्र अथवा गणसूत्र कहा जाता है। अष्टाध्यायी के सूत्रो के समान इन गणसूत्रो को भी पाणिनीय ही माना जाता है। इन गणसूत्रो के विषय मे अभी तक कोई स्पष्ट अथवा अस्पष्ट सकेत अथवा सूचना प्राप्त नही हुई, इसलिए इन का प्रारम्भिक अथवा मौलिक स्वरूप क्या था, इस विषय मे कुछ भी कह सकना पयास कठिन है। हा इतना अवश्य है कि

१. द्र० शाक्ययन २।४।१८० ॥ हेम २।३।७६ ॥

२. द्र. शारस्वत १५।२६ ॥

३. शारस्वत १५।४२ ॥

४. गणरत्नमहोदधि, प्र३ ४६।

अष्टाध्यायी के अनेक सूत्रों तथा कात्यायन की वार्तिकों के साथ गणसूत्रों के विभिन्न प्रसंगों के तुलनात्मक अध्ययन से इस बात की प्रतीति होती है कि सम्भवतः इन गणसूत्रों के कर्ता आचार्य पाणिनि नहीं हैं।

गणसूत्रों के अपाणिनीयत्व में हेतु

हम अपनी उपर्युक्त धारणा की पुष्टि के लिए विद्वानों के मध्य कतिपय हेतु उपस्थित करते हैं—

प्रथम हेतु—आचार्य पाणिनि ने सूत्रपाठ धातुपाठ तथा गणपाठ इन तीनों का पृथक् पृथक् प्रवचन किया है। वस्तुतः सूत्रपाठ के परिशिष्ट रूप गणपाठ तथा धातुपाठ शब्दानुशासन के पूरक मान जाते हैं। परिशिष्ट होने के नाते ही इन्हें खिलपाठ भी कहा जाता है। जब पाणिनि ने सूत्रों की रचना अष्टाध्यायी में की ही है तब इन तथाकथित गणसूत्रों को भी सूत्रपाठ में ही स्थान मिलना चाहिए था न कि उसके परिशिष्ट रूप में स्वीकृत गणपाठ में—यदि इन दोनों प्रकार के सूत्रों के कर्ता आचार्य पाणिनि माने जाएं। गणपाठ में भी सूत्रों की सत्ता स्वीकार कर लेने पर सूत्रपाठ धातुपाठ तथा गणपाठ इन तीनों प्रकार के वर्गीकरण में अस्वारस्य उत्पन्न होना है। पाणिनि इस प्रकार के अस्वारस्य या अव्यवस्था को क्या उत्पन्न करना चाहते, यह बात समझ में नहीं आती।

द्वितीय हेतु—अष्टाध्यायी के सूत्रों तथा गणसूत्रों की रचना शैली की पारस्परिक तुलना करने से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जाती है कि इन दोनों प्रकार के सूत्रों की शैली में महान् अन्तर है। अष्टाध्यायी की सूत्ररचना गम्भीर, सच्चिद्र तथा व्यापक होती हुई आचार्य पाणिनि के सूत्ररचना में निष्णातत्व का द्योतन करती है परन्तु गणपाठ में मिलन वाली सूत्ररचना निस्तृत व्यापक एवं पाणिनि की प्रत्याहार-शैली से सर्वथा अपरिचय प्रकट करती हुई इस बात का स्रुत करती है कि इन गणसूत्रों की रचना उम्रवान् की है जब पाणिनि जैसे किसी कुशल सूत्रशिल्पी की तुलिका के संस्पर्श से सूत्रशैली अडूती थी।

उदाहरण के रूप में 'सृष्टमकारसन्ध्यक्षरान्तः', 'तसिलादयस्तद्धिता एधाच्यपर्यन्तः' गणसूत्रों का उपस्थित किया जा सकता है। इनकी तुलना

मे पाणिनि के चून्मेजन्तः (१११३९) तद्धितश्चासर्वविभक्तिः (१११३८)
सूत्र अतिसक्षिप्त तथा व्यापक है ।

इनमे प्रथम उदाहरण विगेष महत्त्व का है । यहा गणसूत्र मे मकार तथा सन्ध्यक्षर का प्रयोग किया गया है, परन्तु उसी अर्थ के निर्देशक अष्टाध्यायी के सूत्र मे म तथा एच् प्रत्याहार का प्रयोग करके सूत्रकार ने उसे पर्याप्त लघुरूप दिया है । यदि लाजव की दृष्टि से थोडा बहुत महत्त्व रखने वाले मकार तथा म के भेद की उक्षा भी कर दी जाए तो भी सन्ध्यक्षर तथा एच् के प्रयोग भेद को किसी भी दृष्टि मे ओझन नही किया जा सकता । यह लगभग पूरे निश्चय से कहा जा सकता है कि ए ऐ ओ औ इन चार अक्षरो की सन्ध्यक्षर सज्ञा पाणिनि से प्राचीन परम्परा वाले प्रातिशाक्यो^१ तथा उसकी पाणिभाषिक शब्दावली से प्रभावित कात्यायन की वार्तिको^२ मे प्राप्त होनी है । अष्टाध्यायी के सूत्रो मे जहा कही भी इन चार अक्षरो का एक साथ निर्देश करने की आवश्यकता पडी, पाणिनि ने सर्वत्र एच् प्रत्याहार का ही प्रयोग किया है ।^३

यो तो पाणिनि मे पूर्व भी किन्ही ब्याकरणो ने इन सन्ध्यक्षरो के लिए एच् के स्थान मे एप् का प्रयोग किया था^४ और माथ ही पाणिनि के अनन्तरभावी कात्यायन ने अपनी वार्तिको मे प्रायः सर्वत्र एच् प्रत्याहार का प्रयोग न करके सन्ध्यक्षर वा ही प्रयोग किया है । इसलिए केवल सन्ध्यक्षर अथवा एच् प्रत्याहार के प्रयोग करने अथवा न करने के आधार पर हम किसी सूत्र की प्राक्कान्तीना अथवा अवान्तरकान्तीना को एक मात्र कारण नही मान सकते । परन्तु इतना अजस्य कहेंगे कि एच् ही सूत्रकार जब कि अष्टाध्यायी मे यह सर्वत्र एच् प्रत्याहार का व्यवहार कर रहा है, तो गणपाठ मे आकर सूत्ररचना के अवसर पर एच् प्रत्याहार के प्रयोग को भूत जाएगा,

१. ऋक्सं० १।१, २, या० प्रा० १। ४४, ४५, तै० प्रा० १।२, चतुरव्यायिका १।४० ॥

२. महा० नया० पृष्ठ ५८; १ । १ । ३, पृष्ठ १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १००० ॥

३. यथा-एन्तोऽयथायावत् । ६ । १ । ७८ ॥

४. एष प्रत्याहारः पूर्वधाकरणेऽपि स्थित एष । अथ तु विशेषः—'एन्तो' इति यदासीत् तद् 'एन्तोन्' इति कृतम् । तथाहि लघावन्ते द्वयोश्च चङ्गो गुरुः, गृणधान्यानां च द्वयम् इति पठ्यते । प्लान्द्रगति देवनागरी सं० भाग १, पृष्ठ ६ ॥

जो उसके व्याकरण-शास्त्र की प्रमुख विशेषता है और अपने शास्त्र में सर्वथा अप्रसिद्ध सन्ध्यक्षर जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करके सूत्र के कलेवर को अनावश्यक रूप से बढ़ाना चाहेगा, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती।

इसी प्रकार गणसूत्रों में राजाऽसे^१ हृदयाऽसे^२ तथा पुरुषाऽसे^३ ये तीन सूत्र ऐसे मिलते हैं, जिनमें गणसूत्रकार ने असमासे के अर्थ में असे का प्रयोग किया है। यदि ये सूत्र भी आचार्य पाणिनि के माने जाए तो यह प्रश्न उपस्थित होना है कि एक ही सूत्रकार गणसूत्रों में असे का और अष्टाध्यायी के सूत्रों में असमासे^३ का प्रयोग क्यों करता है? जब कि असमासे की अपेक्षा असे का प्रयोग निश्चित ही लघु है और लाघव के कारण ग्राह्य हो सकता है। वैदिक व्याकरण की किसी परम्परा के अनुयायी ऋक्तन्त्र में असमासे के अर्थ में असे प्रयोग की उपलब्धि से यह कहा जा सकता है कि यह किमी प्राचीन वैयाकरण द्वारा स्वीकृत सज्ञा है। सम्भवतः अस्पष्ट होने के कारण लघु होने पर भी आचार्य पाणिनि ने इसका प्रयोग अपने शब्दानुगामन में नहीं करना चाहा।

तृतीय हेतु—यदि गणों में सूत्र रचना को स्थान देने की शैली आचार्य पाणिनि की होती तो ऐसे बहुत से सूत्र अष्टाध्यायी में हों, जिन्हें गणपाठ के उन उन प्रकरणों के गणों में गणसूत्र के रूप में रखकर अष्टाध्यायी के कलेवर को पर्याप्त सक्षिप्त किया जा सकता था, फिर पाणिनि ने ऐसा क्यों नहीं किया? उदाहरण के लिए कार्तिकौजपादि गण में आचार्योंपसर्जनश्चान्तेवासी, (६।२।३६) कल्याणादि गण में कुलटाया वा (१।१।१२७), बाह्यादि गण में सुधा-तुरकङ्क च (१।१।१७) तथा शवादि गण में कम्बलाच्च संज्ञायाम् (५।१।३) सूत्रों को बड़ी सुगमता से ठीक उसी प्रकार उपन्यस्त किया जा सकता था, जिस प्रकार अन्य अनेक गणसूत्र विभिन्न गणों में दृष्टिगोचर होते हैं। इन कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गणपाठ में सूत्ररचना की पद्धति आचार्य पाणिनि की नहीं है।

चतुर्थ हेतु—यदि तथाकथित गणसूत्रों और अष्टाध्यायी के सूत्रों का

१. गणपाठ ५।१।१२८ ॥

२. गणपाठ ५।१।१३० ॥

३. यथा—असमासे निष्काटिभ्य ५।१।२० ॥ युजेरसमासे ७।१।७१ ॥

उपसर्गादसमासेऽपि ८।४।१४ ॥

प्रवक्ता एक ही व्यक्ति आचार्य पाणिनि है, ऐसा मान लिया जाए तो अष्टाध्यायी के अनेक सूत्र पुनरुक्ति दोष से दूषित होने हुए सर्वथा अनावश्यक सिद्ध होंगे, जिनका समाधान प्रपञ्चार्थम् कह देने मान से कथमपि सम्भव नहीं हो सकेगा। उस अवस्था में जब कि अष्टाध्यायी के सूत्रों की रचना के पूर्व ही गणपाठ की पूरी पूरी व्यवस्था अथवा निरूपणा हो चुकी थी, अनावश्यकता का दोष अष्टाध्यायी के तत्तत् सूत्रों के निर पर ही पड़ेगा।

उदाहरण के लिए सर्वादि गण में गणसूत्रों के रूपा में पूर्वपरावर-दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थाया सहायाम्, स्वमहातिधनाख्यायाम् तथा अन्तर बहिर्योगोपसयानयो इन तीन वाक्यों के विद्यमान होते हुए अष्टाध्यायी के इसी प्रकरण में तथा इसी शब्दावली के साथ पाणिनि ने इन्हे तीन सूत्रों के रूप में क्यो स्थान दिया, यह प्रश्न सर्वथा अनुत्तरणीय है। ठीक इसी प्रकार स्वरादि गण में कृन्मकारसन्ध्यक्षरान्तोऽन्ययीभावश्च क्त्वातोसुन्कसुन तथा तसिलादयस्तद्धिता एध्राचूपर्यन्ता. इन गणसूत्रों के रहने हुए अष्टाध्यायी के इसी प्रकरण में सर्वथा इसी अभिप्राय वाले क्रमशः कृन्मेजन्त (१।१।३९), क्त्वातोसुन्कसुन. (१।१।४०) तद्धितश्चास-र्यधिभक्ति. (१।१।३८) तथा अन्ययीभावश्च (१।१।४१) सूत्रों की स्थिति भी सर्वथा अनावश्यक सिद्ध हो जाती। इसके लिए ढूढने पर भी कोई समाधान उपलब्ध न हो सकेगा।

यही पुनरुक्तियों के प्रसङ्ग में एक और गणसूत्र को प्रस्तुत करना उचित होगा, परन्तु उसकी पुनरुक्ति पूर्वनिष्ठ पुनरुक्ति वाले स्थलों की अनेका कुछ विलक्षण है, तथा कुछ गम्भीर विचार करने पर ही स्पष्ट हो पाती है। पाणिनि का सूत्र है—विद्गौरादिभ्यश्च (१।१।४१)। इस सूत्र द्वारा पितृप्रत्ययान्त शब्दों तथा गौरादि गण में पठित शब्दों से स्त्रीलिङ्ग को व्यक्त करने के लिए ङीप् प्रत्यय का विधान किया जाता है। यह गौरादि गण आठनिगण है। अत आठनिगणता के आधार पर सभी अभिप्रेत शब्दों में स्त्रीलिङ्ग में ङीप् प्रत्यय का विधान किया जा सकता है। इस प्रकार में गौरादिगण में उपलब्ध इन माना पिपल्यादयश्च गणसूत्र और उमने उदाहरणभूत पिपली, हरीतकी, कोशातकी इत्यादि गण में पठित शब्द

विचारणीय है। यह स्पष्ट है कि पिप्पल्यादि गण की सत्ता तथा तदाश्रय भूत पिप्पल्यादयश्च गणमूत्र के रहने हुए पाणिनि द्वारा गौरादि गण का निर्धारण तथा पिट्टगौरादिभ्यश्च (१।१।१२) का गौरादि पद पुन रक्त होने में अनावश्यक हो जाता है। पिप्पल्यादयश्च गणमूत्र तथा तदाश्रित पिप्पल्यादि गण का प्रवचन पाणिनि से प्राचीन किसी अन्य आचार्य द्वारा किया गया था, इसका हम पूर्ण प्रतिपादन कर चुके हैं।^१

अनेक ऐसे गणमूत्र भी उपलब्ध होने हैं जिनके रहने हुए उसी गण में पठित अनेक शब्दों को अनावश्यक मानना पड़ता है। यथा-नन्द्यादि (३।१।१३) गण में नन्दिनाशिमन्दिद्विष्माधिरधिशोभिरोपिभ्यो एयन्तेभ्य संज्ञायाम् तथा सहितपिटमे. सज्ञायाम् ये दो सूत्र मिलते होते हैं। इनके साथ ही उदाहरणभूत नन्दन वाशन मदन इत्यादि तथा सहन पतन दमन शब्दों का पाठ भी गणपाठ में दर्शायाचर होता है। ब्रह्मादि (३।१।१३) गण में याचिन्त्याहसत्याहव्रजवदवसा प्रनिपिद्धानाम् तथा अचामचित्तकर्तृकाणाम् इन दो गणमूत्रों के साथ मात्र अयाच्ची अन्याहारी तथा अकारी अहारी इत्यादि उदाहरणों का पाठ भी देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार अपृपादि (५।१।१) गण में अत्राकारेभ्यश्च इम गणमूत्र के रहते हुए अपृप तण्डुल पृथुक इत्यादि शब्दों का पाठ सर्वथा अनावश्यक सिद्ध होना है।

पाणिनीय गणपाठ के पूर्ण निदर्श स्थानों में गणमूत्रों के रहते हुए उदाहरणभूत शब्दों का पाठ स्वीकार करने पर गणमूत्र अनावश्यक सिद्ध होंगे। गणपाठ की शैली को देखते हुए गणों में शब्दों का पाठ ही स्वाभाविक कहा जा सकता है, सूत्रों का पाठ मात्र अ-स्वाभाविक ही होगा। शब्दों का पाठ होने पर तत्तद् गणमूत्रों की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

वस्तुतः इस प्रकार की पुनर्स्थापना तब जहाँ यह प्रमाणित होता है कि ये गणमूत्र अष्टाध्यायी के प्रवचना अथवा पाणिनि द्वारा रचित नहीं हैं, वहाँ यह सम्भावना भी उपस्थित होती है कि गणशैली का विनाश उपयोग न करने वाले पाणिनि से प्राचीन किसी अज्ञान के व्याकरण कथे विभिन्न सूत्र हैं जिनके उदाहरणों में पाणिनि ने अपने गणपाठ में उन उन प्रवर्णों में समाविष्ट किया था।

पुनरुक्ति की यह समस्या यही समाप्त नहीं होती। गणपाठ में अनेक ऐसे भी गणसूत्र उपलब्ध होते हैं, जिन की उपस्थिति में कात्यायन की अनेक वार्तिकों भी निरर्थक हो जाती हैं। यथा-पिटृभिदादिभ्योऽङ् (३।३।१०४) सूत्र की व्याख्या में वार्तिक रूप से तथा भिदादिगण में गणसूत्र के रूप से भिदा विदारणे, छिदा द्वैधीकरणे, आरा शस्त्र्याम् आदि वाक्य पठित है। अत्रा चामद्वत्पूर्वा जातिः^१ प्राचार्यादणत्वं च^२ अर्हतो नुम् च^३ ये कात्यायन की वार्तिकों क्रमशः अजादि (४।१।४) झृभ्नादि (८।४।३९) तथा ब्राह्मणादि (५।१।१२३) गण में गणसूत्र के रूप में भी पठित मिलती हैं। सदचूकाण्डप्रान्तशतैकेभ्यः पुण्यात् प्रतिषेधः^४ संभस्त्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलात् प्रतिषेधः^५ तथा मूलाज्ज^६ ये कात्यायन की तीनों वार्तिकों अजादि (४।१।४) गण में गणसूत्र के रूप में उपलब्ध होती हैं। चरणसम्बन्धेन निवासलक्षणोऽण^७ वार्तिक महादि (४।२।१३७) गण में चाणु चरणे इस गणसूत्रांश के रूप में देखी जा सकती है। सेनायां नियमार्थं वा^८ वार्तिक खण्डिकादि (४।२।४४) गण में, छुद्रमालवात् सेनासनायाम् गणसूत्र के रूप में भी उपलब्ध है। इसी प्रकार की नृनराभ्यामञ् घचनम्^९ वार्तिक भी शाङ्करवादि (४।१।७३) गण में नृनरयोर्वृद्धिश्च इस गणसूत्र के रूप में द्रष्टव्य है।

गणसूत्रों के विषय में हमारा मत

पुनरुक्तियों की उपर्युक्त लम्बी सूची हमारी उपर्युक्त धारणा को पुष्ट करती है कि पाणिनीय गणपाठ में उपलब्ध होने वाले गणसूत्र अपाणिनीय हैं। हम इस बात पर बल देना नहीं चाहते कि ये सभी गणसूत्र पाणिनि से प्राचीन किसी या किन्हीं आचार्यों के हैं, अथवा सभी अर्वाचीन किसी या किन्हीं आचार्यों द्वारा कात्यायन आदि वैयाकरणों के वचनों के अनुकरण पर स्वरूपा निर्मित में समर्थ हुए हैं। संभवतः दोनों प्रकार की स्थितियों का सम्बन्ध गणसूत्रों से स्थापित किया जा सकता है। अर्थात् कुछ गणसूत्र

१. महा० ४।१।४ ॥

२. महा० ४।१।४६ ॥

३. महा० ५।१।१२४ ॥

४. महा० ४।१।६४ ॥

५. महा० ४।२।१३८ ॥

६. महा० ४।२।४५ ॥

७. महा० ४।४।४६ ॥

प्राचीन आचार्यों के व्याकरणों के सूत्र रहे हों। उन के उदाहरणों का उन उन गणों में समावेश कर देने पर वृत्तिकारों के प्रमाद से वे सूत्र भी पाणिनीय गणपाठ में उल्लिखित होने चने आ रहे हों। यथा नन्द्यादि अथवा गौरादि गण में आए हुए गणसूत्र। साथ ही वक्त से एमें भी गणसूत्र हैं जो कात्यायन की विभिन्न वार्तिकों से प्रभावित हैं, अथवा दूसरे शब्दों में कात्यायन के तत्तत् प्रकरणों से मन्वद्ध वार्तिकों के अनुकरण पर विभिन्न गणसूत्रों की रचना हुई है।

आचार्य चन्द्रगोमी के अनुकरण पर जिस प्रकार काशिकाकार जैसे वृत्तिकारों ने पाणिनि के अनेक सूत्रों में कात्यायन की वार्तिकों का सम्मिश्रण उन उन की न्यूनता को पूर्ण करने के लिए किया^१, उसी प्रकार कात्यायन की कुछ वार्तिकों को गणसूत्र का रूप देकर पाणिनीय गणपाठ में यदि वृत्तिकारों द्वारा आदृत किया गया हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात हो सकती है। इस प्रकार के गणसूत्रों को पाणिनि से अर्वाचीन माना जा सकता है।

नागेश भट्ट का साक्ष्य—पाणिनीय व्याकरण के मर्मज्ञ विद्वान् नागेश भट्ट ने अनेक स्थानों पर गणसूत्रों की अपाणिनीयता, अनार्पिता एव अप्रामाणिकता की स्पष्ट सूचना दी है।^२

धातुगणसूत्र—गणसूत्रों की अपाणिनीयता के प्रसंग में धातुपाठ में मिलने वाले प्रातिपदिकाद् धात्वर्थे बहुलमिष्टञ्च^३ तथा तत्करोति तदाचष्टे^४ जैसे गणसूत्रों की ओर भी हम विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक समझते हैं। इन गणसूत्रों को भी नागेश भट्ट ने इस कारण प्रक्षिप्त माना है कि ये गणसूत्र कात्यायन की वार्तिकों के रूप में भी महाभाष्य में मिलते हैं।^५ और इस रूप में इन्हें प्रक्षिप्त एवं अप्रामाणिक मानते हुए सत्यापपाश (३।१।२५) इस पाणिनीय सूत्र में पाश आदि शब्दों के ग्रहण की सार्थकता दर्शाई है।^६

१ द्रष्टव्य पूर्ण पृष्ठ ४१।

२ महा० उद्योत गीका ४।२।४५, १३८; ४।४।४६।

३. क्षीरतरङ्गिणी १०।२६६ ॥ ४ क्षीरतरङ्गिणी १०।२६७, २६८ ॥

५ महा० ३।१।२६ ॥

६ प्रातिपदिकाद् धात्वर्थे इति हेतुमति नेत्यत्र वार्तिकादिद् गणसूत्रमप्रामाणिकम्।

कात्यायन तथा पतञ्जलि की दृष्टि में पाणिनीय गणपाठ

अपनी पुस्तक सिन्टम आफ इन्डियन ग्रामर मे एम० के० बेलवालकर महादय ने कात्यायन की वार्तिकों के विषय में कहा है—

कात्यायन की वृत्ति वार्तिकों का प्रयाजन था पाणिनि के उन सूत्रों में परिवर्तन, परिवर्धन तथा सशोधन प्रस्तुत करना, जो (कात्यायन के समय में) आशिकरूप में या सवाजन अप्रयाजनीय हो गए थे ।^१

बलवालकर महादय का उक्त कथन से कोई भी व्याकरण का विद्वान् असहमत नहीं हो सकता । पाणिनि के उन सूत्रों में आलोचना के लिये थोड़ा सा भी अवकाश या बड़ा प्रयत्न कात्यायन ने अपनी वार्तिकों द्वारा सशोधन परिवर्धन और यथावश्यक परिवर्तन करने के लिये, अपने विचार प्रस्तुत किये हैं । यही हमारी बात है कि अनेक स्थलों पर कात्यायन के द्वारा प्रस्तुत किये गये विचारों की अनावश्यकता या निस्तारता का सयुक्तिक प्रतिपादन करते हुए महाभाष्यकार पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्रों की महत्ता को पुनः प्रतिष्ठापित किया है । वास्तविकता तो यह है कि तत्कालीन संस्कृत भाषा की प्रत्यय गतिविविध की विवेचनात्मक कसौटी पर अष्टाध्यायी के लगभग प्रत्येक सूत्रों की सच्चे आलोचक के समान खरी परीक्षा करते हुए पाणिनि के इन दोनों उत्तराधिकारियों ने महान् आचार्य पाणिनि के वास्तविक महत्त्व की सिद्धियों को सम्मुख उपस्थित करने का स्तुत्य प्रयास किया है ।

अष्टाध्यायी के सूत्रों पर विचार करने हुए इन दोनों मनीषियों ने गण सम्बन्धी सूत्रों तथा वही वही किसी किसी गण गण के विशिष्ट शब्दों के उस

अत एव स्यादपरोक्षे सूत्रे पाशादि शब्देषु चरितार्थम् । महा० उद्योत टीका ३ । १ । २१ ॥ इसी प्रकार ३ । १ । २६ की उद्योत टीका में भी लिखा है ।

१ कात्यायन's work the 'शान्त' were meant to correct, modify or supplement the rules of पाणिनि' wherever they were or had become partially or totally inapplicable. पृष्ठ २९ ।

उम गण में पड़े जाने के प्रयोजन अथवा उन के साथ किसी उपाधि वा नियमन (शर्त) के संयोजन की आवश्यकता, अथवा किसी गण के स्वरूप आदि विषयो पर अपने उपादेय विचार प्रस्तुत किये हैं। इन विचारों का मकलन एवं अध्ययन हमने अपने आलोचनात्मक अध्ययन में यथावसर विस्तार से किया है।^१ यहाँ इनके गणपाठ-सम्बन्धी प्रमुख विचारों को ही विहगम दृष्ट्या प्रस्तुत किया जाता है—

१—सर्वादि गण में पठित पूर्वपरापरदक्षिणोत्तरपराधराणि व्यवस्थायाम-संज्ञायाम्' इत्यादि गणमूत्रों को पुनः अष्टाध्यायों के इसी प्रकरण के सूत्रों में इसी शब्दावली के साथ स्थान देने की आवश्यकता पर विचार।^२

२—प्रादिगण में, इसके पठित गण होने के कारण, 'मरुत्' तथा 'श्रत्' शब्दों का उपसर्गान्।^३

३—तिष्ठद्गुणादि गण के प्रारम्भिक शब्द तिष्ठद्गु का काल विशेष में निर्धारण, तथा इसी गण के खलेयव आदि कुछ शब्दों का अन्यपदार्थ में निश्चिनीकरण।^४

४—साक्षात्प्रभृति शब्दों अथवा साक्षादादि गण के शब्दों तथा श्रेण्यादि गण के शब्दों के साथ च्यर्थ वचन की उपाधि का संयोजन। अर्थात् जब वे शब्द च्यर्थ=अभूततद्भाव के वाचक हों तभी उन्हें इस गण में पठित मान कर निपात तथा गति सज्ञा का नियमन।^५

५—गवाश्वप्रभृति शब्दों के यथोच्चारित स्वरूप में ही द्वन्द्ववृत्त की स्थिति का प्रकारान्।^६

१. यह अथ गणपाठ के आदर्श संस्करण के अन्त में छपेगा।

२. श्रवरादीना पुनः सूत्रपाठ ग्रहणानर्थक्यम् गण पठितत्वात्। महा० नवा० १।१।३३ ॥

३. मरुच्छब्दस्योपसर्गान्। श्रच्छब्दस्योपसर्गान्। महा० १।४।५८ ॥

४. तिष्ठद्गु कालविशेषे। एतेयवादीनि प्रथमान्तान्यन्यपदार्थं। महा० २।१।१७ ॥

५. साक्षात्प्रभृतिषु च्यर्थवचनम्। महा० १।४।७४ ॥ श्रेण्यादिषु च्यर्थ वचनम्। महा० २।१।५६ ॥

६. गवाश्वप्रभृतिषु यथोच्चारितं द्वन्द्ववृत्तम्। महा० २।४।११ ॥

- ६—विदादिगण के अवान्तर गण-गोपवनादि के लिये प्राग्हरितादिभ्य - 'हरित' आदि शब्दों से पहले पहले गोपवनादिगण की स्थिति स्वीकरणीय है, इस बात की घोषणा ।^१
- ७—लोहितादि गण के केवल प्रारम्भिक लोहित शब्द को छोड़ कर अन्य सभी शब्दों को भृशादि गण में पढ़ देने का प्रस्ताव ।^२
- ८—पचादि गण (आकृतिगण) में पठित शब्दों के प्रयोजन पर विचार ।^३
- ९—भिदादि गण के कुछ शब्दों के अर्थों का नियमन ।^४
- १०—अजादि के शूद्रा शब्द के साथ अमहत्पूर्वा नियमन की संयोजना ।^५
- ११—गर्गादिगण के अवान्तर गण कर्वादि में पठित शकल शब्द के, गर्गादि के दूसरे अवान्तर गण लोहितादि में भी उपसंख्यान करने का प्रस्ताव ।^६
- १२—श्लोकवार्तिककार द्वारा 'शकल' शब्द के लोहितादि गण में भी प्रकारान्तर से—पाठ विपर्यय द्वारा प्रवेश करा कर, उपर्युक्त प्रस्ताव का समाधान ।^७
- १३—भौह्यादि गण में ही गोत्रायययात् इस पाणिनि सूत्र के उदाहरणभूत सभी शब्दों का समावेश कर देने तथा इस प्रकार गोत्रायययात् सूत्र की अनावश्यकता का प्रतिपादन ।^८
- १४—कुर्वादि गण में पठित वामरथ शब्द के लिये, स्वर सम्बन्धी कार्यो के अतिरिक्त कर्वादिघट्टभाव का विधान ।^९

१. गोपवनादिप्रतिषेध प्राग् हरितादिभ्य । महा० २ । ४ । ६७ ॥

२. लोहितद्विभ्य क्यपचन भृशादिष्वितराणि । महा० ३ । १ । १३ ॥

३. पचाद्यनुक्रमणमनुषघासजनार्थम् । अर्वादाजघनार्थं च । महा० ३ । १ । १३४ ॥

४. भिदा विदारण । द्विदा द्वैधीकरण । आरा शर-यान् । धारा प्रपान । गुहा गिर्वोपथ्यो । महा० ३ । ३ । १०४ ॥

५. शूद्रा चामहत्पूर्वा । महा० ४ । १ । ४ ॥

६. लोहितादिषु शाकल्यस्योपसंख्यायाम् । महा० ४ । १ । १८ ।

७. कर्वादात् शकल प्रय कतादुत्तर इष्यते ।

पृथान्तरो तन्ताग्नी प्फाणो तत्र प्रयोजनम् ॥ महा० ४ । १ । १८ ॥

८. सिद्ध तु रोदयादिषूपसंख्यायात् । महा० ४ । १ । ७६ ॥

९. वामरथस्य कर्वादिघट्ट स्वस्वर्जम् । महा० ४ । १ । १५१ ॥

- १५-भिन्नादिगण में पठित युवति शब्द की अनर्थकता का प्रतिपादन ।^१
- १६-खरिडकादि गण में पठित जुद्रकमालव शब्द से गणकार आचार्य पाणिनि के विभिन्न अभिप्रायों का श्लोकवार्तिककार द्वारा ज्ञापन ।^२
- १७-कच्छादि गण में पठित सालव शब्द के पाठ की अनर्थकता का प्रतिपादन ।^३
- १८-गहादि गण में पठित मध्य शब्द के अर्थ का नियमन ।^४
- १९-घिल्वादि गण में पठित गवीधुका शब्द के इस गण में पाठ किये जाने के प्रयोजन का प्रतिपादन ।^५
- २०-गयादि गण में उपन्यस्त नाभि नमं च इस गणसूत्र पर वैयाकरण दृष्टिकोण से विचार ।^६
- २१-व्युष्टादि गण में अग्निपद आदि कुछ शब्दों के उपसंख्यान का प्रस्ताव ।^७
- २२-घ्रीह्यादि गण के शब्दों का विभिन्न कार्यों की दृष्टि से घ्रीह्यादि, शिल्वादि तथा यत्रखदादि तीन गणों में विभाजन ।^८
- २३-स्थूलादि गण में चञ्चद् तथा वृहत् शब्दों के उपसंख्यान का प्रस्ताव ।^९
- २४-युक्तारोह्यादि गण में पठित एकशितिपात् शब्द से गणकार पाणिनि

१. भिन्नादिषु युवतिग्रहणानर्थक्यं पुं वद्भावस्य सिद्धत्वात् प्रत्ययविधौ । महा० ४ । २ । ३८ ॥

२. शपकं स्यात्तदन्तत्वे तथा चापिशलेर्विधिः ।
सेनायां नियमार्थं वा यथा माध्यते वाच् बुधा ॥ महा० ४ । २ । ४५ ॥

३. सालवानां कच्छादिषु पाठोऽणु विधानार्थः, नवाऽपदातिगोयवागूग्रहणमवधारणार्थम् । महा० ४ । २ । १३३ ॥

४. गहादिषु पृथिवीमध्यस्य मध्यमभावः । महा० ४ । २ । १३८ ॥

५. घिल्वादिषु गवीधुकाग्रहणं मयट्प्रतिपंधार्थम् । महा० ४ । १ । १३४ ॥

६. नाभेर्नमभावे प्रत्ययानुपपत्तिः प्रकृत्यभावात् सिद्धं तु शालादिषु यचनात् ह्रस्वत्वं च । महा० ५ । १ । २ ॥

७. अग्निप्रकरणं अग्निपदादिभ्यः उपसंख्यानम् । महा० ५ । १ । ६७ ।

८. शिल्वादिभ्य इनिर्वाच्य इकन्यवखदादिषु । महा० ५ । २ । ११६ ॥

९. कन्प्रकरणं चञ्चद्भूतोऽपसंख्यानम् । महा० ५ । ४ । ३ ॥

की विशिष्ट प्रवृत्ति का ज्ञापन ।^१ .

२५-पृषोदरादि गण मे समन्वित हो सकने वाले कुछ शब्दों के प्रकृति प्रत्यय की कल्पना ।^२

२६- द्वारादि गण मे स्वाध्याय शब्द को गणकार ने निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं किया था, ऐसी घोषणा ।^३

२७-कस्कादि गण मे भ्रातृषुत्र शब्द के पाठ से गणप्रवक्ता पाणिनि के विशिष्ट अभिप्राय का ज्ञापन ।^४

२८-सुपामादि तथा चुम्नादि गणों की आकृतिगणता का प्रतिपादन ।^५

इन विभिन्न विचारों के अतिरिक्त पाणिनि के सूत्रों के आशय को सर्वथा स्पष्ट करने तथा किन्हीं सूत्रों की न्यूनता की पूर्ति के लिये वार्तिककार तथा श्लोत्रवार्तिककार ने, पाणिनि-निर्धारित गणों से अनिर्दिष्ट, अनेक गणों का निर्धारण किया है। इनकी सूची नीचे दी जाती है—

१-शाकपार्थिवादि गण (महा० २।१।६८)।

२-प्रकृत्यादि गण (महा० २।३।१८)।

३-मूलविभुजादि गण (महा० ३।२।५)।

४-पाश्र्वादि गण (महा० ३।२।१५)।

५-सम्पदादि गण (३।३।१०८)।

६-पलादि गण (महा० ४।२।५१)।

७-परिमुखादि गण (महा० ४।३।५८)।

८-अध्यात्मादि गण (महा० ४।३।६०)।

९-प्रभूतादि गण (महा० ४।४।१)।

१०-माशन्दादि गण (महा० ४।४।१०)।

१. एकशितियात्-स्वरवचनं तु शपकं निमित्तस्वरवलीयस्यस्य । महा० २।१।१ ॥

२. दिक्शब्देभ्यस्तीरम्य तारभागे वा, इत्यादि । द्र० महा० ६।३।१०८ ॥

३. क पुनरहंति रजाभ्यायशब्दं द्वारादिषु पठितुम् । महा० ७।३।४ ॥

४. भ्रातृषुत्रप्रहरणं शपकं एकदेशनिमित्तात् पत्वप्रतिदेश्यम् । महा० ८।३।४१ ॥

५. अशिहितलक्षणो भूर्धन्य सुपामादिषु । महा० ८।३।६८ ॥

अशिहितलक्षणो एत्वप्रतिदेश्यः चुम्नादिषु । महा० ८।४।३६ ॥

- ११-परदारादि गण (महा० ४।४।१) ।
- १२-सुस्नातादि गण (महा० ४।४।१) ।
- १३-अवान्तरदीक्षादि गण (महा० ५।१।९८) ।
- १४-महानाम्न्यादि गण (महा० ५।१।९४) ।
- १५-अग्निपदादि गण (महा० ५।१।९७) ।
- १६-पुरयाहवाचनादि गण (महा० ५।१।१११) ।
- १७-चानुर्वण्यादि गण (महा० ५।१।१२४) ।
- १८-ज्योत्स्नादि गण (महा० ५।२।१०३) ।
- १९-भवदादि गण (महा० ५।३।१८) ।
- २०-आद्यादि गण (महा० ५।४।८४) ।
- २१-शकन्ध्यादि गण (महा० ६।१।९३) ।
- २२-त्रिचक्रादि गण (महा० ६।२।१९९) ।
- २३-कुक्कुटादि गण (महा० ६।३।४१) ।
- २४-अण्डादि गण (महा० ६।३।४१) ।
- २५-पीट्यादि गण (महा० ६।३।१२१) ।
- २६-क्षिपकादि गण (महा० ७।१।४५) ।
- २७-अहरादि गण (महा० ८।२।७०) ।
- २८-पत्यादि गण (महा० ८।२।७०) ।
- २९-इरिकादि गण (महा० ८।४।६) ।
- ३०-गिरिनद्यादि गण (महा० ८।४।१०) ।

कात्यायन द्वारा निर्धारित इन गणों का पाणिनि के बाद के चन्द्रगोमी प्रभृति व्याकरण ने, विशेषत किसी अज्ञात व्याकरण से सम्बन्ध रखने वाली गणरत्नमहोदधि के रचयिता एवं विशिष्ट विद्वान वर्धमान ने अपने गणपाठ में अधिकाधिक रूप में अपनाया है और इन गणों का अपने सूत्रपाठ में उपयोग भी किया है ।

कात्यायन की कुछ वार्तिकों तथा पतञ्जलि के द्वारा किये गये, उनकी व्याख्याओं के आधार पर अष्टाध्यायी के उत्तरवर्ती व्याख्याताओं तथा वृत्ति कारों ने पाणिनीय गणपाठ में अनेक गणसूत्रों तथा शब्दों को ठीक उसी प्रकार मिला दिया है, जिस प्रकार कात्यायन की कुछ वार्तिकों तथा वार्तिकों को अष्टाध्यायी के सूत्रों में । इस दृष्टि से गणपाठ के संशोधन में

कात्यायन की इस प्रकार की वार्तिके विशेष महत्त्व की है । इनका निर्देश यथावसर किया जाएगा ।^१

जयादित्य-वामन और पाणिनीय गणपाठ ✓

पाणिनीय व्याकरण सम्प्रदाय मे काशिका को बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है । इसका कारण है—उपलब्ध अन्य वृत्तियों की अपेक्षा इसकी प्राचीनता, व्याकरण-शास्त्र की परिनिष्ठता तथा प्राचीन मतों की सरक्षणता । कात्यायन के उपसह्यानों (वार्तिकों) तथा पतञ्जलि की इष्टियों से पूर्णतया सुसम्बन्ध तथा व्याकरण के साक्षात् शरीर के रूप मे प्रकट होती हुई पाणिनीय सूत्रों के गूढ अर्थों की सुप्रकाशिका काशिका पाणिनीय तन्त्र के अध्ययन के लिए निश्चित ही नितान्त उपादेय ग्रन्थ है ।^२ प्रो० कीथ ने भी लिखा है—“पाणिनीय अष्टाध्यायी की एक टीका जयादित्य वामन कृत काशिका वृत्ति अपनी सूचना-बहुलता, तुलनात्मक शुद्धता, तथा पाणिनीय ग्रन्थ मे किये गए परिवर्तनों की साक्ष्यता के कारण प्रशंसा का पात्र है ।”^३

न केवल इतना ही, अपितु अपने समय मे उपलब्ध व्याकरण विषयक सभी कृतियों का आलोडन एव आलोचन करके अनेकत्र विप्रकीर्ण सामग्री मे से उपादेय सारभूत विषयों का अल्प शब्दों मे सकलन करना, काशिका की अपनी ऐसी महती विशेषता है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती । काशिका के आधारभूत पाणिनीय संप्रदाय के ग्रन्थ थे—उस समय प्रचलित कतिपय

१ गणपाठ के आलोचनात्मक अंश में । यह गणपाठ के आदर्श संस्करण के अन्त में छपेगा ।

२ इष्ट्युपसह्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्था ।

व्युत्पन्नस्वसिद्धिवृत्तिरिय काशिका नाम ॥ २ ॥

व्याकरणस्य शरीर परिनिष्ठितशास्त्रकार्यमेतावत् ।

शिष्टः परिकरग्रन्थ क्रियतेऽस्य ग्रन्थकारेण ॥ ३ ॥ आरम्भ के श्लोक ।

3. One commentary of पाणिनि deserves praise for its extent of information, its comparative clearness and its evidence of changes in पाणिनि's text, the काशिकावृत्ति of जयादित्य and वामन ५ हिन्दी आफ सस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ४२६ ।

वृत्तियां, महाभाष्य, धातुओं के संग्रह के व्याख्यानभूत धातुपारायण, और प्रातिपदिकों के समूह, दूसरे शब्दों में गणपाठ के व्याख्यानभूत नामपारायण ।^१

लगभग ६५० ईस्वी में लिखी गई यह काशिका वृत्ति, अष्टाध्यायी की सम्प्रति उपलभ्यमान सभी वृत्तियों में प्राचीन है। हरदत्त इस बात की सूचना देता है कि काशिका से प्राचीन वृत्तियों में गणपाठ का संग्रह नहीं था।^२ काशिका में पाणिनीय गणपाठ न केवल पूर्णरूप में अपितु अपेक्षा कृत शुद्धरूप में मिलता है। इस की घोषणा स्वयं काशिकाकार ने शुद्धगणा विशेषण द्वारा दी है।^३

काशिकाकार द्वारा की गई शुद्धगणा की घोषणा का एक अभिप्राय "कात्यायन तथा पतञ्जलि द्वारा उपस्थित किए गए तथा आचार्य चन्द्रगोमी द्वारा अपने व्याकरण में स्वीकार किए गए पाणिनीय गणपाठ विषयक संशोधनों के अनुसार विशुद्ध अथवा अपनी दृष्टि से पूर्ण गणपाठ का संपादन करना" भी सम्भव है। तुलनात्मक अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है। इस प्रकार यह सर्वथा सत्य है कि काशिकाकार को इस संकलन में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि पाणिनीय गणपाठ में कात्यायन की अनेक वार्तिकों एवं उपसंख्याओं तथा पतञ्जलि के वचनों और यहां तक कि चन्द्रगोमी के भी एक सूत्र को गणपाठ में स्थान प्राप्त होगया।^४ इससे निश्चित ही पाणिनीय गणपाठ की मौलिकता को धक्का लगा।

काशिकाकार की यह नीति न केवल पाणिनीय गणपाठ के विषय में ही रही, अपितु पाणिनि के सूत्रपाठ को भी उन्होंने पर्याप्त परिवर्तन के साथ उपस्थित किया है। इस तथ्य की पुष्टि कीलहार्न ने भी इस प्रकार की है—
"काशिका में मिलने वाला अष्टाध्यायी-ग्रन्थ कात्यायन तथा पतञ्जलि को

१. वृत्तौ भाष्ये तथा नामधातुपारायणादियु ।

विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः ॥ १ ॥ काशिका, आद्य श्लोक ।

२. द्र० सिस्टम्स आफ् संस्कृत ग्रामर, पृष्ठ ३५ ।

३. वृत्त्यन्तरेषु तु गणपाठ एव नास्ति । प० म० भाग १, पृष्ठ ४ ।

४. काशिका आद्यश्लोक ।

५. वेणुकादिभ्यश्चण् (व्या० सूत्र ३ । २ । ६१) को काशिका ४ । २ । १३८

के गण में ।

ज्ञात (अष्टाध्यायी) ग्रन्थ से ५८ सूत्रों के विषय में भिन्न है।^१ प्रो० बेल्वाल्कर ने भी यह स्पष्टरूप से स्वीकार किया है कि चन्द्रगोमी द्वारा प्रस्तुत किए गए सम्पूर्ण सशोधनों को पाणिनीय सम्प्रदाय में अन्तर्भूत करके उपस्थित करना ही काशिकाकार का उद्देश्य था।^२

अपने इस स्वभाव के परिणामस्वरूप काशिकाकार ने पाणिनीय गणपाठ में कहा-कहा क्या क्या परिवर्तन किया है, यह हम आगे चलकर दिखलायेंगे। परन्तु सभी स्थला पर काशिकाकार ने आख मू दकर उपर्युक्त तीनों आचार्यों की बातें मान ली हों ऐसा नहीं कहा जा सकता। लोहितादि गण के स्वरूप^३ तथा भिक्षादि गण में युक्ति शब्द के पाठ^४ की अनर्थकता जैसे कुछ एक स्थल ऐसे भी उपस्थित किए जा सकते हैं जहां काशिकाकार ने कात्यायन तथा पतञ्जलि के विचारों को कोई महत्त्व नहीं दिया। युक्ता-रोह्यादि गण में पठित एकशितिपात् शब्द के विषय में पतञ्जलि के द्वारा की गई घोषणा का काशिकाकार ने स्पष्ट विरोध किया है।^५ साथ ही कस्कादि गण में सर्पिष्कुण्डिका आदि शब्दों के पाठ के विषय में पारायणिक विद्वानों का विरोध करने वाला भी काशिकाकार ही है।^६

इस प्रकार जहां अष्टाध्यायी के सूत्रों के गूढतम रहस्यों को कुछ ही पङ्क्तियों में प्रस्तुत करने, कात्यायन पतञ्जलि और चन्द्रगोमी के द्वारा प्रस्तावित विचारों का समुचित समन्वय करके विद्वानों के समक्ष रखने हुए भी यथावसर अपने स्वतन्त्र विचारों को निर्भीकतापूर्वक उपस्थित करने का पुनीत श्रेय सस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में काशिकाकार को ही प्राप्त हुआ है वहां

१. The text of the अष्टाध्यायी as given in the काशिका differs in case of 58 rules from the text known to कात्यायन and पतञ्जलि सिल्स आफ् संस्कृत ग्रामर, पृष्ठ ३७।

२. The object of the काशिका was to embody in the पाणिनीय system all the improvements that were made by चन्द्रगोमिन्। वही, पृष्ठ वही।

३ द्र० काशिका ३।१।१३ ॥ ४ द्र० काशिका ४।२।४५ ॥

५ मद्रा० २।१।१ ॥ तथा काशिका ६।२।८१ ॥

६ द्र० काशिका ८।३।४३ ॥

पाणिनीय गणपाठ की यथोचित सुरक्षा का भी। गणपाठ के सशोधन में काशिका के महत्त्व की परीक्षा यथावसर आगे की जाएगी।

पाणिनीय गणपाठ के व्याख्याकार^१

डा० वेल्वाल्कर का यह कथन सर्वांश में ठीक है कि टीकाकारों का ध्यान पाणिनीय गणपाठ की ओर उतना नहीं गया, जितना जाना चाहिए था।^२ यही कारण है कि आज भी जहाँ धातुपाठ की अनेकों घृत्तिया-मैत्रेय रक्षित की धातुप्रदीप, धीरस्वामी की क्षीरतरङ्गिणी, तथा माधव की धातुवृत्ति आदि उपलब्ध हैं, वहाँ गणपाठ की केवल एक ही नगण्य वृत्ति भट्ट यज्ञेश्वर की गणरत्नावली मिलती है। यह भी विक्रम की बीसवीं शती (स० १९३१, शाके १७९६)^३ की रचना है। सब से अधिक दुःख की बात तो यह है कि जिन दो एक गणपाठ विषयक ग्रन्थों का उल्लेख कहीं कहीं मिलता भी है तो उनमें से एक का भी दर्शन सम्प्रति दुर्लभ है।

१-पाणिनीय-व्याख्यान-पाणिनीय गणपाठ के व्याख्या ग्रन्थों की दृष्टि से यदि अन्वेषण किया जाए तो यह स्वीकार करना होगा कि स्वतः पाणिनि ने ही अपने गणपाठ का व्याख्यानात्मक प्रवचन किया था। इस धारणा की पुष्टि में नद्यादि गण में पठित पूर्वनगरी शब्द के विषय में काशिकाकार की उक्ति—

केचित्तु पूर्वनगिरि इति पठन्ति विच्छिद्य (पूर्व-न गिरि) च प्रत्यय कुर्वन्ति-पौरयम्, धानेयम्, गैरेयम्। तदुभयमपि दर्शन प्रमाणम्।
४।२।९७ ॥

तथा न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि और पदमञ्जरीकार हरदत्त की व्याख्या-भूत पङ्क्ति—

उभयथाप्याचार्येण शिष्याणा प्रतिपादितत्वात् ।*

उपस्थित की जा सकती है। इसी प्रकार कौड्यादि गण में पठित

१. इस अगल प्रकरण के लिए स० व्या० शास्त्र का इतिहास भाग २ अ० २३ भी द्रष्टव्य है।

२. सिस्मस आफ सस्कृत ग्रामर, पृष्ठ ५३।

३. शाके रसाङ्गमुनिभूमित अन्धे। गणरत्नावली, पत्रा १२३।

४. न्यास ४।२।९७ भाग १ पृष्ठ ६५६, प० म० ४।२।९७ ॥

चैतयत शब्द के विषय में वर्धमान का कथन—

पाणिनिस्तु चित संवेदने इत्यस्य चैतयत इत्याह (गण० महो० पृष्ठ ३७) भी उपर्युक्त धारणा की पुष्टि करता है ।

२-निपाताव्ययोपसर्ग वृत्ति-गणपाठ में आए निपातो, एव उपसर्गों की व्याख्या कुछ विद्वानों ने की थी ।^१

इस नाम का एक वृत्ति ग्रन्थ क्षीरस्वामी ने भी लिखा था । इस ग्रन्थ का तिलक कृत व्याख्या सहित एक हस्तलेख अडियार (मद्रास) के पुस्तकालय में सुरक्षित है ।^२

३-गण वृत्ति-पाणिनीय गणपाठ की व्याख्या के रूप में कुछ विद्वानों ने गणवृत्ति नाम के कतिपय ग्रन्थों की रचना की थी ।

गणवृत्ति नाम का एक ग्रन्थ क्षीरस्वामी ने भी लिखा था ।^३ कई विद्वानों के मतानुसार क्षीरस्वामी कृत अमरकोश तथा क्षीरतरङ्गिणी के आरम्भ में समानरूप से पठित श्लोक के पङ्क्तयः कल्पिताः अंश में गणवृत्ति का भी संकेत विद्यमान है ।

धातुवृत्तिकार माधव ने भी किसी गणवृत्ति के अनेकों उद्धरण उपस्थित किये हैं ।^४

पुरुषोत्तमदेव विरचित भाषावृत्ति के सपादक श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती ने उक्त ग्रन्थ की भूमिका (पृष्ठ १) में पुरुषोत्तमदेव विरचित गणवृत्ति की सूचना भी दी है ।

४-गण-व्याख्यान-मल्लिनाथ ने रघुवश^५ किरातार्जुनीय^६ तथा शिशुपालवश^७ की टीका में कई स्थानों पर गणव्याख्यान नाम के किसी ग्रन्थ के ऐसे उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त ग्रन्थ में

१ सिष्टमस आफ संस्कृत ग्रामर, पृष्ठ ५३ ।

२. भट्टक्षीरस्वाम्युपेक्षितनिपाताव्ययोपसर्गाय तिलककृता वृत्तिः सभृगंति भद्र पश्यम भद्रं प्रचरेम । व्याकरण सूचीपत्र, संख्या ४८७ ।

३ सिष्टमस आफ संस्कृत ग्रामर, पृष्ठ ५३ ।

४ धातुवृत्ति, पृष्ठ २६२, ४१६, ४१७ ।

५ रघुवश = १. ४८; १२ । १६ ॥ ६. किरात ० । ३० ॥

७. शिशुपालवश १ । ३६. ॥

गणपाठ के शब्दों के विषय में, उनके अर्थ आदि की दृष्टि से विचार किया गया था।

श्लोकगणकार

श्लोकगणकार के मतों का उल्लेख धातुवृत्तिकार माधव,^१ भट्टोजी दीक्षित^२ तथा नागेश भट्ट^३ आदि ने अनेक स्थानों पर किया है। सम्भवतः किसी विद्वान् ने गणपाठ की श्लोकवद्ध रचना की हो। इस कारण उस की प्रसिद्धि श्लोकगणकार के रूप में होगई हो।

पाणिनीय व्याकरण से इतर किसी अज्ञात व्याकरणसंप्रदाय से संबद्ध गणरत्नमहोदधि के मूल रूप श्लोकवद्ध गणपाठ के रचियता वर्धमान को उक्त स्थानों में श्लोकगणकार के रूप में स्मरण नहीं किया गया है, क्योंकि नागेश ने लघुशब्देन्दुशेखर में श्लोकगणकार का मत उपस्थित करके गणरत्नकार वर्धमान के मत का पृथक् उल्लेख किया है।^४ सम्भव है श्लोकगणकार ने वर्धमान के समान ही गणपाठ के शब्दों की व्याख्या भी की हो, परन्तु प्रमाणविशेष की अनुपस्थिति में कुछ कहना कठिन है।

नामपारायण

संस्कृत व्याकरण-शास्त्र से संबद्ध अनेक पुस्तकों में नामपारायण और धातुपारायण नाम के ग्रन्थों का अनेकधा उल्लेख मिलता है। काशिकाकार तथा धानुप्रदीपकार दोनों ने ही अपने ग्रन्थों के प्रारम्भिक श्लोकों में इन दोनों पुस्तकों का उल्लेख किया है। काशिका के धातुनामपारायणादिषु की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने इन दोनों ग्रन्थों का स्वरूप इस प्रकार अभिव्यक्त किया है—“जहा धातुओं की प्रक्रिया वर्णित हो वह धातुपारायण तथा जहा गणपाठ के शब्दों का निर्वचन किया जाए वह ग्रन्थ नामपारायण है।”^५ तौलरत्यादि गण के कतिपय शब्दों का निर्वचन करने के उपरान्त हरदत्त का शिष्टाः पारायणो द्रष्टव्याः^६ कथन भी इस बात की सूचना देता

१ घा० वृ० पृष्ठ ४१६, ५१८।

२ शब्दकौस्तुभ ३। १। १८॥

३ लघुशब्देन्दु० उत्तरार्ध, पृष्ठ ५६४।

४ द्र० लघुशब्देन्दु० उत्तरार्ध, पृष्ठ ५६४।

५ यत्र धातुप्रक्रिया तद् धातुपारायणम्, यत्र गणशब्दानां निर्वचनं तन्नामपारायणम्। प० म० भाग १, पृष्ठ ४।

६ प० म० भाग १, पृष्ठ ४८६।

है कि उसके समय में नामपारायण नाम का कोई ग्रन्थ विद्यमान था ।

सम्भव है काशिका तथा धातुप्रदीप द्वारा निर्दिष्ट धातुपारायण और नामपारायण दोनों ग्रन्थ पाणिनीय सम्प्रदाय के न होकर चान्द्र सम्प्रदाय के हों, क्योंकि नामपारायण के अब तक जो दो उद्धरण मिले हैं, वे दोनों पाणिनि-अभिमत स्थिति के विरोध के रूप में उपस्थित किए गए हैं ।

इन में प्रथम उद्धरण काशिकाकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है । इस उद्धरण से सूचना मिलती है कि नामपारायण के रचयिता ने कस्कादि गण में सर्पिष्कुण्डिका, धनुष्कपालम्, र्हिष्पूलम्, यजुष्पात्रम् इन चार शब्दों का भी पाठ किया था, 'परन्तु पतञ्जलि तथा किमी प्राचीन वृत्तिकार द्वारा नित्य समासेऽनुत्तरपदस्थस्य (८।३।४५) इस पाणिनीय सूत्र के अनुत्तरपदस्थस्य अश के प्रत्युदाहरण रूप में परमसर्पिष्कुण्डिका शब्द के प्रस्तुत किए जाने के कारण यह अनुमान होता है कि सर्पिष्कुण्डिका आदि शब्दों का कस्कादिगण में पाठ पाणिनि तथा पतञ्जलि को अभीष्ट नहीं था^१ और इस रूप में पाणिनीय सम्प्रदाय का विरोधी होने के कारण काशिकाकार ने पारायणिकों के मत की उपेक्षा कर दी ।

दूसरा उद्धरण न्यङ्नादि गणपाठित निदाघ शब्द की व्युत्पत्ति विषयक धातुवृत्तिकार ने सुधाकर के शब्दों में उपस्थित करके उसे अपाणिनीय कहा है।^२ उपर्युक्त सम्भावना को और भी बल मिलता है ।

डॉ० लिबिश को नेपाल, कश्मीर तथा लङ्का में प्राप्त चान्द्रव्याकरण-विषयक सामग्री में पूर्णचन्द्र का धातुपारायण ग्रन्थ भी प्राप्त हुआ था।^३ इस चान्द्र धातुपारायण का स्मरण सर्वानन्द ने नामलिङ्गानुशासन की टीका में ऋभुत्तो धञ्ज इति धातुपारायणे पूर्णचन्द्र शब्दों में किया है।^४ इससे

१ सर्पिष्कुण्डिका धनुष्कपालम् र्हिष्पूलम्, यजुष्पात्रमित्येषा षठ उत्तरपदस्थ स्यापि पत्र यथा स्यादिति पारायणिका ग्राह्य । काशिका ८।३।४८ ।

२ भाष्य वृत्तौ च निर्य समासेऽनुत्तरपदस्थमेत्यत्र परमसर्पिष् कुण्डिका इत्येतदेव प्रत्युदाहरणम् । काशिका ८।३।४८ ॥

३ अत्र दघ घातन इति स्वादि ततो निदध्यतऽननेति कृत्वा निदाघशब्द साधुरिति पारायणिका इति मुधाकर तदपाणिनीयम् । धा० १० पृष्ठ ३२२ ।

४ इण्डियन एण्टिकरी, अप्रैल १८१६, पृष्ठ १०३ तथा उससे आगे ।

५ अमर-गीकासंभव भाग १ पृष्ठ ४ ।

गणरत्नावली

शक सवत् १७९६ (विंम सं० १९३१) मे^१ भट्ट यज्ञेश्वर ने पाणिनीय गणपाठ की छन्दोबद्ध रचना तथा अति सक्षिप्त व्याख्या गणरत्नावली नाम से प्रस्तुत की है। यह पुस्तक वर्धमान कृत गणरत्नमहोदधि के अनुकरण पर लिखी गई है। अनेक स्थलो पर पाणिनीय मत की दृष्टि से वर्धमान के विचारो का प्रत्याख्यान भी किया है। कही कही वार्तिको मे पठित गणो को भी स्थान दिया गया है। विशेष स्थलो पर जैन शाकटायन आदि व्याकरणो से सवद्ध गणपाठो के विभिन्न पाठभेदो का भी उल्लेख किया है। सम्भव है यह उल्लेख गणरत्नमहोदधि के आधार पर किया हो। किं वहुना, पाणिनीय गणपाठ के व्याख्या ग्रन्थो मे एक मात्र यही ऐसा ग्रन्थ है जो आज प्राचीन सस्कृत वाङ्मय के संग्रहालयो मे प्राय उपलब्ध होना है।^२



१ शाने रसाकमुनिभूमि न मसि तपाऽभिधे । गणरत्नावली, पत्रा १२३ ए ।

२ इसका प्रक शन 'भारतीय प्राय्यविद्या प्रतिष्ठान अजमेर' से शीघ्र होगा ।

चतुर्थ अध्याय

पाणिनि से उत्तरवर्ती वैयाकरण

और

उन के गणपाठ

पाणिनि से उत्तरकालीन वैयाकरणों की परम्परा में आचार्य चन्द्रगोमी, देववन्दी, पाल्यकीर्ति, भोज हेमचन्द्र तथा वर्धमान का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः पाणिनीय गणपाठ का इन आचार्यों के शब्दानुशासनो से सबद्ध गणपाठों के साथ तुलनात्मक अध्ययन अत्यावश्यक है। इस तुलनात्मक अध्ययन से अर्वाचीन वैयाकरणों के गणपाठों के सबन्ध में कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धान्त स्थिर किए जा सकते हैं जो सामान्यतया सभी अर्वाचीन गणपाठों में प्रायः अपनाए गए हैं। ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं -

१-भोज को छोड़कर सभी अर्वाचीन वैयाकरणों ने अपने गणपाठों में पाणिनि के स्वरप्रक्रिया तथा वैदिक भाषा से सबन्ध रखने वाले गणों को स्थान नहीं दिया है।^१

२-कात्यायन की वार्तिकों को अर्वाचीन वैयाकरणों ने अपने तन्त्रों में प्रायः स्वतन्त्र सूत्रों के रूप में देकर सन्निविष्ट कर लिया है। इसलिए वार्तिकों में निर्दिष्ट गणों को भी इन्होंने अपने गणपाठों में अन्य गणों के समान स्थान दिया है।

३-कही कही पाणिनि के एक गण को अनेक गणों में विभक्त किया है।

४-कही कही पाणिनि के अनेक गणों को एक गण में समाविष्ट किया है।

५-कुछ गणों के आरम्भ में पाणिनि निर्दिष्ट शब्दों के स्थान पर किसी लघु शब्द को रखकर गण का नया नामकरण किया गया है।

१ चान्द्र व्याकरण का स्वर वैदिक भाग विरकाल से लुप्त है। (देखो यही अध्याय, पृष्ठ ११२-११३) अतः उसका गणपाठ में भी स्वर वैदिक प्रकरण के गणों का समावेश की सम्भावना है।

६-पाणिनि के कतिपय गणों के शब्दों को सूत्रों में पढ़कर उन गणों परित्याग किया है।

७-अपने से पूर्व पूर्व के आचार्यों के गणपाठों में मिलने वाले एव शब्दों के अनेक पाठभेदों को स्वतन्त्र शब्द मानकर उन सभी का तत्तद् गणों में निर्देश किया है।

८-आकृतिगणों में उत्तरोत्तर यथासम्भव शब्दों की अधिनाधिक वृद्धि की गई है।

९-पाणिनीय गणपाठ में आकृतिगण के रूप में स्वीकृत कुछ गणों को पठितगण का रूप दिया है।

१०-पाणिनीय गणपाठ में पठितगण के रूप में स्वीकृत अनेक गणों को आकृतिगण का रूप दिया है।

११-पाणिनि के गणपाठों में मिलने वाले गणसूत्रों को अपने गणपाठों में स्थान न देकर उन्हें स्वतन्त्र सूत्रों का रूप प्रदान करके सूत्रपाठ में स्थान दिया है।

१२-कहीं कहीं पाणिनि के एक गण में उपलब्ध होने वाले कई गणसूत्रों को एक सूत्र का रूप दिया है।

१३-पाणिनि के सूत्रपाठ में विद्यमान कई बड़े बड़े सूत्रों को गणसूत्रों का आश्रय लेकर उन के लिए नए गणों का निर्धारण किया है।

ये उपर्युक्त बातें इन अर्वाचीन वैयाकरणों के तन्त्रों में उन गणों की अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं। अब हम कालक्रम में प्राचीन वैयाकरणों के गणपाठ में व्यवहृत उपर्युक्त विषयों का सोदाहरण विवरण करते हैं—

चन्द्रगोमी तथा उस का गणपाठ

आचार्य चन्द्र अथवा चन्द्रगोमी, जिस के नाम पर चन्द्रगणप्रसिद्ध हुआ, का समय उसकी स्वोपज्ञ वृत्ति में उदाहृत अजयद् गुणं इत्यन्तं

१ चन्द्रवृत्ति १।२।८१ का पाठ अजयज्जर्ता इत्यन्तं इति। डा० लिमिश के संस्करण में भी यही पाठ छपा है। 'जत' एक प्राचीन रूप है (द्र० महाभारत सभाष्य ४६।२६)। आचार्य चन्द्र ने इस शब्द का विश

१-कम्बोजादि गण (२।४।१०४)।

२-वैङ्गाक्षीपुत्रादि गण (३।१।१२४)

३-देवासुरादि तथा स्वर्गादि गण (४।१।१३३)।

४-पुण्याहवाचनादि गण (४।१।१३४)।

५-ज्योत्स्नादि गण (४।२।१०७)।

६-नवयज्ञादि गण (४।२।१२४)।

पाणिनि के सूत्रों तथा तत्संबद्ध वार्तिक-निर्दिष्ट शब्दों के आधार पर निर्धारित गण—अष्टाध्यायी के सूत्रों तथा तत्संबद्ध कात्यायन के वार्तिकों में उपसख्यात शब्दों की दृष्टि से भी आचार्य चन्द्रगोमी ने अनेक नए गणों का निर्धारण किया है। यथा—

१-ऊपादि गण^१—यह गण पाणिनि के ऊपसुपिमुष्कमधो रः^२ सूत्र तथा कात्यायन के रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम्^३ वार्तिक के आधार पर।

२-कृष्यादि गण^४—पाणिनि के रजःकृष्यासुतिपरिपदो बलच्^५ तथा दन्तशिखात् संज्ञायाम्^६ सूत्रों और कात्यायन के बलच्प्रकरणेऽन्वेभ्योऽपि दृश्यते^७ वार्तिक के उदाहरणभूत शब्दों के आधार पर।

३-केशादि गण^८—पाणिनि के केशाद् वोऽन्यतरस्याम्^९ सूत्र तथा कात्यायन के वप्रकरणे मणिहिरण्याभ्यामुपसंख्यानम्^{१०} वार्तिक के आधार पर।

४-कलाप्यादि गण^{११}—पाणिनि के नस्तद्धिते^{१२} सूत्र पर विरचित नान्तस्य टिलोपे सन्नहचारि०^{१३} इत्यादि वार्तिक में उपसख्यात शब्दों के आधार पर।

१ चा० वृ० ४।२।१२७ ॥

२ पा० ५।२।१०७ ॥

३ महा० ५।२।१०७ ॥

४ चा० वृ० ४।२।११६ ॥

५ पा० ५।२।११२ ॥

६ पा० ५।२।११३ ॥

७ महा० ५।२।११२ ॥

८ चा० वृ० ४।२।११३ ॥

९ पा० ५।२।१०६ ॥

१० महा० ५।२।१०६ ॥

११ चा० वृ० ५।३।१४० ॥

१२. पा० ६।४।१४४ ॥

१३ महा० ६।४।१४४ ॥

५-व्यासादि गण^१-पाणिनि के सुधारतुरकड् च^२ सूत्र पर कात्यायन से भिन्न वैयाकरण द्वारा विरचित सुधातृव्यासत्रडनिपादचाण्डाल विम्बानामिति घन्तन्यम्^३ वार्तिक के आधार पर ।

इसी प्रकार कात्यायन के गोपवनादिप्रतिषेध प्राग्घरितादिभ्य^४ वार्तिक को दृष्टि में रखते हुए ही चन्द्रगोमी ने गोपवनादि गण के साथ अष्टभ्य^५ का निर्देश आवश्यक समझा ।

नए गण-आचार्य चन्द्रगोमी ने अपने गणपाठ में कुछ ऐसे नए गणों का भी निर्धारण किया है, जिनका पाणिनीय गणपाठ में अभाव है । इस प्रसङ्ग में ऋत्यादि^६ हिमादि^७ तथा वेणुकादि^८ गण द्रष्टव्य है । कई विद्वानों की धारणा है कि काशिकाकार ने चान्द्र व्याकरण के अनुकरण पर ही गहादि गण में वेणुकादिभ्यश्छण् को गणसूत्र के रूप में समाविष्ट किया है ।^९

कई गणों का एकीकरण-पाणिनि के गणपाठ को अपनाते हुए भी उसमें स्थान स्थान पर लाघव की दृष्टि से पाणिनि के अनेक दो दो गणों को मिलाकर चान्द्र गणपाठ में एक कर दिया गया है । इन गणों का एकीकरण करके भी स्वरविषयक विभिन्न स्थितियों की मुरत्ता इस व्याकरण में कैमों की जा सनी थी यह समझ में नहीं आता (इस व्याकरण में स्वरप्रकरण निश्चित ही था,^{१०} यद्यपि आज वह उपलब्ध नहीं है) । इस एकीकरण के प्रसंग में सिन्ध्यादि^{११} में तक्षशिलादि का तथा कथादि^{१२} में गुडाद्रि का समावेश द्रष्टव्य है ।

कुछ गणों का परित्याग-चन्द्रगोमी ने पाणिनि द्वारा निर्धारित कुछ गणों का परित्याग भी किया है ।

१ चा० १० २ । ४ । २१ ॥ २ पा० ४ । १ । ६७ ॥

३ मग० ४ । १ । ६७ ॥ ४ महा० २ । ४ । ६७ ॥

५ न गोपवनादिभ्याऽऽभ्य । चा० सू० २ । ४ । ११६ ॥

६ चा० १० ४ । १ । १२४ ॥ ७. चा० १० ४ । २ । १२६ ॥

८ चा० १० ३ । ४ । ६१ ॥

९. सिद्धम् श्राफ संस्कृत प्रामर, पृष्ठ ३८, पं. १ ।

१०. संस्कृत व्याकरण शास्त्र की इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३१६ ३१८ ।

११ चा० १० ३ । ३ । ६१ ॥ १२ चा० १० ३ । ४ । १०४ ॥

इस दृष्टि से पाणिनि के शौण्डादि से लेकर राजदन्तादि तक के गणों का, तथा पलाशादि, प्लक्षादि, रसादि तथा देवपथादि जैसे कुछ अन्य गणों का इस व्याकरण में अभाव उल्लेखनीय है।

कुछ गणों का नाम परिवर्तन—पाणिनि द्वारा निर्धारित अनेक गणों के प्रारम्भिक शब्द को प्रायः लाघव की दृष्टि से बदल कर उन गणों का नाम भी इस व्याकरण में बदल दिया गया है। यथा अपूपादि^१ का यूपोपादि,^२ इन्द्रजननादि^३ का शिशुकन्दादि,^४ अनुप्रवचनादि^५ का उत्थापनादि,^६ किशुलकादि^७ का अञ्जनादि,^८ सपत्न्यादि^९ का समानादि,^{१०} वहादि^{११} का शोणादि,^{१२} तथा सन्धवेलादि^{१३} का सन्ध्यादि^{१४} नाम द्रष्टव्य है। पाणिनि के व्रीह्यादि गण को, कात्यायन की शिखादिभ्य इनिर्वाच्य इकन् यवत्पदादिषु,^{१५} इस वार्तिक के अनुसार चन्द्रगोमी ने व्रीह्यादि^{१६} शिखादि^{१७} तथा यवत्पदादि^{१८} के स्थान पर छोटे नाम भावादि^{१९} के रूप में तीन गणों में विभक्त कर दिया है, तथा यहाँ के शिखादि^{१७} गण में ही पाणिनि के यलादि गण का भी समावेश किया है।

अन्य विभिन्नतायें—इनके अतिरिक्त चन्द्रगोमी ने अपने गणपाठ के कस्कादि गण^{२०} में सर्पिष्कुण्डिका, धनुष्कपाल, घर्हिष्पूल तथा यजुष्पात्र शब्दों का भी पाठ किया है, जो सम्भवतः पाणिनि को और निश्चित रूप से पतजलि^{२१} को इस गण में अभिप्रेत नहीं था।

१. पा० ५।१।४॥

२. चा० वृ० ४।१।३॥

३. पा० ४।३।८८॥

४. चा० वृ० ३।३।५६॥

५. पा० ५।१।१११॥

६. चा० वृ० ४।१।१३०॥

७. पा० ६।३।११६॥

८. चा० वृ० ५।२।१३२॥

९. पा० ४।१।३५॥

१०. चा० वृ० २।३।२३॥

११. पा० ४।१।४५॥

१२. चा० वृ० २।३।४१॥

१३. पा० ४।२।१६॥

१४. चा० वृ० ३।२।७६॥

१५. महा० ५।२।११६॥

१६. चा० वृ० ४।२।११६॥

१७. चा० वृ० ४।२।१३४॥

१८. द्र० 'इकन् यवत्पदादिषु'—कात्यायन की वार्तिक। महा० ५।२।११६॥

१९. चा० वृ० ४।२।११८॥

२०. द्र० चा० वृ० ४।२।१३४॥

२१. चा० वृ० ६।४।४५॥

२२. द्र० का० ८।३।४८॥

पाणिनि के अर्धर्चादि गण का अपने सूत्र में स्पष्ट निर्देश करके भी चन्द्रगोमी ने इस गण में पाणिनि-निर्धारित 'गोमय' आदि शब्दों का पाठ अनावश्यक समझा^१। इसी तरह पाणिनि के गणपाठ में आये अरीहणादि आदि १७ गणों की दृष्टि से विभिन्न प्रत्ययों का विधान करके भी इन गणों के लिये शब्दों का निर्धारण करना तो दूर रहा, सूत्र में इन गणों का निर्देश भी चन्द्रगोमी ने नहीं किया^२।

शरादि गण जो पाणिनीय-सम्प्रदाय में पठितगण के रूप में स्वीकृत है, चन्द्रगोमी के गणपाठ में आकृतिगण के रूप में प्रस्तुत किया गया है^३। इसका अनुकरण भोज तथा वर्धमान ने भी किया है।

चान्द्र व्याकरण के वेद तथा स्वरविषयक गण-डा० बेल्वाल्कर^४ तथा एस० के० डे^५ का यह मत है कि चन्द्रगोमी ने अन्य अपरकालिक वैयाकरण के समान, बौद्ध होने के कारण पाणिनि के स्वर तथा वेदविषयक सूत्रों को अपने व्याकरण में स्थान नहीं दिया था। डा० लिबिश द्वारा सम्पादित चान्द्र वृत्ति में भी केवल ६ अध्याय ही मिलते हैं जिनमें स्वर तथा वेद का प्रकरण नहीं है। साथ ही इसके अन्त में यह स्पष्ट लिखा मिलता है—

समाप्तं चेदं चान्द्रव्याकरणं शुभम् ।

इस पक्ति से उपरोक्त धारणा की पर्याप्त पुष्टि हो जाती है।

परन्तु 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास' के यशस्वी लेखक श्री प० युधिष्ठिरजी मीमांसक का यह निश्चित मत है कि चान्द्र व्याकरण में स्वर वैदिक दोनों प्रकरण अवश्य विद्यमान थे। पहले यह चान्द्र व्याकरण २ अध्यायों में विभक्त न होकर आठ अध्यायों में विभक्त था। चिरकाल से वेद

१. स्मासलिङ्गाख्याने गोमयादयो न वक्तव्याः । तद्देव वा स्त्रीपुल्लिङ्गाः...
स्त्रीनपुंसकलिङ्गा 'सर्लिंगा' एकलिङ्गा ...श्रलिङ्गा ...सर् एव वाच्या स्यु ।
अथ तेषां लोक्तो लिङ्गानुशासनतो वा सिद्धिरिष्ट तद्देव वा गोमयादीनामपि
भविष्यति । पा० ३० ० । ० । ८३ ॥

२. देशनाम्नो यथादर्शनमस्यातात् अनर्थकोऽयं गणपाठः । चा० वृ०
३ । १ । ६८ ॥ ३ द्र० चा० वृ० ५ । २ । १३४ ॥

३ द्र० सिस्टम आफ् संस्कृत ग्रामर, पृ० ५६ ।

४. द्र० इण्डियन इन्स्ट्रिकुन फार्टला जू १६३८ पृ० २५८ तथा उसमें
आगे ।

और स्वर विषयक अध्यायों के उत्सन्न हो जाने से ये सम्प्रति अनुपलब्ध हैं। अपने मत की पुष्टि में आपने चान्द्रवृत्ति के तद्व्यस्य वा स्वरितत्वं वक्ष्यामः,^१ जनिवध्योरिगुपधान्तानां च स्वरं वक्ष्यामः^२ तथा स्वरविशेषमष्टमे वक्ष्यामः^३ जैसे अकाट्य प्रमाणों को उपस्थित किया है, जिनमे उनके मत की सन्दिग्धता समाप्त हो जाती है।^४ उपर्युक्त दोनों प्रकरणों के अनुपलब्ध होने के कारण तत्सम्बद्ध गणपाठ का भी सम्प्रति इस व्याकरण में अभाव है।

जैनेन्द्र व्याकरण तथा उसका गणपाठ

धनंजयकोपकार, हेमचन्द्र तथा वोपदेव जैसे विद्वानों के साक्ष्य से यह पता लगता है कि जैनेन्द्र व्याकरण के रचयिता का नाम देवनन्दी है।^५ इसका दूसरा नाम पूज्यपाद भी है। प्रो० पाठक ने अपने निबन्ध में यह सिद्ध करना चाहा है कि इस व्याकरण की रचना ईसा की पाँचवीं शताब्दी के अन्त में हुई है।^६

जैनेन्द्र व्याकरण के दाक्षिणात्य तथा औदीच्य दो संस्करण मिलते हैं। इनमें सूत्रों के क्रमशः अधिक तथा न्यून होने के कारण पहले को बड़ा तथा दूसरे को छोटा संस्करण माना जाना है। इनमें औदीच्य संस्करण पर लिखी गयी अभयनन्दी की महावृत्ति में ही इस व्याकरण का गणपाठ मिलता है। इस महावृत्ति की रचना संभवतः ७५० ईस्वी में हुई थी।^७

डा० वेल्वात्कर के विचारानुसार इस व्याकरण की अपनी कोई मौलिकता नहीं है।^८ पाणिनि के सूत्रों तथा कात्यायन की वार्तिकों को ही यथा-सम्भव संचिषरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास इस व्याकरण में किया गया है। इसलिये इस व्याकरण के गणपाठ में भी किसी प्रकार की अपनी मौलि-

१. चा० वृ० १।१।१०५ ॥

२. चा० वृ० १।१।१०८ ॥

३. चा० वृ० १।१।१४५ ॥

४. द्र० संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ४१६-४१७ ॥

५. द्र० सिस्टम्स आफ् संस्कृत ग्रामर, पृष्ठ ६३।

६. द्र० इण्डियन एण्टिकरी, अक्टूबर १९१४।

७. द्र० सिस्टम्स आफ् संस्कृत ग्रामर, पृष्ठ ६७।

८. द्र० सिस्टम्स आफ् संस्कृत ग्रामर, पृष्ठ ६५।

कता का न होना स्वाभाविक ही है। पुनरपि इस गणपाठ में निम्न बातें द्रष्टव्य हैं—

१—स्वर तथा वैदिक प्रकरण के सूत्रों के न होने के कारण तत्सम्बद्ध गणों का अभाव।

२—गणसूत्रों की प्रायः स्वतंत्र सूत्रों के रूप में प्रतिष्ठा।

३—पिच्छादि तथा तुन्दादि का एकीकरण।

४—आकृतिगणा में कुछ शब्दों की वृद्धि।

५—चान्द्रवृत्ति तथा काशिका के गणपाठ में मिलने वाले, एक शब्द के दो विभिन्न पाठों को स्वतंत्र रूप में दो पृथक् पृथक् शब्द मानकर पढ़ा गया है। यथा—कुर्वादि गण में काशिका का पाठ 'अभ्र' है चान्द्रवृत्ति में 'शुभ्र' है परन्तु जैनेन्द्र में 'अभ्र' और 'शुभ्र' दोनों ही पठित हैं।

६—इस गणपाठ में एक बात और द्रष्टव्य है। प्रायः सर्वत्र श के स्थान में स का प्रयोग मिलता है। जैसे शकुलादि के स्थान पर सकुलादि अथवा सर्वशेष के स्थान पर सर्वकेस इत्यादि।

७—कही कही इसके विपरीत स्थिति भी मिलती है अर्थात् स के स्थान पर श का प्रयोग।

व्याकरण सम्बन्धी किसी उपयुक्त कारण के अभाव में ऐसी भयकर अशुद्धियाँ का कारण संभवतः निखन वालों की अनभिज्ञता ही हो सकती है।

(जैन) शाकटायन व्याकरण तथा उसका गणपाठ

जैनेन्द्र व्याकरण के लगभग दो शताब्दी पश्चात् पाल्यकीर्ति ने अपने व्याकरण की रचना की। इस व्याकरण को 'शाकटायन-शब्दानुशासन' भी कहा जाता है। इसी पाल्यकीर्ति ने अपने शब्दानुशासन पर ८१७-८७७ ईस्वी में होने वाले राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष के समय में 'अमोघा' नामक वृत्ति की रचना की। शाकटायन व्याकरण के टीकाकार यक्षवर्मा ने अपनी चिन्ता मणि टीका में मगलाचरण वाले प्रारम्भिक श्लोको में इस व्याकरण की विशिष्टता बताने हुए यह घोषणा की है कि पाल्यकीर्ति के इस व्याकरण में

१-द्र० स० व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ४३५।

२-द्र० सिल्लिस ग्रॉफ़ संस्कृत ग्रामर पृष्ठ ६८-६९।

पाणिनीय व्याकरण के गभान वार्तिको, इष्टिया तथा उपसंख्यानो की कोई आवश्यकता नहीं है।^१ इन्द्र, चन्द्र आदि शब्दिको ने शब्द का जो लक्षण कहा है वह सब इम शब्दानुशासन में विद्यमान है, तथा जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र कही नहीं है।^२ केवल लौकिक संस्कृत की शब्दावली को देखते हुए जैन शाकटायन-व्याकरण को यह श्रेय दिया जा सकता है। इस व्याकरण में इस प्रकार की विशेषता का होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि इस व्याकरण के प्रवक्ता आचार्य पाल्यकीर्ति के समस्त पाणिनि कात्यायन, पतञ्जलि, चन्द्र गोमी तथा पूज्यपाद (=श्वनन्दो) आदि अनेकानेक वैयाकरणों की उत्तरोत्तर परिवर्धित तथा परिपोषित विपुल व्याकरण-सामग्री विद्यमान थी। सम्भवतः इस सम्पूर्ण सामग्री का पूरा पूरा उपयोग इस व्याकरण में किया गया है।

शाकटायन नाम का कारण—ए सी वर्नेल ने इस व्याकरण के विषय में विचार करते हुए यह मत प्रकट किया है^३ कि जैनेन्द्र-व्याकरण से भी अर्वाचीन होने के कारण इस व्याकरण का पाणिनि से प्राचीन वैयाकरण शाकटायन द्वारा विरचित होना सर्वथा असम्भव एवं असंगत है। परन्तु इस विचार के साथ साथ उनकी यह भी धारणा है कि भल ही इस व्याकरण की रचना प्राचीन आचार्य शाकटायन द्वारा साक्षात् न हुई हो परन्तु अप्रत्यक्ष रूप में, किसी तरह इसका सम्बन्ध प्राचीन शाकटायन के साथ अवश्य है अर्थात् आचार्य शाकटायन विरचित या उससे सम्बद्ध किसी व्याकरण के आधार पर पाल्यकीर्ति ने इस व्याकरण की रचना की है।

अपनी इस धारणा की पुष्टि में उन्होंने यह हेतु प्रस्तुत किया है कि पाणिनि अष्टाध्यायी में आचार्य शाकटायन का नाम लेकर जितने भी मत संकलित हैं वे सारे मत इस व्याकरण में शाकटायन का नाम लिये बिना ही सूत्रों में उल्लिखित हैं।

१ इष्टिगण न वस्तव्य वस्तव्य सूत्रत पृथक् । ।

संख्यातं नोपसंख्यातं यस्य शब्दानुशासने । श्लोकसंख्या ४ ।

२ इन्द्रचन्द्रादिभिः शब्दैः यदुक्तं शब्दलक्षणम् ।

तदिहास्ति समस्तं च यत्तदास्ति न तत् क्वचित् ॥ श्लोकसंख्या ६ ।

३ द्र० सिस्टम्स आफ् संस्कृत ग्रामर पृ० ६६ तथा उसत आगे ।

पाणिनि

लडः शाकटायनस्यैव ।^१व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्यैव ।^३त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य^६

पाल्यकीर्ति

अद्विषो भेजुस्वा ।^२व्योऽप्याघोभोभगोः ।^४अच्यस्पष्टश्च ।^५अचो ह्योऽहूचः ।^७अदीर्घात् ।^८न संयोगे ।^९

पाणिनि के सूत्रों के विपरीत पाल्यकीर्ति के शब्दानुशासन में मिलने वाले उपयुक्त सूत्रों में शाकटायन का नाम न मिलने से इन सूत्रों के प्राचीन आचार्य शाकटायन द्वारा विरचित होने की सम्भावना की जा सकती है। इस रूप में इन सूत्रों के आधार पर ही पाल्यकीर्ति के शब्दानुशासन के विषय में वर्नेल ने कहा है कि 'प्राचीन (शाकटायन के) ग्रन्थ का जैन प्रभाव से युक्त सापेक्षतः आधुनिक संस्करण है।'^{१०}

परन्तु वर्नेल की यह धारणा, पर्याप्त युक्तियों के अभाव में बहुत प्रबल एवं साधारण नहीं कही जा सकती। क्योंकि इन सूत्रों की उपयुक्त स्थिति सर्वथा इसी रूप में—शाकटायन का नाम लिये बिना ही—केवल सामान्य शब्दवैभिन्न्य के साथ चान्द्र व्याकरण तथा जैनेन्द्र व्याकरण में भी प्राप्त होती है। साथ ही एक बात और विगेष ध्यान देने योग्य है कि यदि इन सूत्रों का सम्बन्ध प्राचीन शाकटायन से होता तो इन में 'वा' इत्यादि पदों के द्वारा अन्य मतों का प्रदर्शन नहीं होता। अतः केवल पूर्वनिर्दिष्ट आधार पर जैन शाकटायन व्याकरण को प्राचीन शाकटायन से सम्बद्ध नहीं माना जा सकता।

१. पा० ३।४।१११॥

२. पा० ८।३।१८॥

३. शा० १।१।१५४॥

४. शा० १।१।११७॥

५. शा० १।१।११६॥

६. शा० १।४।१०६॥

७. शा० १।१।१५३॥

८. पा० ८।४।५०॥

९. शा० १।१।११८॥

१०. It is comparatively moder reduction of an old treatise effected under Jain influences. सिद्धम् अफ संस्कृत ग्रामर पृष्ठ ६६।

शाकटायन-गणपाठ का एक विशेष स्थल—रूढादिगण—उक्त धारणा से कथमपि सहमत न होना चाहते हुए भी, इस प्रसंग में गणपाठ से सम्बद्ध, इस व्याकरण का एक और स्थल उपस्थित किया जाता है। कात्यायन^१ तथा पतञ्जलि^२ के प्रामाणिक वचनों के अनुसार पाणिनि के क्रीड्यादि गण का प्राचीन नाम रौढ्यादि गण था, परन्तु पाणिनि के गणपाठ में 'रौढि' शब्द के इस गण के आदि में होने की संभावना तो दूर रही, यह शब्द ही उस में पठित नहीं है। पाणिनि तथा अन्य सभी वैयाकरणा के विपरीत शाकटायनव्याकरण के गणपाठ में क्रीड्यादि गण का नाम रूढादिगण मिलता है^३ जो कि निश्चिन् ही 'रौढ्यादि' का भ्रष्टरूप है।

इसलिये प्रो० वर्नेन की उपर्युक्त धारणा यदि किसी अन्य आधार पर प्रामाणिकता की कोटि में आसके, तो यह कहा जा सकता है कि इस 'रूढादि' नाम को आचार्य पाल्यकीर्ति ने पाणिनि के क्रीड्यादिगण के पूर्वरूप तथा प्राचीन आचार्य शाकटायन निर्धारित गणपाठ में विद्यमान 'रौढ्यादि' नाम के अनुरूपण पर ही अपने शब्दानुगमन सम्बन्धी गणपाठ में अपनाया होगा। तब हमें इस बात का भी उत्तर मिल जाता है कि पाल्यकीर्ति द्वारा विरचित तथा जैनेन्द्रव्याकरण से भी अर्वाचीन शब्दानुशासन के साथ पाणिनि तथा यास्क से भी प्राचीन आचार्य शाकटायन का नाम कैसे संयुक्त हो सका।

शाकटायन-व्याकरण का गणपाठ—इस व्याकरण का गणपाठ पाल्यकीर्ति की स्वोपज्ञ अमोघमृत्ति में मिलता है तथा उसके अतिरिक्त इस व्याकरण की लघुमृत्ति के अन्त में भी प्रकाशित है। शाकटायनशब्दानुशासन के समान ही इस के तथा इस के अनुगामी हैमव्याकरण के गणपाठ को भी पाणिनीय गणपाठ का सुविस्तृत यत्र तत्र परिवर्तित तथा परिवर्धित रूप कहा जा सकता है। इस गणपाठ में चान्द्रव्याकरण की उपरिनिर्दिष्ट पद्धति को अधिकाधिक अपनाने का प्रयास किया गया है।

१ सिद्धन्तु रौढ्यादिषूपसख्यानात् के पुना रौढ्यादय १ ये क्रीड्यादय ।
कैय ५ क्रीड्यादय इति पूर्वाचार्यसंख्या एवमभिहितमित्यर्थ । महा० प्रदीप ४।१।७६।।

२ रूढादिभ्य । शा० १।३।४॥-

नामपरिवर्तन—उक्त प्रयाम के अनुरूप पाणिनीय गणपाठ मे स्वीकृत अनेक गणो के नाम प्रायः लाघव की दृष्टि से बदल दिये गये हैं ।

पाणिनि	पाल्यकीर्ति
आहिताग्न्यादि	भायोढादि ^१
लोहितादि	निद्रादि ^२
पचादि	लिहादि ^३
अश्वपत्यादि	धनादि ^४
उक्थादि	न्यायादि ^५
संकाशादि	सुपथ्यादि ^६
पक्षादि	पथ्यादि ^७
सन्धिवेलादि	सन्ध्यादि ^८
ऋगयनादि	शिक्षादि ^९
महिष्यादि	नरादि ^{१०}
अनुप्रवचनादि	उत्थापनादि ^{११}
ब्राह्मणादि	राजादि ^{१२}
मनोज्ञादि	चौरादि ^{१३}

१ शा० २।१।११५, हे० ३।१।५३ ॥

२ शा० ४।१।२७ हे० ३।४।३० ॥

३ शा० ४।३।८५, हे० ५।१।५० ॥

४ शा० २।४।५ हे० ४।१।१४ ॥

५ शा० २।४।१७४ हे० ६।२।११८ ॥

६ शा० २।४।२०२, हे० ६।२।८४ ॥

७ शा० २।४।२० ॥

८ शा० ३।१।१७६ हे० ६।३।८६ ॥

९ शा० ३।१।१३६ हे० ६।३।१४८ ॥

१० शा० ४।२।४६ हे० ६।४।५१ ॥

११ शा० ३।२।१२१ हे० ६।४।१२१ ॥

१२ शा० ३।३।१० हे० ७।१।६० ॥

१३ शा० ३।३।१२० हे० ७।१।७३ ॥

पाणिनि	पाल्यकीर्ति
आकषादि	अशमादि ^१
पामादि	अद्गादि ^२
अर्शआदि	अभ्रादि ^३
गनादि	युगादि ^४
अगुल्यादि	गोण्यादि ^५
स्थूलादि	अएवादि ^६
पारस्करादि	अवस्करादि ^७
किंशुलकादि	अज्जनादि ^८
स्वागतादि	स्वाङ्गादि ^९
यनादि	ऊर्मादि ^{१०}
सुयामादि	भीरुष्टानादि ^{११}

इन सभी स्थानों में पाल्यकीर्ति का अभिन्न अनुकरण हेमचन्द्र ने किया है। केवल एक स्थान पर भिन्नता है—पाणिनि के पद्मादि का पाल्यकीर्ति ने पथ्यादि नाम रखा है, परन्तु हेमचन्द्र ने पन्थ्यादि^{१२} रखा है।

परित्यक्त गण—पाणिनि का तक्षशिलादि गण यहाँ नहीं मिलता। केवल इस गण के काण्ड, वरक, तथा ग्रामणी शब्द सिन्धवादि गण में

- १ शा० ३।१।८७, हे० ६।३।६७ ॥
 २ शा० ३।३।१२६, हे० ७।२।२६ ॥
 ३. शा० ३।३।१४१ हे० ७।२।४६ ॥
 ४ शा० ३।२।२१०, हे० ७।१।३० ॥
 ५. शा० ३।३।४५, हे० ७।१।१२१ ॥
 ६. शा० ३।३।१८० हे० ७।२।७६ ॥
 ७. शा० २।२।३६ हे० ३।२।४८ ॥
 ८ शा० २।२।६५ हे० ३।२।७७ ॥
 ९ शा० २।३।६० हे० ७।४।६ ॥
 १० शा० १।२।१०१, हे० २।१।१६ ॥
 ११. शा० २।२।१५० हे० २।३।३३ ॥
 १२ हे० ६।२।८६ ॥

पठित मिनते हैं।^१ इसी प्रकार तालादि गण का केवल श्यामाक शब्द रजनादि गण मे मिलता है।^२ तालादि गण यहा अनुपलब्ध है। हरीतम्यादि गण भी यहा नही दिखाई देता।

पाणिनि के उन गणो को भी जिनमे दो चार ही शब्द पठित थे को पाल्यकीर्ति ने गणपाठ मे स्थान नही दिया क्योकि इस प्रकरण के शब्दो का उमने तत्सम्बद्ध सूत्रो मे ही प्रतिपद पाठ कर दिया गया है। यथा-क्रमादि^३ अथवा कोटरादि गण।^४ यहा भी हेमचन्द्र ने पाल्यकीर्ति का ही अनुगमन किया है।

कात्यायन-सम्मत गणों को अपनाना—पाल्यकीर्ति तथा हेमचन्द्र दोनो ने ही कात्यायन की वार्तिको मे उल्लिखित गणो को अपने अपने व्याकरण के स्वतन्त्र सूत्रो से सम्बद्ध करके अपने अपने गणपाठ मे स्थान दिया है। उदाहरण के रूप मे—

१ पारदारादिगण।^५

५ शकादि गण।^६

२-सुस्तातादिगण।^६

६-गङ्गादिगण।^७

३-माशब्दादिगण।^७

७-परिमुखादिगण।^८

४-गिरित्यादिगण।^८

इत्यादि गणो को देखा जा सकता है।

१ द्र०-शा० अ० २।१।२०१ है० वृ० ६।२।२१६ ॥

२ द्र०-शा० अ० २।४।६१ है० वृ० ६।२।४५ ॥

३ द्र०-शा० अ० २।४।१८० है० वृ० ४।२।१२७ ॥

४ द्र० शा० अ० २।२।१६० है० वृ० ३।२।७६ ॥

५ शा० ३।२।३७ है० ६।४।३८ ॥

६ शा० ३।२।४४ है० ६।४।४२ ॥

७ शा० ३।२।४६ है० ६।४।४४ ॥

८ शा० २।२।१६३ है० २।३।६८ ॥

९ शा० २।४।१०४ है० ६।१।१२० ॥

१० शा० २।१।१४४ है० ३।१।१५६ ॥

११ शा० ३।१।१२४ है० ६।३।१३६ ॥

नए गण—पाणिनि के बड़े बड़े सूत्रों को भी गणशैली द्वारा छोटा करने की दृष्टि से, सूत्रों तथा मन्त्रम्बद्ध वाक्यों में निर्दिष्ट शब्दों के लिए विभिन्न गणों का निर्धारण करना चाहने हुए पाल्यकीर्ति तथा हेमचन्द्र दोनों ने अनेक नए गणों की कल्पना अपने अपने गणपाठों में की है। यथा— पाणिनि के पञ्चमी भयेन^१ तथा अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पश^२ इन सूत्रों में आये शब्दों को अन्तर्भावित करते हुए भयादि^३ गण का निर्धारण किया गया है। समानस्य च्छन्दम्यमूर्द्धप्रभृत्युदकेंपु^४ इस सूत्र के समानस्य पद का 'योगविभाग' करके मिट्ट किए जाने वाले सपत्न सधर्म जैसे शब्दों तथा ज्योतिर्जनपद^५ सूत्र के शब्दों के लिए धर्मादिगण^६ की कल्पना की है। इसी प्रकार देवमनुष्यपुरपपुर^७ इस पाणिनीय सूत्र के लिये देवादिगण^८ की व्यवस्था तथा द्वितीया श्रितातीतपतितगतत्यन्त-प्राणापन्नै^९ सूत्र की दृष्टि से श्रितादि^{१०} गण की कल्पना द्रष्टव्य है।

सन्देश निवारण का प्रयास—पाल्यकीर्ति तथा हेमचन्द्र दोनों ने ही पाणिनि के गणपाठ में मिलने वाले कुमुदादि नाम के दो गणों में स पहले का कुमुदादि^{११} तथा दूसरे का अश्वत्थादि^{१२} नाम रखा है।

पाणिनि के व्रीह्यादिभ्यश्च सूत्र से मन्त्रम्बद्ध कात्यायन की वार्तिक शिखादिभ्य इतिराच्य इकन् यत्सदादिपु^{१३} के आधार पर चन्द्रगोमी ने

१ पा० २।१।३७ ॥

२ पा० २।१।३८ ॥

३ शा० २।१।३३, है० ३।१।७३ ॥

४ पा० ६।३।८४ ॥

५ पा० ६।३।८५ ॥

६ शा० २।०।१०६, ह० ३।२।१४६ ॥

७ पा० ५।४।५६ ॥

८ शा० ३।४।६३, है० ३।२।१४६ ॥

९ पा० ०।१।२४ ॥

१० शा० २।१।३३, है० ३।१।६२ ॥

११ शा० २।४।२०२, है० ६।२।६६ ॥

१२ शा० २।४।२०२, है० ६।०।६७ ॥

१३ महा० ५।२।११६ ॥

पाणिनि व ब्रीह्यादिगण के तीन विभाग—ब्रीह्यादि^१ शिखादि^२ तथा नादादि^३ किए थे इसका निर्देश ऊपर किया जा चुका है। पाल्यकीर्ति तथा हेमचन्द्र दोना ने इन तीन विभागों को अपनाते हुए यहाँ के शिखादिगण में ही पाणिनि के ब्रह्मादि^४ गण का भी समावेश कर दिया है। ये दोनों ही आचार्य इस शिखादिगण को आकृतिगण मानते हैं।

रुई गणों का एकीकरण—चन्द्रगोमी द्वारा प्रदाशत पाणिनि के कई गणों का एकीकरण की पद्धति को भी इन दोनों में अधिकाधिक अपनाया है। भिन्नादि गण तथा खरिडकादि गण का,^५ कथादि और गुडादि का^६ ब्राह्मणादि और पुरोहितादि का^७ तथा संकाशादि और प्रगदिनादि का^८ एकीकरण द्रष्टव्य है। पाणिनि के अनेक गणों के एवविध एकीकरण में इन अर्वाचीन वैयाकरणों की स्वरशास्त्रनिरपेक्षता पर्याप्त प्रेरक रही, जब कि पाणिनि के व्याकरण में स्वरप्रक्रिया को महत्त्वपूर्ण स्थान देने के कारण उन्हें पृथक् पृथक् स्वर की दृष्टि से पृथक् पृथक् प्रत्यय करने के लिए पृथक् पृथक् गण पढ़ने पड़े।

चन्द्रगोमी तथा शाकटायन और हेमचन्द्र

चन्द्रगोमी के ऋत्यादि^९ तथा वेणुकादि^{१०} गणों को पाल्यकीर्ति तथा हेमचन्द्र दोना ने उसी रूप में स्वीकार कर लिया है। परन्तु चन्द्रगोमी द्वारा निर्धारित कुछ गणों के नामों में इन दोनों ने परिवर्तन कर दिया है।

१ शा० ३।२।१५०	हे० ७।२।५॥
२ शा० ३।२।१५१	हे० ७।२।४॥
शा० २।०।१५०	हे० ७।२।०॥
४ शा० अ० ५।२।१५१	हे० ७० ७।२।४॥
५ शा० अ० २।४।१२८,	हे० ४० ६।२।१०॥
६ द्र० शा० अ० २।२।२०२	हे० ४० ७।२।२१।
७ द्र० शा० अ० ३।३।१०;	हे० ४० ७।१।६०॥
८ द्र० शा० अ० २।४।२०२	हे० ४० ६।२।८४॥
९ शा० ३।२।११४,	हे० ५० ६।४।१२५॥
१० शा० ३।१।५६	हे० ६।३।६६॥

यथा—हिमादि का नाम गुणादि^१ और कलाप्यादि ना मीदादि^२।

कई गणसूत्रों का एकीकरण—पाल्यकीर्ति तथा हेमचन्द्र दोनों ने ही वही कही पाणिनि के गणपाठ में पाए जाने वाले कई गणसूत्रों को, यदि वे एक ही गण में पठित हैं तो उन्हें, एक बड़े स्वतंत्र सूत्र का रूप दे दिया है। उदाहरण के लिये स्थूलादि^३ तथा प्रज्ञादि^४ गण के अनेक गणसूत्रों के लिये इन दोनों वैयाकरणों द्वारा परिवर्तित बड़े बड़े सूत्र देखे जा सकते हैं।

पाणिनि के पठितगण आकृतिगण के रूप में—पाणिनि के गणपाठ में पठितगण के रूप में मिलने वाले शौण्डादि^५ तथा कडारादि^६ गणों को पाल्यकीर्ति तथा हेमचन्द्र दोनों ने ही आकृति गण के रूप में माना है। पाणिनि ने जिन गणों को आकृतिगण माना था, उनमें से अनेक गणों में इन दोनों ने शब्दों की पर्याप्त परिवृद्धि की है।

स्वर तथा वैदिक प्रक्रिया से संबद्ध गणों का अभाव—अपने से पूर्वभावी जैनेन्द्र के समान पाल्यकीर्ति तथा हेमचन्द्र ने भी स्वर तथा वेद विषयक प्रकरणों से अपने व्याकरण को अटूटा रखने के कारण तत्सम्बद्ध गणों को भी अपने गणपाठ में स्वभावतः ही नहीं स्थान दिया है।

✓ हेमचन्द्र तथा उसका गणपाठ

कालक्रम की दृष्टि से हेमचन्द्र का स्थान श्रीभोज के अनन्तर है, परन्तु पाल्यकीर्ति विरचित शाकटायन-शब्दानुशासन के अधिकाधिक अनुयायी और समीप होने के कारण इस अध्ययन में पाल्यकीर्ति के पश्चात् हेमचन्द्र को स्थान देना अनुचित नहीं कहा जायगा।

जैन मतानुयायी हेमचन्द्र सूरि रचित या निर्वाचित व्याकरण का पूरा नाम सिद्धहेमचन्द्राभिधस्योपल्ल शब्दानुशासन है। हेमचन्द्र का जन्मकाल

१ शा० ३।३।१५८	ह० ७।२।१३॥
२ शा० ३।१।७०	ह० ६।३।१८२॥
३. द्र० शा० ३।३।१८१	ह० ७।३।२७॥
४. द्र० शा० ३।४।१३३	ह० ७।२।१६६॥
५. द्र० शा० अ० २।१।५०	ह० व० ३।१।६८॥
६ द्र० शा २०।१।१७७,	ह० व० ३।१।१५८॥

१०८८ अथवा १०८९ तथा मृत्युकाल ११४२ ईस्वी माना जाता है।^१ चन्द्रगोमी तथा पाल्यकीर्ति के समान हेमचन्द्र ने भी अपने शब्दानुशासन पर स्वोपज्ञ वृत्ति लिखी है। वह दो प्रकार की है। एक लघुवृत्ति और दूसरी बृहद्वृत्ति। इस बृहद्वृत्ति में ही इस व्याकरण का गणपाठ उपलब्ध होता है।

हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में पाल्यकीर्ति व शब्दानुशासन तथा उसकी अमोघवृत्ति का कितना अधिक अनुकरण किया है इसका परिज्ञान प्रो० वेल्वा ल्कर के इस कथन से किया जा सकता है—

विश्वत शाकटायन के शब्दानुशासन तथा अमोघवृत्ति के सम्बन्ध में उसका (हेमचन्द्र का) आश्रित होना इतना निकट का है कि वह सर्वथा अन्धानुकरण की स्थिति तक जा पहुँचता है।^२

इस प्रसंग में एक और विद्वान का यह वक्तव्य भी ध्यान देने योग्य है—

वस्तुतः उन परिस्थितियों को छोड़कर जिनके कारण हेमचन्द्र ने कातत्र के अनङ्ग पाणिभाषिक शब्दों का स्वीकार किया उसका (हेमचन्द्र का) व्याकरण शाकटायन शब्दानुशासन के सशोधित तथा सभेदत बहुत कुछ परिवर्धित संस्करण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

इस प्रकार के अनुकरण से उत्पन्न होने वाली हैमव्याकरण के गणपाठ की पाल्यकीर्ति के व्याकरण के गणपाठ से एकात्मकता का पर्याप्त निदर्शन हो जाता है। इतना हीन पर भी हैम गणपाठ में अपनी कुछ विशेषताये हैं। उन्हें हम यहाँ उपस्थित करते हैं।

नए गण-अपन प्राचीन वैयाकरणा की पद्धति को आगे बढ़ाते हुए हेमचन्द्र ने भी कुछ नए गणा की उद्भावना की है। यथा—पाणिनि के सायचिरप्राह्ण^३ सूत्र का दृष्टि में रख कर सायाद्वादि^४ चतुर्थी

१ द्र० सिल्स आफ् संस्कृत ग्रामर पृ० ७३।

२ Especially in regard to शाकटायनशब्दानुशासन and the अमोघवृत्ति his dependence is so close as to amount to almost slavish imitation सिल्स आफ् संस्कृत ग्रामर पृ० ७६।

३ पा० ४।३।२३॥

४ हे० ३।१।५३॥

तदर्थार्थ' सूत्र के लिये पाल्यकीर्ति निर्धारित अर्थादि^१ गण के स्थान पर उसका नाम बदल कर हितादि^२ तथा 'अतन्तावसथ'^३ सूत्र के लिये भेषजादि गण^४ का निर्धारण द्रष्टव्य है।

एक गण के दो गण—पाणिनि के पुष्करादि तथा अजादि इन दो गणों में तथा इसी प्रकार कस्कादिगण को भ्रातुष्पुत्रादि तथा कस्कादि^५ इन दो गणों में विभाजन करना भी हेमचन्द्र की अपनी सूझ है।

गणपाठ में अन्य मत प्रदर्शन—हेमचन्द्र ने सूत्रपाठ के समान गणपाठ में भी अपने से प्राचीन वैयाकरणों के मतों को अपरः, परः, इति कश्चित्, तथा एके जैसे शब्दों से उपस्थित किया है।

पाठान्तरों का संकलन—अपने से प्राचीन आचार्यों के गणपाठों में मिलने वाले एक ही शब्द के विभिन्न पाठभेदों को, प्रायः सर्वत्र पृथक् स्वतन्त्र शब्द के रूप में हेमचन्द्र ने अपने गणपाठ में स्थान दिया है। यह प्रवृत्ति जैनेन्द्र, शाकटायन तथा भोज द्वारा निर्धारित गणपाठों में भी पायी जाती है। इस प्रक्रिया के कारण इनके गणपाठ का कलेवर बहुत कुछ बड़ा हो गया है।

इस स्थिति के उदाहरण के रूप में कुछ स्थल उपस्थित किये जा रहे हैं। कुर्वादि गण में वामन स्वीकृत पाठ मति है तथा पाल्यकीर्ति का पाठ मतिमत है। परन्तु हेम गणपाठ में ये दोनों शब्द मिलते हैं। पक्षादिगण में काशिका सम्मत पाठ चित्र है। जैनेन्द्र व्याकरण के गणपाठ में चित्रा है। पाल्यकीर्ति के गणपाठ में पाकचित्र पाठ है, परन्तु हेमचन्द्र ने अपने गणपाठ में 'चित्रा' तथा 'पाकचित्र' दोनों ही शब्दों को सप्रहात्मक ढंग से स्थान दिया है। इसी तरह मध्वादि गण में काशिका का पाठ तक्षशिला है, तथा पाल्यकीर्ति का अक्षशिला पाठ है। परन्तु हेमचन्द्र के गणपाठ में तक्षशिला, अक्षशिला तथा अक्षशिली ये तीन शब्द पठित मिलते हैं।

संगृहीत विगृहीत पाठ—इसके अतिरिक्त हेम गणपाठ में एक शब्द के संगृहीत (=समुदायरूप) तथा दो तीन खण्डों में विगृहीत (=विभक्त)

१. पा० २।२।३६ ॥

३. हे० ३।१।७१ ॥

५. हे० ७।२।१६४ ॥

२. शा० २।१।३६ ॥

४. पा० ५।४।२३ ॥

नवीन गणों का निर्देश—भोज के गणपाठ विषयक पाठभेदों को तो वर्धमान अपनी गणरत्नमहोदधि में अन्य वैयाकरणों के साथ साथ अत्यधिक सम्मानपूर्वक उपस्थित करता ही है, साथ ही है भोज द्वारा निर्धारित नवीन गणों—किंशुकादि, वृन्दारकादि, मतल्लिकादि तथा रसूच्यादि की व्याख्या करते हुए उनकी ओर हमारा ध्यान भी आकृष्ट करता है।^१

सम्भवतः भोज के द्वारा आविष्कृत नये जयादिगण^२ का अनुकरण हेमचन्द्र ने अपने गणपाठ में किया है,^३ जिसका प्रदर्शन क्षीरस्वामी ने अपने अमर 'कोशोद्घाटन' टीका में अनेकधा किया है।^४

वार्तिक गणों का पाठ—चन्द्रगोमी के अनुकरण पर भोज ने पाणिनि के गणपाठ को पर्याप्त परिवर्तित तथा परिवर्धित रूप में स्वीकार किया है। कात्यायन द्वारा वार्तिकों में निर्दिष्ट गणों का पाठ भी भोज के सूत्रों में मिल जाता है।

गणों के नामान्तर—चन्द्रगोमी प्रदत्त बह्वादि का शोणादि तथा अप्रूपादि का यूपदि नाम देखते हुए भोज ने भी क्रमशः शोण तथा यूप को तत्सम्बद्ध सूत्रों^५ में प्रथम स्थान दिया है।

स्वतन्त्र मार्ग का अनुसरण—कही कही भोज ने चन्द्रगोमी के मार्ग को छोड़ कर किसी नये मार्ग का भी आविष्करण किया है। यथा—व्रीह्यादि-गण के, कात्यायन के अनुकरण पर, चन्द्रगोमी द्वारा प्रदर्शित त्रिधा विभाग को भोज ने नहीं अपनाया उसने व्रीह्यादिगण में पठित शिखा आदि शब्दों को पुष्करादि गण^६ में तथा कर्म और चर्म शब्द को बल्लादि गण^७ में पढ़ कर सक्षेप का अपना एक अलग मार्ग प्रदर्शित किया है।

पाठान्तरों का स्वीकरण—कही कही प्राचीन विभिन्न आचार्यों द्वारा स्वीकृत एक शब्द के विभिन्न पाठभेदों को पृथक् पृथक् स्वतन्त्र शब्दों के रूप में स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति भोज में भी पायी जाती है। जैसे कुर्वादि

१ द्र० गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ ८३-८६ । २. भो० ७ । ३ । ६२ ॥

३ ह० २ । २ । १०५ ॥

४. अम० पृष्ठ० ७७ ८७, १२७ ॥

५. द्र० भो० २ । ४ । ७२, ४ । ४ । १८८ ॥

६ द्र० भो० ५ । २ । १६०-१६२ ॥ ७ द्र० भो० ५ । २ । १६३-१६४ ॥

गण मे काशिका-स्वीकृत पाठ मुर है। चान्द्र व्याकरण मे इसके स्थान मे पुर पाया जाता है। परन्तु भोज के इस गण^१ मे मुर तथा पुर दोनो ही शब्द पाये जाते हैं।

आकृतिगणों में शब्दवृद्धि—भोज के गणपाठ मे भी अन्य अर्वाचीन वैयाकरणो क समान आकृतिगणो मे शब्दा की पर्याप्त परिवृद्धि पाई जाती है। उदाहरण के लिये स्त्रादि^२ चादि^३ मयूरव्यसकादि^४ जैसे गणमम्बन्धी सूत्रा को देखा जा सकता है।

गणसूत्रो का स्वतन्त्र सूत्रीकरण—पाणिनीय गणपाठ मे मिलने वाले गणसूत्रा को स्वतन्त्र सूत्रो के रूप मे प्रतिष्ठित करने की प्रवृत्ति भोज के व्याकरण मे भी पाई जाती है।

वैयाकरण वामन तथा उसका गणपाठ

आचार्य वामन ने जिस व्याकरण की रचना की थी, उसका नाम विश्रान्तविद्याधर था। इस आचार्य वामन का उल्लेख हमचन्द्र^५ तथा वर्धमान^६ ने अपने अपने ग्रन्था मे किया है। इस विश्रान्तविद्याधर^७ व्याकरण की एक व्याख्या मल्लवादी ने की थी जिसका नाम न्यास^८ था। यह व्याकरण सम्प्रति अनुपलब्ध है परन्तु इस व्याकरण के गणपाठ की उपादेयता का निश्चय वर्धमान द्वारा अनेक स्थलो पर समम्मान उद्धृत किये गये वामन के गणपाठ के विभिन्न पाठभेदो तथा मतो से हो जाता है। वामन द्वारा निवारित नये वेदारादि गण के शब्दो का उपसंख्यान तथा व्याख्या करते हुए वेदारादी वामनाचार्यद्वष्टे इस प्रकार के प्रतिष्ठासूचक वाक्य से वर्धमान ने उस गण की समाप्ति की है।^९ इसस आचार्य वामन के वैशिष्ट्य का भले प्रकार परिचय मिलता है।

१ द्र० भो० ४।४।१४४-१५३ ॥ २ भो० १।१।१७६-१७८ ॥

३ भा० १।१।११८-१२६ ॥ ४ भा० ३।२।१०६-१२१ ॥

५ द्र०—संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ ४३१।

६ द्र०—वामना विश्रान्तविद्याधरव्याकरणकृता। गणरत्नमहोदधि पृष्ठ २।

७ द्र०—शब्दशास्त्रे च विद्यान्तविद्याधरपराभिधे।

८ यासंचक्रऽल्पधीऽन्दोऽधनाय स्फुगार्थकम् ॥

संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ४३१।

९ गणरत्नमहोदधि पृष्ठ १६५, श्लोक २५८।

इसी प्रकार पाणिनि के शृण्डिकादि गण के प्रथम शब्द के स्वरूप के विषय में वर्धमान के शृण्डिका ग्रामः अभिजनोऽस्य शौण्डिन्यः । अयं वामनमताभिप्रायः । पाणिन्याद्यस्तु शृण्डिकस्य ग्रामजनपदवाचिनः शा-
 ण्डिन्य इत्युदाहरन्ति कथन^१ से पाणिनि तथा वामन के दो परस्पर विरोधी विचारों का भी पता लगता है । इससे अधिक वामन के गणपाठ के विषय हमें कुछ भी परिचय नहीं है ।

भद्रेश्वर तथा उसका गणपाठ

वर्धमान के प्रवरदीपककर्तृयुक्ता^२ श्लोक की उमी के द्वारा की गयी दीपककर्त्ता भद्रेश्वरसूरिः । प्रवरश्चासौ दीपककर्त्ता च प्रवरदीपक-
 कर्त्ता । प्राधान्यं चास्याधुनिकवैयाकरणेष्वेक्षया^३ व्याख्या से जहाँ हमें यह पता लगता है कि भद्रेश्वर सूरि ने 'दीपक' नामक किसी व्याकरण की रचना की थी, वहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह भद्रेश्वर सूरि वर्धमान की दृष्टि में आधुनिक होता हुआ भी तत्कालीन वैयाकरणों में अत्यधिक प्रतिष्ठित था । अत एव उसके लिये 'प्रवर' विशेषण लगाना वर्धमान को आवश्यक जान पड़ा । मातृवीय धातुवृत्ति में 'श्रीभद्र' के नाम से उद्धृत व्याकरण-विषयक अनेक मतों के श्रीभद्रेश्वर सूरि के व्याकरण से सम्बद्ध होने की सम्भावना श्री ५० युधिष्ठिरजी मीमांसक ने उपस्थित की है ।^४

इस भद्रेश्वर सूरि के गणपाठ के विषय में इतना ही पता लग सका है कि इस गणपाठ में पाणिनि के प्रियादि गण का नाम लाघव की दृष्टि से स्त्रादि गण रखा गया था, तथा गण के प्रारम्भ में प्रिया शब्द के स्थान पर स्त्रा शब्द को स्थान दिया गया था । इसकी सूचना हमें वर्धमान की गणरत्न-महोदधि^५ तथा पाणिनीय गणपाठ के हस्तलेख न० ३ में मिलने वाले प्रियादि गण विषयक उल्लेख—

भद्रेश्वराचार्यस्तु—

किंच स्त्रा दुर्भगा कास्ता रक्षान्तनिचितासमाः ।
 सचिवा चपला भक्तिर्यालयेति स्वादयो दश ।

१ गणरत्नमहोदधि पृष्ठ २०४ ।

२ गणरत्नमहोदधि पृष्ठ २ ।

३ गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ २ ।

४ संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग १ पृष्ठ ४४८ ।

५ गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ ६८ ।

स मिलती है। पाणिनि के 'प्रियादि' नाम के स्थान पर मिलने वाला यह स्वादि नाम सम्भवतः भद्रेश्वराचार्य द्वारा ही निर्धारित किया गया होगा क्योंकि सम्प्रति उपलब्ध किसी भी वैयाकरण के गणपाठ में प्रियादि गण का यह नाम हमें कहीं उपलब्ध नहीं हुआ।

इसमें अधिक इस वैयाकरण के व्याकरण तथा तत्सम्बद्ध गणपाठ के विषय में अब तक हम कुछ नहीं जान सके।

अरुणदत्त का गणपाठ

अरुणदत्त के अभिप्रायानुसार वर्धमान ने अपने 'अर्धचादि' गण में शब्दों की एक विस्तृत सूची उपस्थित की है।^१ अतः यह सभावना की जा सकती है कि अरुणदत्त ने भी किसी गणपाठ का निर्धारण किया था। यह गणपाठ सम्प्रति अनुपलब्ध है। 'अष्टागहृदय' का व्याख्याता सम्भवतः यही अरुणदत्त है।

वर्धमान तथा उसकी गणरत्नमहोदधि

११५० ईस्वी में^२ किसी अज्ञात व्याकरण से सम्बन्ध रखने वाले गणपाठ के गब्दा का छन्दोबद्ध संकलन एवं उसकी विस्तृत व्याख्या के रूप में वर्धमान ने अपने महान् एवं अनुपम गणरत्नमहोदधि नामक ग्रन्थ की रचना की। वर्धमान ने इस ग्रन्थ के मूल श्लोको तथा विशेष कर व्याख्या में अपने से प्राचीन सभी वैयाकरणा के उन-उन शब्द-विषयक विभिन्न सभी पाठभेदों तथा मतों को यथावसर प्रस्तुत किया है। इनमें—

१-बृहद्वैयाकरण	६-अभयनन्दी
२-द्रुमि(वि)ह वैयाकरण	७-शकटाङ्गज (पाल्यकीर्ति)
३-पाणिनि	८-रामन
४-चन्द्रगोमी	९-श्रीभोज
५-पाराशरिणिक विद्वान्	१०-हेमचन्द्र

१ अरुणदत्त भिन्नार्थीन दशिता । गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ ६४ श्लोक ७७ की व्याख्या के अन्त में ।

२ सप्तमस्यधिकध्वजायामु शतध्वतीतेषु ।

पाणिनीयविक्रमो गणरत्नमहोदधिनिहित ॥ गणरत्नमहोदधि पृष्ठ २५१ ।

११-रत्नमति

१३-भट्टेश्वर

१२-अरुणदत्त

इन वैयाकरणों के नामोल्लेख पूर्वक स्पष्ट निर्देश विशेष महत्त्व के है। इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य वैयाकरणों को एके, कश्चित् आदि सर्वनामों से स्मरण किया गया है।

इसकी टीका में वर्धमान ने स्वसबद्ध व्याकरण के अनुसार उन उन गणमन्वन्वी सूत्रों का निर्देश, शब्दों के विस्तृत अर्थ, उनके लिये विभिन्न ग्रन्थों के तथा कही स्वरचित प्रयोग, विशिष्ट शब्दों के तत्तद् गणों में पड़े जाने के प्रयोजन पर विचार तथा गणसूत्रों की व्याख्या आदि आदि प्रसंग अत्यन्त विद्वत्ता के साथ उपस्थित किये हैं। वास्तविकता तो यह है कि संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में गणपाठ के साथ की गयी अत्यधिक उपेक्षा का सर्वथा सन्तोषप्रद उत्तर अपने इस अनुपम ग्रन्थ द्वारा वर्धमान ने दिया है।

कात्यायन द्वारा निर्धारित गणों का स्त्रीकरण-पाणिनीय गणपाठ में पठित गणों के साथ साथ कात्यायन की वार्तिकों में सन्निविष्ट निम्न गणों को वर्धमान ने सर्वथा अभिन्न रूप में अपनाया है। यह दूसरी बात है कि वर्धमान ने इन गणों की शब्दसम्पत्ति में यथेष्ट परिवृद्धि की है। वे गण ये हैं—

१-अहरादि पत्यादि^१

७-अध्यात्मादि^७

२-कुङ्कुटाण्डादि^२

८-देवासुरादि^८

३-गिरिनद्यादि^३

९-स्वर्गादि^९

४-आद्यादि^४

१०-सुस्नातादि^{१०}

५-कम्बोजादि^५

११-पारदारदिगण^{११}

६-खलादि^६

१२-प्रभूतादिगण^{१२}

१ गणरत्नमहोदधि पृष्ठ २६।

२ वही पृष्ठ १०६।

५ वही, पृष्ठ १३५।

७ वही पृष्ठ १८६, १८७।

८ वही, पृष्ठ २०६।

११ वही, पृष्ठ २१२।

२ वही, पृष्ठ ६७, ६८।

४ वही, पृष्ठ १२२, १२३।

६ वही, पृष्ठ १६६।

८ वही पृष्ठ २०३।

१० वही, पृष्ठ २११, २१२।

१२ वही, पृष्ठ २१२।

१३-सम्पादादि^१

१४-मूलविभुजादि^२

कात्यायन के कुछ गणों का नाम परिवर्तन—कात्यायन द्वारा निर्वा-
रित एव अपने वार्तिकों में सन्निवेशित, कुछ गणों के नामों को वर्धमान ने
बदला भी है। यथा—क्षिपकादि के स्थान पर यडादिगण^३ तथा पुण्याह-
वाचनादि के स्थान पर स्वस्तिवाचनादि।^४

कात्यायन की वार्तिकों की दृष्टि से नये गणों का निर्धारण—इसके
अतिरिक्त कात्यायन की कुछ वार्तिकों की दृष्टि से नये गणों का भी निर्धारण
वर्धमान ने किया है। यथा—आहृतप्रकरणे वारिजगल०^५ तथा अजप
थशकु०^६ इन दो वार्तिकों की दृष्टि से नये अजादि^७ गण का निर्धारण।

पाणिनि के दीर्घकाय सूत्रों की दृष्टि से नये गणों की कल्पना—
पाणिनि के कुछ दीर्घकाय सूत्रों की दृष्टि से भी कुछ नये गणों की कल्पना
वर्धमान की गणरत्नमहोदधि में साकार हुई है। यथा—जानपदकुरडगोण०^८
इम वटे सूत्र के लिये कुरडडादि पात्रादि^९ का निर्धारण, ज्योतिर्जनपद०^{१०} के
लिये शाकटायननिर्वास्ति धर्मादिगण के स्थान पर पक्षादि गण^{११} तथा इसी
प्रकार पाणिनि के असन्दीघदृष्टीवत्०^{१२} तथा उदन्वानुदधां च^{१३} के स्थान
पर उदन्वादिगण^{१३} की कल्पना द्रष्टव्य है।

चन्द्रगोमी निर्धारित गणों का स्वीकरण—आचार्य चन्द्रगोमी के
गणपाठ का भी वर्धमान ने पर्याप्त अनुकरण किया है। चान्द्र गणपाठ के
द्वारा निर्वास्ति जिन गणों को वर्धमान ने अभिन्न रूप में अपना लिया है,
वे निम्न प्रकार हैं—

१ गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ २४६, २४८ । २ वही पृष्ठ २५१ ।

३ वही, पृष्ठ ५० ।

४ वही, पृष्ठ २०६ २१० ।

५ महा० ५ । १ । ७७ ।

६ गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ २०७ ।

७ पा० ४ । १ । ४२ ॥

८ गणरत्नमहोदधि पृष्ठ ४६, ५० ।

९ पा० ६ । ३ । ८५ ॥

१० गणरत्नमहोदधि पृष्ठ १०६ ।

११ पा० ८ । २ । १० ॥

१२ पा० ८ । २ । १३ ॥

१३ गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ २३१ ।

१-नभ्राडादि गण।^१

५-ज्योत्स्नादि गण।^५

२-रूपादि गण।^२

६-कृष्यादि गण।^६

३-ऋत्वादि गण।^३

७-ऊपादि गण।^७

४-चूडादि गण।^४

चन्द्रगोमी के कुछ गणों का नाम परिवर्तन—परन्तु इसके साथ ही चन्द्रगोमी के कल्पादि को ब्रह्मादि^८ नाम देकर, तथा केशादि को, सभवत हेमचन्द्र के अनुकरण^९ पर मरुपादि नाम देकर वर्धमान ने अपनी गणरत्न महोदधि में प्रतिष्ठित किया है।

शाकटायन तथा हेमचन्द्र के गणों का स्त्रीकरण—इसी प्रकार शाकटायन तथा हेमचन्द्र द्वारा निर्धारित भेषजादि^{११} गण को अनन्तादि^{१२} गण के रूप में तथा सशयादि^{१३} और निकटादि^{१४} गणों को अभिन्न रूप में ही वर्धमान ने अपना लिया है।

वामन तथा भोज के गणों का स्त्रीकरण—उक्त वैयाकरणों के उपरिनिर्दिष्ट गणों के साथ वामन के केदारादि^{१५} श्रीभोज के किंशुकादि,^{१६} घृन्दारकादि,^{१७} मतल्लिकादि^{१८} तथा खसूच्यादि गणों^{१९} को भी वर्धमान ने अपनी गणरत्नमहोदधि में प्रतिष्ठित किया है। अष्टाङ्गहृदय के व्याख्याता अरुणदत्त के अभिप्रायानुसार भी वर्धमान ने अर्धर्चादिगण में शब्दों की एक

१ अथ गणश्चन्द्रदुर्गावभिप्रायण । गणरत्नमहोदधि पृष्ठ १०५, १०६ ।

२ चन्द्रादिमत्त तु रूपादौ । वही पृष्ठ १०७ ।

३ वही, पृष्ठ २०७, २०८ । ४ वही, पृष्ठ २०६ ।

५ वही, पृष्ठ २२१, २२२ । ६ वही, पृष्ठ २३७, २३८ ।

७ वही पृष्ठ २३८, २३९ । ८ वही, पृष्ठ १११ ।

९ द्र० हे० ७ । २ । ४४ ॥ १० गणरत्नमहोदधि पृष्ठ २३५, २३६ ।

११ द्र० शा० ३ । ४ । १२७ हे० ७ । २ । १६४ ।

१२ गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ १२० १२१ ।

१३ वही, पृष्ठ २०७ । १४ वही, पृष्ठ २१४, २१५ ।

१५ वही, पृष्ठ १६५ । १६ वही, पृष्ठ ८३ ।

१७ वही, पृष्ठ ८५ । १८ वही, पृष्ठ ८५, ८६ ।

१९ वही पृष्ठ ८६ ।

अच्छी विस्तृत सूची दी है।^१ कस्कादि गण^२ मे सर्पिष्कुशिकका आदि शब्दो को; पारायणिक विद्वानो के मतानुमार उपस्थित करके भी वर्धमान ने उनसे अपनी असहमति दिखाई है।

✓ पाणिनि के अनेक गणों का नाम परिवर्तन—अपने से पूर्वाचार्य चन्द्र-गोमी आदि की पद्धति का अनुकरण करते हुए वर्धमान ने भी पाणिनिस्वी-कृत, अनेक गणो के नामो को परिवर्तित कर दिया है। जिनमे ये द्रष्टव्य हैं—

पाणिनि		वर्धमान
वद्वादि	का	शोणादि ^३
अश्वपत्यादि	का	धनादि ^४
सन्धिबेलादि	का	सन्ध्यादि ^५
इन्द्रजननादि	का	शिशुकन्दादि ^६
अनुप्रवचनादि	का	उत्थापनादि ^७
देवपथादि	का	अर्चादि ^८
किंशुलकादि	का	अंजनादि ^९

पाणिनि के अनेक गणों का एक गण में समावेश—इसी प्रकार पाणिनि के अनेक गणो का एक गण मे समावेश करने की प्रक्रिया भी वर्धमान की गणरत्नमहोदधि मे पर्याप्त रूप मे पाई जाती है। यथा—सिन्ध्वादि^{१०} मे तक्षशिलादि का समावेश, तालादि^{११} मे पलाशादि, बिल्वादि तथा रजतादि का, कथादि^{१२} मे शुडादि का, ब्राह्मणादि^{१३} मे पुरोहितादि का, युषादि^{१४}

१. गणरत्नमहोदधि पृष्ठ ५३-६४ । अरुणदत्तामित्राणैते दर्शिता । पृष्ठ ६४ ।

२. वही, पृष्ठ ४७-४८ ।

३. वही, पृष्ठ २४, २६ ।

४. वही, पृष्ठ १६१, १६२ ।

५. वही, पृष्ठ १६६, १६७ ।

६. वही, पृष्ठ २०३ ।

७. वही, पृष्ठ २०६ ।

८. वही, पृष्ठ १२७, १२८ ।

९. वही, पृष्ठ ६८, ६९ ।

१०. वही, पृष्ठ २०३, २०४ ।

११. वही, १६६-१६८ ।

१२. वही, १६८ ।

१३. वही पृष्ठ २२१-२२५ ।

१४. वही २२६-२२८ ।

मे उद्गुगात्रादि का, (जैनेन्द्र^१ के विपरीत) पिच्छादि^२ मे तुन्दादि का तथा यलादि^३ गण मे धीह्र्यादि गण तथा उसमे कात्यायन द्वारा प्रदर्शित शिखादि आदि अवान्तरगण का समावेश द्रष्टव्य है ।

पाणिनीय सूत्र निर्दिष्ट शब्दों का गणों में समावेश—इसके अतिरिक्त वर्धमान ने पाणिनि के सूत्रो मे निर्दिष्ट अनेक शब्दो का भी उस उम प्रसंग के गणो मे, समावेश करने का प्रयास किया है । यथा—पाणिनि के अत्रिभृगुकुत्सं^४ सूत्र मे पठित शब्दो का यस्कादि^५ गण मे समावेश तथा दामग्यादि^६ गण मे त्रिगर्तपष्ट^७ शब्द मे निर्दिष्ट शब्दो का अन्तर्भाव ।

पाणिनि के कुछ गणों का परित्याग—वर्धमान ने पाणिनि के कतिपय गणा का परित्याग भी किया है । यथा—सपत्न्यादि, प्लक्षादि, हरीतफ्यादि, रसादि । अन्य अर्वाचीन वैयाकरणो के समान वर्धमान ने भी स्वर तथा वेदविषयक गणो को छोड दिया है

पठितगणों का आकृतिगण में परिवर्तन—वर्धमान ने पाणिनीय सम्प्रदाय मे पठितगणो के रूप मे स्वीकृत किये गये अनेक गणो को आकृतिगण के रूप मे अपनाया है । इनमे शौनकादि^८, अक्षयनादि^९, दण्डादि^{१०}, अरीहणादि^{११} आदि १८ गण विशपरूपाण द्रष्टव्य है । साथ ही चन्द्रगोमी पाल्य कीर्ति, वामन तथा भोज आदि के अनेक गणो को तथा स्वनिघारित फुरडादि पात्रादि^{१२} तथा घारादि^{१३} जैसे अनेक गणो को आकृतिगण के रूप मे प्रतिष्ठित करके व्याकरण के सुबद्ध नियमो को पर्याप्त व्यापकता प्रदान की है ।

- | | |
|--|---------------------------------|
| १ द्र० वै० ४ । १ । ४३ ॥ | २ द्र० गणरत्नमहादधि पृष्ठ २३२ । |
| ३. द्र० वही, पृष्ठ २३५ । | ४. पा० २ । ४ । ६५ ॥ |
| ५ द्र० गणरत्नमहादधि, पृष्ठ ३०, ३१ । | |
| ६. द्र० वही पृष्ठ १३४ १३५ । | ७. द्र० पा० ५ । ३ । ११६ ॥ |
| ८. द्र० गणरत्नमहादधि पृष्ठ १८२ । | ९ द्र० वही पृष्ठ २१४ । |
| १०. द्र० वही पृष्ठ २११ । | |
| ११. पा० अष्टादश आकृतिगणा सदितव्या । अत्रैभ्यु नैसम्भवा प्रतिवदितम् । वही पृष्ठ १८१ । | |
| १२ वही पृष्ठ १६-५१ । | १३ द्र० वही पृष्ठ २५७ । |

इसके अतिरिक्त पाणिनि सम्प्रदाय मे आकृतिगण के रूप मे स्वीकृत मयूरव्यंसकादि^१ अथवा पृषोदरादि^२ जैसे गणो मे हूँ हूँ कर शब्दो के महान् समूह को उपस्थित करने अपने ग्रन्थ के 'गणरत्नमहोदधि' नाम को चारितार्थ करने का सफल प्रयास वर्धमान ने किया है ।

कातंत्र व्याकरण में प्राप्त गण

कालक्रम की दृष्टि से कलाप अथवा कातन्त्र व्याकरण का समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी होने के कारण इस व्याकरण को पाणिनि के पश्चात् ही स्थान दिया जाना चाहिये था, परन्तु इसकी पर्याप्त सन्निप्पना तथा इसमे विद्यमान गणो की न्यूनता के कारण इस के त्रिपय मे यहा कुछ कहना अधिक उचित जान पडा ।

डा० बर्नेल ने पाणिनि के सात सूत्रो^३ का सम्बन्ध जिन मे प्राचाम् शब्द का प्रयोग किया गया हे (जिसका अर्थ प्राक्कालीन वैयाकरण है, न कि प्राची दिशा के वैयाकरण) ऐन्द्र व्याकरण से स्थापित किया हे । साथ ही कातन्त्र व्याकरण मे 'प्राचाम्' पदरहित इन सात सूत्रो की सत्ता दिखाकर कातन्त्र व्याकरण को ऐन्द्र व्याकरण का अनुयायी सिद्ध किया है ।^४ प्रसिद्ध ऐतिहासिक तारानाथ का कथन^५ भी इम बात की पुष्टि करता हुआ प्रतीत

१ गणरत्नमहोदधि पृष्ठ ८६-९१ । २. द्र० वही पृष्ठ १००-१०४ ।

३. अलपल्लो प्रतिषेधो प्राचा क्त्वा । पा० ३ । ४ । १८ ॥

शोणात् प्राचाम् । पा० ४ । १ । ४३ ॥

प्राचामवृद्धात्किन् ऋलम् । पा० ४ । १ । १६० ॥

प्राचामुपादेरडजूञ्चौ । पा० ५ । ३ । ८० ॥

एकाञ्चप्राचाम् । पा० ५ । ३ । ९४ ॥

रायां प्राचाम् । पा० ५ । ४ । १०१ ॥

गुरोरनृतोऽनन्यस्याप्येवैकस्य प्राचाम् । पा० ८ । २ । ८६ ॥

४ द्र० ग्रान दी ऐन्द्रस्कृत आफ सख्त प्रमेरियन्स, पृष्ठ २४, तथा उससे आगे ।

५. द्र० दी र्शिष्टयन एन्टिकरी, अप्रैल १८७५, पृष्ठ १०२, तथा उससे आगे ।

होता है। बर्नेन की यह भी धारणा है कि ऐन्द्र व्याकरण में गणशैली का प्रयोग नहीं किया गया था।^१ परन्तु कातन्त्रव्याकरण में सम्भवतः पाणिनि से प्रभावित होने के कारण कुछ गणों के दर्शन हो जाते हैं, जिन्हें कातन्त्र-व्याकरण की सक्षिप्तता को देखते हुए पर्याप्त कहा जा सकता है।

यह कातन्त्रव्याकरण तीन भागों में विभक्त है। प्रथम भाग प्रारम्भ से लेकर आर्यात पर्यन्त, द्वितीय भाग कृदन्त तथा तृतीय भाग छन्दोविषयक है। इन में प्रथम भाग ही प्राचीन तथा मूलग्रन्थकार द्वारा रचित माना जाता है। कृदन्त भाग के रचयिता कात्यायन माने जाते हैं। कातन्त्रवृत्तिकार दुर्गासिंह ने कृदन्त के प्रारम्भ में ही—

वृत्तादिष्वदमी रूढा. न कृतिना कृता कृता ।

कात्यायनेन ते शिष्या विबुधप्रतिपत्तये ॥

इमं श्लोक को लिखकर यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि इमं अश को कात्यायन ने बाद में जोड़ा। जहाँ तक इस व्याकरण के वैदिक प्रकरण का सम्बन्ध है, ऐतिहासिकों की यह स्वीकरणीय धारणा है कि यह भाग १६ वीं शताब्दी में इस व्याकरण में जोड़ा गया।

जो कुछ भी हो, इस व्याकरण के प्रथम भाग में पाणिनि के स्त्रस्त्रादि,^२ गगादि,^३ यस्कादि,^३ विदादि,^३ कुञ्जादि,^४ वाह्लादि,^५ गगादि^६ तथा शरत्-प्रभृति^७ गण सर्वथा अभिन्न रूप में स्वीकृत हुए हैं। पाणिनि का सवादि गण भी अपने अवान्तर गण त्यदादि के साथ यहाँ दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि यहाँ शब्दपाठ का क्रम पाणिनीय क्रम से थोड़ा सा भिन्न है। क्योंकि 'किम्' शब्द को एक, द्वि आदि शब्दों में पूर्व ही यहाँ रखा गया है जबकि पाणिनि ने जान बूझ कर सर्वादि गण में उसे सब से अन्त में रखा था और इसके कारण ही पाणिनि को अपने किंसर्वनाम बहुभ्योऽद्वयादिभ्यः सूत्र^८ में 'किम्' शब्द को स्थान देना आवश्यक हो गया था। यदि किम् को द्वि आदि से पहले ही

१. ड्र० आन दी एन्द्रमूल आफ संस्कृत ग्रामेरियन्स, पृष्ठ २४।

२. कात० २।१।६६।

३. कात० ०।४।६।

४. कात० २।६।३।

५. कात० ०।६।६।

६. कात० ०।६।११।

७. कात० ०।६।४१-४२।

८. पा० ५।३।२।

स्थान देदिया होता तो उपरोक्त सूत्र मे 'किम्' शब्द को न रखते हुए इस सूत्र को लघु किया जा सकता था। इन गणों के साथ ही इसी भाग मे पाणिनि का गौरादि गण भी मिलता है परन्तु उसका नाम यहा गौरादि न हो कर नदादि^१ है।

इस व्याकरण के दूसरे-कृदन्त-भाग मे पाणिनि के नन्द्यादि,^२ ग्रहादि,^३ पचादि,^४ गम्यादि,^५ भिदादि,^६ भीमादि^७ तथा न्यङ्क्वादि^८ गण भी अपरिवर्तित रूप मे ही मिलते है।

इस व्याकरण के तृतीय भाग 'कातत्रछन्दःप्रक्रिया' मे पाणिनि के कुछ छन्दोविषयक सूत्रो की दृष्टि से कुछ नये गणो का निर्धारण किया गया है। पाणिनि के केवलमामकभागधेय०^९ सूत्र की दृष्टि से केवलादि,^{१०} कद्रकम-एडल्होश्छन्दसि^{११} की दृष्टि से कद्र्वादि,^{१२} छन्दोगौक्थिक०^{१३} की दृष्टि से छन्दोगादि^{१४} तथा मंत्रे सोमाश्वेन्द्रय०^{१५} की दृष्टि से सोमादि^{१६} गण का निर्धारण द्रष्टव्य है।

उपरि निर्दिष्ट गणो मे नदादि, गगादि कुञ्जादि तथा बाह्लादि को इस व्याकरण मे आकृतिगण के रूप मे माना गया है। शेष प्रतिपदपाठ या पठित गण के रूप मे देखे जाते है।

सारस्वत व्याकरण में प्राप्त गण

१२५० ईस्वी के लगभग^{१७} सम्भवतः आचार्य नरेन्द्र^{१८} ने सारस्वत सूत्रों की रचना की। जिनके आधार पर अनुभूतिस्वरूप ने अपनी सारस्वत प्रक्रिया का निर्माण किया। मत्तिष्ठना एवं लघुता की प्रतियोगिता मे इस

१. कात० २।४।५० ॥

३. कात० ४।२।५० ॥

५. कात० ४।४।६८ ॥

७. कात० ४।६।५१ ॥

८. पा० ४।१।३० ।

११. पा० ४।१।७१ ।

१३. पा० ४।३।१२६ ॥

१५. पा० ६।३।१३१ ॥

१७. द्र० सिम्प्लिसिआफ सङ्कृत ग्रामर, पृष्ठ ६१-६२ ॥

२. कात० ४।२।४६ ॥

४. कात० ४।२।४८ ॥

६. कात० ४।५।८२ ॥

८. कात० ४।६।५७ ॥

१०. का० छ० प्र० पृष्ठ १०० ॥

१२. का० छ० प्र० पृष्ठ १०२ ॥

१४. का० छ० प्र० पृष्ठ ११६ ॥

१६. का० छ० प्र० पृष्ठ १४८ ॥

१८-वही, पृष्ठ ६५ ।

व्याकरण ने जैनेन्द्र कातन्त्र तथा मुग्धबोध जैसे व्याकरणों को भी जिनकी रचना का एकमात्र उद्देश्य ही पाणिनि की अष्टाध्यायी को यथासम्भव मन्थित एव मशोदित रूप में उपस्थित करना था पीछे रख दिया। ऐसा झमलिये कहना पड़ रहा है कि अपनी सारी बुद्धि तथा उपायों को प्रयोग में लाने के उपरान्त भी इन व्याकरणों के प्रवक्ता विद्वानों का क्रमशः ३००० १४०० तथा १२०० सूत्रों से कम में कार्य न चल सका जब कि सारस्वत व्याकरण के प्रतिपादक ने केवल ७०० सूत्रों के आधार पर ही अपने व्याकरण का पूरा ढाँचा तैयार कर लिया। पाणिनि के ४००० सूत्रों से तुलना करने पर तो यह सच्चिदना एक आश्चर्य का रूप धारण कर लेती है। डॉ० वेल्वाल्कर ने सारस्वत सूत्रों की इस न्यूनता को देखते हुए कातन्त्र व्याकरण के समान सारस्वत व्याकरण की रचना को भी तत्कालीन एक निश्चित आवश्यकता का परिणाम माना है।^१

अपनी इस विशिष्ट मन्थित शैली की दृष्टि से यह स्वाभाविक ही था कि पाणिनि के बहुत से गण इस व्याकरण के गणपाठ में स्थान न पा सकते। पुनरपि यहाँ सवादि गण^२ एक गण में समाविष्ट होकर स्वरदि^३ तथा चादि गण,^४ कात्यायन द्वारा उपसर्गात्^५ अत् और अन्तर् शब्द तथा आबिस^६ शब्द से युक्त प्रादि गण^७ तथा कात्यायन के सम्भस्त्राजिनशाण् पिण्डेभ्य फलात्^८ इत्यादि वार्तिकों के उदाहरणभूत शब्दों के मान अजादि गण^९ द्रष्टव्य है।

इनके अतिरिक्त पाणिनि के व गण जो सर्वथा अभिन्न रूप में ही अपना लिये गये हैं वे ये हैं —

१-क्रौड्यादि गण^१

२-पात्रेसमितादि गण^{१०}

१ द्र० सि० ५० ७।२२।

२ सि० ५० ७।२२।

३ वही १४।१।

४ वही १४।२।

५ द्र० महा० १।४।५६।

६ सि० ५० १४।३।

७ महा० ४।१।६४।

८ वही, १५।५५।

९ वही, १५।५५।

१० वही १७।२१।

३-शरादि गण ^१	१०-पीलयादिगण ^{१०}
४-अजिरादि गण ^२	११-कर्णादि गण ^{११}
५-अर्धर्चादि गण ^३	१२-यवादि गण ^{१२}
६-शिजादि गण ^४	१३-लोभादि गण ^{१३}
७-वाह्यादि गण ^५	१४-पामादि गण ^{१४}
८-गर्गादि गण ^६	१५-पिच्छादि गण ^{१५}
९-नडादिगण ^७	१६-द्वारादि गण ^{१६}

पाणिनि के कुछ गण अपने परिवर्तित नाम के साथ यहाँ भी देखे जासकते हैं। यथा गौरादि को नदादि, "वाह्यादि को पद्धत्यादि," सपत्न्यादि को पत्न्यादि "शुभ्रादि को अज्यादि" तथा व्रीह्यादि को तडिदादि^{१५} के रूप में यहाँ के गणपाठ में प्रस्तुत किया गया है।

सारस्वतव्याकरणकार ने भी पाणिनि के कुछ सूत्रों के आधार पर, नये गणों का निर्धारण किया है। यथा इन्द्रवरुणमजशर्व^{१६} की दृष्टि से इन्द्रादि,^{१७} जानपदकुण्ड^{१८} के लिये जानपदादि^{१९} गण द्रष्टव्य है। ये दो गण सारस्वतकार से पूर्व के आचार्यों के व्याकरण में भी मिल जाते हैं, परन्तु पूतकनोरे च,^{२०} वृषाकप्यग्नि^{२१} तथा मनोरी वा^{२२} इन सूत्रों की दृष्टि से

१ सि० न० १७।८६।

३ वही १७।१०२।

५ वही, १८।७।

७ वही १८।५०।

९ वही, १८।१०५।

११ वही, १५।१०॥

१३ वही १५।६१॥

१५ वही १८।१०५॥

१७ वही १५।१०५॥

१९ वही १५।१०५॥

२१ वही १५।१०५॥

२ वही १७।६०।

४ वही १८।५।

६ वही १८।६।

८ वही १८।१०३।

१० वही, १८।१६७।

१२ वही, १५।६२॥

१४ वही, १८।६॥

१६ पा० ४।१।४०॥

१८ पा० ४।१।४२॥

२० पा० ४।१।३६॥

२२ पा० ४।१।३८॥

मन्त्रादि^१ (आकृतिगण) तथा पितृष्वसुश्च^२ और मातृष्वसुश्च^३ की दृष्टि से पितृष्वसुश्चादि^४ गण की कल्पना सारस्वतकार की अपनी नई सूत्र है ।

पाणिनि के ज्योत्स्नातमिस्रा^० के लिये चन्द्रगोमी द्वारा निर्धारित ज्योत्स्नादि^६ गण भी यहाँ मिल जाता है । परन्तु पाणिनि के ऊपशुपिमुष्कमधोर^० इस सूत्र तथा कात्यायन की वार्तिक रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसख्यानम्^७ को दृष्टि में रख कर चन्द्रगोमी द्वारा निर्धारित ऊपादि-गण की कल्पना को यहाँ नहीं स्वीकार किया गया । पाणिनि के उपराक्त सूत्र तथा कात्यायन की वार्तिक दोना का सम्मिश्रण कर एक बड़े सूत्र— ऊपशुपिमुष्कमधुखमुखकुञ्जनगपाशुपाण्डुभ्य^८ को प्रस्तुत किया गया है ।

मुग्धबोध व्याकरण में प्राप्त गण

ईसा की लगभग १३ वीं शताब्दी के अन्त^{१०} में पाणिनि तथा कातत्रक बीच का मार्ग अपना मक्षिप्तना तथा सरज्ञता दोनों को प्रधानता देते हुए वोपदेव न मुग्धबोध व्याकरण की रचना की ।

इन व्याकरण में पाणिनि के निम्न गण अपने अपरिवर्तित रूप में ही मिलते हैं —

१-स्त्रस्रादि गण^{११}

६-रेवत्यादि गण^{१२}

२-अजादि गण^{११}

७-शिगादि गण^{१३}

३-बह्वादि गण^{१२}

८-कुञ्जादि गण^{१३}

४-गगादि गण^{१२}

९-न्यङ्न्नादि गण^{१४}

५-नडादि गण^{१२}

१ सि० च० १५ । ६३ ॥

२ पा० ४ । १ । १३२ ॥

३ पा० ४ । १ । १३४ ॥

४ सि० च० १८ । १-८ ॥

५ पा० ५ । २ । ११४ ॥

६ सि० च० १८ । १-८ ॥

७ पा० ५ । २ । १०७ ॥

८ महा० ५ । २ । १०७ ॥

९ सि० च० १८ । १-८ ॥

१० द्र० सिस्मस आफ सञ्ज्ञत प्रमर वृ० १०४-१०६ ।

११ मु० जे० सूत्र -७६ ।

१२ वही, सूत्र ४१५ ।

१३ वही सूत्र ४२० ।

१४ वही सूत्र -७६ ।

इनके अतिरिक्त कल्याण्यादि^१ शरत्प्रभृति^२ तथा द्वारादि^३ गणों का सूत्रा में ही प्रतिपदपाठ यहाँ मिलता है। पाणिनि के स्वागतादि तथा प्रियादि गण भी यहाँ सूत्रों में ही प्रतिपदपाठ के रूप में उपस्थित किये गये हैं परन्तु उनके प्रारम्भ में क्रमशः स्वङ्क^४ तथा पूरणी^५ आदि शब्दों को रख कर इनका नाम स्वङ्कादि तथा पूरण्यादि स्वीकार किया गया है।

पाणिनि के कुठ और भी गणा का नाम यहाँ बदला हुआ मिलता है। गौरादि का नदादि^६ उहवादि का शौणादि^७ तथा कुम्भपद्यादि का कुम्भादि^८ नाम इस प्रसंग में द्रष्टव्य है।

पाणिनि के सूत्र सुधातुरकङ्क^९ तथा तत्सम्बद्ध कात्यायन की वार्तिक सुधातुव्यासपरुडनिपादचाण्डालिम्थानाम्^{१०} के आधार पर चन्द्रगोमी द्वारा निर्धारित व्यासादि गण^{११} यहाँ भी विद्यमान है।^{१२} इसी प्रकार पाणिनि के शभ्रादि गण के स्थान पर सारस्वतकार द्वारा निर्धारित नया नाम श्रय्यादि^{१३} भी यहाँ देखा जा सकता है।^{१४} साथ ही सारस्वतकार द्वारा स्वय कल्पित पितृष्वन्नादि^{१५} भी यहाँ^{१६} स्थित है।^{१७}

सम्भवतः मुग्धबोधकार द्वारा ही निर्धारित तन्वादि गण इस व्याकरण का एक विनिष्ट गण है।

यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि मुग्धबोध व्याकरण के टीकाकार दुर्गादास तथा रामतर्क वागीश न अपनी टीका में पाणिनि के सारे गणों को अतिविस्तार में प्रदर्शित किया है।

१ मु० वा० सूत्र ४०१।

२ वही सूत्र ४१८।

३ वही सूत्र ३२६।

४ वही, सूत्र ४६५।

५ पा० ८। १। ६७।

११ चा० २। ४। २१ ॥

१३ नि० ५० १८। ६ ॥

१५ सि० ५० १-। १-८ ॥

१७ वही, सूत्र ४७६।

७ वही सूत्र ३७८-३८१।

४. वही, सूत्र ४१७।

६ मु० वा० सूत्र २५७।

८ वही, सूत्र ३४८।

१० महा० ४। १। ६७।

१२ मु० वा०, सूत्र ४७६।

१४. मु० वा० सूत्र ४१५ ॥

१६ मु० वा० सूत्र ४१५।

जौमर सम्प्रदाय में गणपाठ

क्रमदीश्वर के सच्चिदस्यार नामक व्याकरण के जिसे इसके नाम के अनुसार पाणिनीय व्याकरण का अति संचिप्य रूप माना जाता है, सूत्रों में भी अनेक गणों का निर्देश मिलता है। इस सम्प्रदाय के श्री न्यायपञ्चानन नामक किसी वैयाकरण विद्वान् ने गणप्रकाश नामक ग्रन्थ की रचना भी की थी।^१

सौपन्न सम्प्रदाय में गणपाठ

डा० वेल्वाल्कर के कथन से यह पता लगता है कि सौपन्न सम्प्रदाय में श्रीकाशीश्वर नामक विद्वान् ने तत्सम्बद्ध गणपाठ का निर्धारण किया था, तथा श्रीरमाकान्त ने इस गणपाठ पर एक वृत्ति की रचना की थी।^२ इसी सम्प्रदाय की दृष्टि से श्री गणेश्वर के सुपुत्र श्री पद्मनाभदत्त ने 'पृषोदरादि वृत्ति' नामक किसी विशिष्ट ग्रन्थ की रचना १३७५ ईस्वी में की थी।^३

प्राकृत तथा पालि व्याकरणों में गणपाठ

संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र की असीम दूरी नापने वाली गणशैली ने प्राकृत तथा पालि भाषा के व्याकरण को भी इतना अधिक प्रभावित किया कि इनके व्याकरणों के विभिन्न सूत्रों में स्थान स्थान पर गणशैली का उपयोग उपलब्ध होता है।

प्राकृत-सूत्रों में गणपाठ

वररुचि के प्राकृत-सूत्रों में निम्न गण उपलब्ध होने हैं—

१-समृद्ध्यादि गण ^४	५-पानीयादि गण ^९
२-शय्यादि गण ^५	६-मुकुटादि गण ^६
३-यथादि गण ^६	७-ऋष्यादि गण ^७
४-सदादि गण ^७	८-ऋत्वादि गण ^८

१ द्र० लिट्मस ग्राम् संस्कृत गामर पृष्ठ १११ ।

२ द्र० वही, पृष्ठ वही ।

३ वही, १ । ५ ॥

४ वही १ । ११ ॥

५ वही, १ । २२ ॥

६ वही १ । २६ ।

७ प्रा० गू० १ । २ ॥

८ वही १ । १० ॥

९ वही, १ । १८ ॥

१० वही, १ । २८ ॥

१-द्वैत्यादि गण^१

१०-पौरादि गण^२

११-सौन्दर्यादि गण^३

१२-हरिद्रादि गण^४

१३-दशादि गण^५

१४-धूर्तादि गण^६

१५-अक्षादि गण^७

१६-नीडादिगण^८

१७-सेजादि गण^९

१८-यादादि गण^{१०}

१९-त्रक्रादि गण^{११}

२०-मांसादि गण^{१२}

इन गणों में निर्दिष्ट शब्दों का उल्लेख इन सूत्रों की भामहकृत प्राकृत-प्रकाश नाम्नी वृत्ति में मिलता है। इन गणों में न केवल पठित गण है, अपितु पौरादि तथा मांसादि जैसे आकृति गण भी है। इनके लिये सूत्रकार ने शब्दों का निर्धारण नहीं किया था। इसीलिये मांसादि गण की आकृतिगणता को स्वीकार करते हुए भामह ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है—

तद्यमपठितोऽपि मांसादिर्गणः। यत्र ऋचिद्वृत्तिभगभयात्
त्यज्यमानः क्रियमाणश्च विन्दुर्भजति स मांसादिषु द्रष्टव्यः ।^{१३}

मोगलान के पालि व्याकरण में गणपाठ

वररचि के समान पालि व्याकरण के सर्वश्रेष्ठ रचयिता मोगलान महा-थेर ने भी अपने व्याकरण में, जिसके सूत्र तथा वृत्ति दोनों की रचना स्वयं मोगलान ने ही आज से लगभग ७५० वर्ष पूर्व की थी।^{१४} गणशैली का पर्याप्त उपयोग किया है। इनमें बहुत से गण तो पाणिनि तथा उनके पश्चाद्भावी ससृष्ट-वैयाकरणों द्वारा ही निर्धारित हैं। अन्तर केवल इतना है कि उन्होंने पालि भाषा का चोगा पहन लिया है। वे गण ये हैं :—

१. प्रा० गू० १। ३६।	२ वही, १। ४२।
३ वही १। ४।	४ वही, २। ३०।
५ वही, २। ४४।	६ वही, ३। २४।
७ वही, ३। ३०।	८ वही, ३। ५२।
९ वही, ३। ५८।	१० वही, ४। ५।
११ वही, ४। १५।	१० वही, ४। १६।
१३. द्र० प्रा० गू० ४। १६।	
१४ द्र० पालि महाव्याकरण, भूमिका पृष्ठ ५०-५१।	

१-सद्वादि गण ^१	(सर्वादि)	५-तारकादि गण ^५
२-तिष्ठद्वादि गण ^२	(तिष्ठद्वादि)	६-कथादि गण ^६
३-पादि गण ^३	(प्रादि)	७-पिच्छादि गण ^७
४-अंगुल्यादि गण ^४		८-भिदादि गण ^८

इनमे तिष्ठद्वादि तारकादि तथा भिदादि गणो को पाणिनि के समान यहाँ भी आकृतिगण ही माना गया है ।

इनके अतिरिक्त पाणिनि के 'अप्तन्तृच्'^{१०} सूत्र के आधार पर पितादि गण,^{११} इन्द्रवरुण^{१२} के आधार मातुलादि गण,^{१३} नभ्राणपात्^{१४} के आधार पर नखादिगण,^{१५} समानस्यच्छन्दस्यमूर्द्धप्रभृत्युदकंपु^{१६} सूत्र के योगविभाग द्वारा सिद्ध किये जाने वाले शब्दो तथा ज्योतिर्जनपद्^{१७} सूत्र मे गिनाये गये शब्दो के लिये चन्द्रगोमी प्रभृति पूर्वाचार्यो द्वारा निर्धारित पक्षादि गण के अनुकरण पर पम्खादि गण,^{१८} ग्रामजनवन्धुसहायेभ्यस्तल्^{१९} के आधार पर जनादि गण,^{२०} ऊपशुपिमुक्कमधो रः^{२१} पाणिनि के सूत्र तथा इससे सम्बद्ध कात्यायन की वार्तिक रप्रकरणे समुखकुञ्जेभ्य ऊपसंख्यानम्^{२२} की दृष्टि से चन्द्रगोमी आदि वैयाकरणो द्वारा निर्धारित ऊपादि गण के स्थान पर मुरादि गण^{२३} तथा पाणिनि के शब्दधैरकलहा-अक्रवमेधेभ्यः करणे^{२४} सूत्र के आधार पर सद्वादि गण^{२५} का निर्धारण

१ मो० ग० २ । १०१ ।	२ वही, ३ । ७ ।
३ वही, ३ । १३ ।	४ वही, ४ । ३५ ।
५ वही, ४ । ४५ ।	६ वही, ४ । ७४ ।
७ वही, ४ । ८७ ।	८ वही, ५ । १५० ।
९ पा० ६ । ४ । ११ ।	१० मो० ग० २ । ४९ ।
११ पा० ४ । १ । ४० ।	१२ मो० ग० ३ । ३३ ।
१३ पा० ६ । ३ । ७५ ।	१४ मो० ग० ३ । ७६ ।
१५ पा० ६ । ३ । ८४ ।	१६ पा० ६ । ८५ ।
१७ मो० ग० ३ । ८३ ।	१८ पा० ४ । २ । ४३ ।
१९ मो० ग० ४ । ६६ ।	२० पा० ५ । २ । १०७ ।
२१ महा० ५ । २ । १०७ ।	२२ मो० ग० ४ । ३५, ८२ ।
२३ पा० ३ । १ । १७ ।	२४ मो० ग० ५ । १० ।

पालि भाषा के इस वैयाकरण ने किया है। कातन्त्र व्याकरण के अनुकरण पर पाणिनि के गौरादि गण को यहाँ भी नदादि^१ नाम देकर अपनाया गया है।

इन गणों के अतिरिक्त मोगलान ने अन्य तदिभिनादि,^२ भज्जादि,^३ हरादि^४ जैसे ३४ गणों का निर्धारण, पालि भाषा के नवीन तथा विभिन्न शब्दों के साधुत्व की दृष्टि से किया है।



१ मो० ग०, ३।२७।

३ यद्दी १।१५४।

२ यद्दी १।४७।

४ यद्दी २।५।

पंचम अध्याय

पाणिनीय गणपाठ का महत्त्व

आचार्य पाणिनि से पूर्ववर्ती विभिन्न वैयाकरणों के पूर्व प्रदर्शित गणपाठ विषयक विभिन्न निर्देशों तथा सूचनाओं से यह भले ही प्रमाणित हो जाय कि पाणिनि से पूर्व ही गणशैली से संस्कृत-व्याकरण सनाथित हो चुका था, परन्तु पाणिनि के गणपाठ के समान पूर्ण विकसित, व्यवस्थित तथा क्रम-बद्ध गणपाठ का निर्धारण पाणिनि से पूर्ववर्ती किसी अन्य वैयाकरण ने किया था, ऐसा संभव नहीं कहा जा सकता। न्यूनातिन्यून आज की इस परिस्थिति में जब कि पाणिनि से प्राचीन व्याकरण-सामग्री का सर्वथा अभाव है। इस रूप में हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पाणिनि ही वह सर्वप्रथम वैयाकरण है जिसने लौकिक तथा वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों के यथासंभव व्यवस्थित अन्वाख्यान, एवं स्वरविषयक सूक्ष्म दृष्टि से विशाल गणपाठ का निर्धारण कर उसका अपने सूत्रों में प्रचुर प्रयोग करते हुए सूत्रशैली में अपूर्व निष्णातता दिखाई।

पाणिनि के पश्चात् आने वाली वैयाकरण परम्परा ने, जैसा कि पूर्व दिखाया जा चुका है, पाणिनीय-गणपाठ के ही मूल गणों में सामान्यतया न्यूनाधिक परिवर्तन करके (जिसके लिये उन्हें कोई विशेष श्रेय नहीं दिया जा सकता,) अपने अपने गणपाठ की साम्प्रदायिक भित्ति खड़ी की है। जिनके लघु एवं अतीव सीमित प्राङ्गण में, पाणिनीय-गणपाठ के स्वर तथा वैदिक शब्दों के अन्वाख्यान सम्बन्धी गणों को स्थान नहीं मिल सका। कातन सारस्वत तथा मुग्धबोध जैसे व्याकरण सम्प्रदायों द्वारा स्वीकृत गणपाठ तो पाणिनीय गणपाठ के महानन्द के मन्त्र साधारण नामों प्रतीत होने हैं। जिनमें उमी नद की साधारण जल धारा प्रवाहित हो रही है।

मोग्गलान के पालि तथा बच्चायन (वात्स्यायन) के प्राकृत व्याकरणों के अध्ययन से पता लगना है कि पालि प्राकृत जैसी भाषाओं के व्याकरणपादों को भी, पाणिनि द्वारा प्रवाहित गणपाठ रूप इस महानन्द से ही सींचा जाता रहा है।

इस प्रकार प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी व्याकरणों को अपनी विशालता, व्यापकता एवं यथासम्भव मौलिकता की अपूर्व प्रतिभा आक्रान्त करने वाला पाणिनि का यह गणपाठ, उसकी महती कृति अष्टाध्यायी में एक और वैशिष्ट्य जोड़ देता है।

व्याकरण विषयक महत्त्व

अमुक शब्दों से ही अमुक कार्य होगा, अन्यो से नहीं, इस प्रकार की साहसपूर्ण घोषणा से अनुप्राणित, आचार्य पाणिनि के सर्वादि अथवा प्रादि जैसे पठित गण यदि इस महान् वैयाकरण का, संस्कृत वाङ्मय के सम्पूर्ण प्रदेशों से परिचय प्रस्तुत करते हैं, तो स्वरदि, तारकादि अथवा ब्राह्मणादि जैसे आकृति गण, जिनके द्वारा शब्दों की अनन्तानन्त परम्परा को सूत्रों में बाधने का सफल प्रयास किया गया है, उमी आचार्य के भाषा वैज्ञानिक व्यापक दृष्टिकोण को उपस्थित करते हैं।

शब्दों के साधुत्व की दृष्टि से अष्टाध्यायी के सूत्रों का जो मूल है अथवा उन्हें जो प्रामाणिकता दी जाती है, ठीक वही मूल्य, तथा वही प्रामाणिकता पाणिनीय-व्याकरण के व्याख्याताओं ने अनेकत्र गणपाठ को भी दी है। इस रूप में गणपाठ अष्टाध्यायी का परिशिष्ट होते हुए भी कहीं कहीं सूत्रस्थानीय होकर अपने गौरव को और भी बड़ा लेता है।

साथ ही, कुछ सूत्रों में किसी या किन्हीं विशिष्ट पद या पदों को स्थान देकर अपने विशेष अभिप्राय का ज्ञापन कराने वाली रहस्यमयी, पर साथ ही विशिष्ट प्रवृत्ति पाणिनि के गणपाठ में भी पायी जाती है। यथा—खण्डिकादि गण में चुद्रकमालय^१ शब्द, गौरादिगण में श्वन्^२ शब्द, शरत्प्रभृति में

१. द्रष्टव्य—मृजेति भिरादिपाठादह् । गणपाठादेव इद्रमभावश्च । धा० वृ०

वृ० २६१ । चुंरिति छत्रादि पाठात् अशरत्प्रत्ययो गुणाभावश्च । वडी, वृ० ३७६ ।

आरा धारा कारा भिदादिन्वादटि निपातनाद् वृद्धिः । र० मि० च०, वृ० १४६ ।

दागीदाएन्-गवन्प्रभृतिःनात् एकवद्भाव एक शेषभावश्च । धा० वृ०, वृ० ३८७ ।

२. २०, महा०, ४ । २ । ४५ ॥

३. २०, वडी, १ । ४ । २; ६ । ४ । २२ ॥

विपाट्' शब्द, युक्तारोह्यादिगण मे एकशितिपात्^३ शब्द, अश्वादिगण मे राजन्^३ शब्द, कस्कादिगण मे भ्रातुप्पुत्र^४ शब्द, सवनादिगण मे 'अश्यसनि'^५ शब्द तथा क्षुभ्नादिगण मे 'नृनमन्'^६ शब्द अथवा 'तृप्नु' शब्द के पाठ से कात्यायन तथा पतञ्जलि ने आचार्य के विभिन्न उपादेय रहस्यों का उद्बोधन कराया है।

इसके साथ ही, गणपाठ का निर्धारण अथवा सकलन विशुद्ध सस्कृत-व्याकरण की दृष्टि से किया जाने पर भी, उसमे वैदिक तथा लौकिक सस्कृत साहित्य के विभिन्न विषयो तथा ग्रन्थो के नाम तथा तत्सम्बन्धी विविध सूचनाये, पाणिनि से प्राचीन विभिन्न वैयाकरणो के नाम तथा उनके मत, तत्कालीन प्रचलित गोन नामो का विशाल सग्रह तत्कालीन जनपदो, सधो, नगरो तथा ग्रामो के नाम तथा प्रसिद्ध जगलो, पहाडो तथा नदियो के नाम मिलने के कारण गणपाठ को, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक एव सास्कृतिक दृष्टि से भी एक विशेष गौरव देना होगा। इस सम्बन्ध मे कुछ सामान्य निर्देश यहाँ दिये जाते है।

प्राचीन वैयाकरणों के नाम

तांत्वल्यादि गण मे पौष्करसादि उपकादि मे कशकृत्स्न, अरीहणादि मे काशकृत्स्न, उत्सादि मे माध्यन्दिन के पिता मध्यन्दिन तथा कौड्यादिगण मे आपिशलि तथा ध्याडि का नाम देखा जाता है। आचार्य आपिशलि की पाठशाला का निर्देश भी छत्र्यादिगण मे उपलब्ध होना है।

तत्कालीन वैदिक तथा लौकिक साहित्य का परिचय

पाणिनीय गणपाठ के शौनकादि गण मे शौनक, आर्चाभ, कठ आदि तथा वार्तकौजपादि गण मे पठित लगभग ३० शब्दो द्वारा वैदिक शाखा

१ द्र०, महा० १।१।२२ ॥

२ द्र०, वही २।१।१, पृ० ६१ ॥

३ द्र०, परि०, पृष्ठ १७६, प्रौढमनेरमा पृर्वाध ॥

४ द्र०, मश०, ८।३।४१ ॥ ५ द्र०, वही ८।३।१०१ ॥

६ द्र०, वही नवा० पृष्ठ १०८ ॥

ग्रन्थों का तथा विभिन्न चरणों का निर्देश मिलता है।^१ उक्थादि तथा व्रमादिगण मे आये पद तथा क्रम शब्द से व्रमश वेदों के पदपाठ तथा व्रमपाठ अभिप्रेत है। ऋगयानादि गण मे शिक्षा, निरक्त, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, उपनिषद्, वास्तुविद्या क्षत्रविद्या तथा अगविद्या जैसे विषयों तथा इनके व्याख्यानभूत ग्रन्थों का निर्देश पाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से इसी गण मे पठित उत्पात संप्रत्सर मुहूर्त्त तथा निमित्त शब्द और छन्द-शास्त्र की दृष्टि से छन्दोभाषा तथा छन्दो विधिति शब्द द्रष्टव्य है। व्याकरणशास्त्र की दृष्टि से उक्थादि तथा कथादि गण मे पठित गण शब्द से गण पाठ अभिप्रेत है। इन दोनों गणों मे पठित व्रमश गुण तथा गण शब्द के स्थान पर काशिका के 'गुणागुण' पाठ को शुद्ध मानकर डा० वामुदेवशरण अप्रवाल ने 'अगुण' शब्द से 'वृद्धि' का तात्पर्य निकाला है,^२ परन्तु वह सर्वथा निराधार एव निष्प्रमाण होने के कारण अस्वीकार्य है।^३ उक्थादि तथा कथादिगणों मे आयुर्वेद तथा व्रमादि गण मे मीमांसा शब्द का भी पाठ मिलता है जिससे इन विषयों के तत्कालीन पठन पाठन मे प्रचलित होने का बोध होता है।^४

गोत्रनाम

पाणिनीय गणपाठ के यस्कादि तिकवित्वादि, उपकादि कुजादि, नडादि विदादि गगादि तथा अश्वादि गणों मे अनेक गोत्र वाचक शब्दों का पाठ मिलता है। एक नाम वाले अनेक व्यक्तियों मे से यदि किसी एक व्यक्ति के निर्देश करने का अवसर प्राप्त होता है तो उसका तन्नामा अन्य व्यक्ति से अन्तर करने के लिये गोत्र नामों से निर्देश किया जाता है। ऐसा निर्देश ब्राह्मण ग्रन्थों आरण्यको उपनिषदों तथा महाभारत आदि मे अनेकत्र पाया जाता है। वौधायन आश्वलायन तथा आपस्तम्ब श्रौतसूत्रों तथा कात्यायन,

१ विशष विस्तार के लिय द्रष्टव्य—इण्डिया, एज नोन दु पाणिनि पृष्ठ ३४८।

२—इण्डिया एज नोन दु पाणिनि पृष्ठ ३४८।

३—द्र० पूव पृष्ठ ३२-३३।

४ इस प्रकरण के विस्तार के लिये देखिए ए० युधिष्ठिर जी मीमांसक वृत्त आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाङ्मय पुस्तिका तथा स० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १ पृष्ठ १६६-१६३।

लौगाक्षि के प्रवराध्यायो तथा शुक्ल यजुर्वेद परिशिष्ट, मानव प्रवराध्याय तथा मत्स्यपुराण मे इन गोत्रनामो की विस्तृत सूचियो का सकलन किया गया है। इनमे से अनेक प्रवराध्यायो के आधार पर अर्वाचीन काल मे गोत्र प्रवरमजरी नामक ग्रन्थ की रचना की गयी।

गणपाठ मे पठित बहुत से गोत्रनाम इन प्रवराध्यायो मे मौलिक रूप मे तथा बहुत से नाम, उन उन गणो द्वारा विहित विभिन्न प्रत्ययो से युक्त होकर निष्पन्न रूप मे मिलते हैं। बहुत थोडे नाम ऐसे हैं, जो इन सूचियो मे उपलब्ध नही होते। पाणिनीय-गणपाठ के समान इन गोत्र-सूत्रियो मे भी अनेक पाठभेद पाये जाते हैं। परन्तु सब के तुलनात्मक अध्ययन से शुद्ध पाठ का ठीक ठीक अनुमान प्रायः सर्वत्र किया जा सकता है।

अपने गणपाठ मे गोत्र विषयक गणो का निर्धारण करके, अन्य महा-प्रवर काण्डो के समान गोत्र नाम की अतिविस्तृत सूची उपस्थित करने वाले वैयाकरण पाणिनि के समक्ष कौनसी गोत्रसूचि विद्यमान थी, यह ठीक ठीक कह सकना तो कठिन है, पर इतना निश्चित है कि जो भी सूची थी, वह सम्प्रति उपलब्ध गोत्र विषयक उपरोक्त सूचियो से बहुत मिलती जुलती ही थी। इस धारणा की पुष्टि प्रो० जान ब्रफ^१ न पाणिनि के शरद्व्यच्छुनकद भोद् भृगुवत्साश्रायणेषु^२ तथा कपियोधादागिरसे^३ जैसे सूत्रो तथा आत्रेय भरद्वाजे^४ एव भरद्वाज आत्रेये^५ जैसे गणसूत्रो की विशिष्ट उपाधियो से युक्त उन उन प्रत्ययो से युक्त शब्दो को उपरोक्त सूचियो मे लगभग उन्ही उपाधिया तथा उन्ही उन्ही प्रत्ययो के साथ विद्यमान दिखलाकर की है।

ऐतिहासिक तथा भौगोलिक नाम

पाणिनीय गणपाठ के राजन्यादि, भोरिक्यादि तथा ऐपुकार्यादि गणो मे विभिन्न विषयो अर्थात् ग्रामो के समुदायो के नाम उल्लिखित हैं। दामन्यादि, पाश्वादि तथा यौवेयादिगणो मे तत्कालीन विभिन्न शास्त्रोपजीवी सघो के

^१ ड्र० जर्नेल आफ रायल एशियाटिक सासाइटी १६४६, पृष्ठ ४४, ४५।

तथा—५ ट्रान्स्नशन आफ गोत्र प्रवरमजरी भूमिका पृष्ठ ५^१ तथा उससे आगे।

^२ पा० ४।१।१००।

^३ पा० ४।१।१०७।

^४ श्रज्यादिगण ४।१।११०।

नाम पाये जाने हैं। कच्छादि, भर्गादि, सिन्ध्रादि तथा तक्षशिलादि जैसे गणो मे विभिन्न जनपद नामो का उल्लेख मिलता है। अरीहृणादि आदि १७ तथा उत्करादि, नडादि, वारणादि, मध्वादि, सकलादि, मुवास्त्वादि, कय्यादि, काश्यादि, गहादि, धूमादि, नद्यादि तथा पलद्यादि गणो से तत्कालीन नगरो तथा ग्रामो की पर्याप्त विस्तृत सूची प्राप्त की जासकती है। इसी प्रकार कर्क्यादि तथा भालादि गणो मे प्रस्थान्त तथा चिहृणादिगण मे कन्थान्त स्थाननामो का दिग्दर्शन हो जाता है।

अजिरादि तथा शरादिगणो मे तत्कालीन कुछ नदियो के नामो का उल्लेख ह। इनमे से अजिरवती तथा शरावती से आज के ऐतिहासिक विद्वान परिचित हो चुके हैं। किशुलकादि तथा कोटरादि गणो मे क्रमश पर्वतो तथा अरण्यो के कुछ नामो का पाठ मिलता है।

इसके अतिरिक्त पाणिनिकालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थितियो के अध्ययन मे भी अष्टाध्यायी से प्राप्त प्रचुर सामग्री के साथ साथ पाणिनीय गणपाठ से भी विद्वानो को पर्याप्त उपादेय सहायता प्राप्त होती रही है। इस प्रसंग मे ख्यातिलब्ध डा० वामुदेवशरण अग्रवाल की अनुपम पुस्तक 'पाणिनि कालीन भारत' का नाम लिया जासकता है, जिसमे मनस्वी सूक्ष्मदर्शी तथा मुनिवेचक लेखक ने इन विभिन्न विषयो पर अद्भुत प्रकाश डाला है।

षष्ठ अध्याय

पाणिनीय गणपाठ के संशोधन की समस्या

तथा

उसका समाधान

पूर्व अध्यायो मे यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सम्प्रति पूर्णरूप मे जितने भी गणपाठ उपलब्ध है, उनमे आचार्य पाणिनि का ही गणपाठ प्राचीनतम है। न केवल इतना ही अपितु पाणिनि के गणपाठ के आधार पर ही अर्वाचीन संस्कृत व्याकरणो के गणपाठो की भित्ति खडी हो सकी है अथवा दूसरे शब्दो मे पाणिनीय गणपाठ ही कुछ परिवर्तन परिवर्धन तथा न्यूनाधिक्य के साथ संस्कृत व्याकरण के अन्य सम्प्रदायो ने अपनाया है। परन्तु इतना महत्त्वपूर्ण होने हुए भी यह गणपाठ सम्प्रति दुर्भाग्यवश पाठभेदो की प्रचुरता तथा विभिन्न अपभ्रष्टताओ से नितान्त दूषित रूप मे हमारे समक्ष उपस्थित होता है। इसका एक मात्र कारण है उसके साथ की गयी उपेक्षा।

इसलिये गणपाठ के संशोधन की समस्या भी एक बहुत महत्त्वपूर्ण समस्या है। गणपाठ के सशुद्ध न रहने पर पाणिनीयसंस्कृत व्याकरण का एक बहुत बडा भाग, जो अष्टाध्यायी के सूत्रो मे तो परोक्ष रूप मे है, पर गणपाठ मे जिसे प्रत्यक्ष देखा जासका है अपरिष्कृत तथा दूषित ही रह जाना है।

पाणिनीयगणपाठ के साथ एक और भी समस्या सम्बद्ध है, और वह है इसमे पठित असंश्लेषक तथा प्रायः, आज के उपलब्ध वाङ्मय की दृष्टि से अप्रयुक्त अनेक शब्दो के अर्थो का निश्चितोकरण तथा इसमे आय गतिहासिक भांगोलिक अथवा किसी अन्य प्रकार के नाम वाले शब्दो की ठीक ठीक पहचान।

परन्तु इस समस्या का समाधान बहुत अधिक समय तथा निम्नतर परिश्रम की अपेक्षा रखता है इसलिये अभी मे इस कार्य को करने का साहस नही कर रहा हूँ, पर भविष्य मे करने का निश्चार अपश्य है। साथ ही यह समस्या गणपाठ के बचन कुछ भाग न साथ सम्बद्ध है, जबकि संशोधन की समस्या पूरे गणपाठ मे सम्बद्ध है इतना ही नही शब्दो न सशुद्ध रूप मे उपस्थित हो जाने पर ही उपर्युक्त हमारी समस्या के समाधान का अवसर

प्राप्त हो सकता है। यद्यपि अनेक अवसरो पर यह भी हो सकता है कि शब्दों के अर्थ तथा ऐतिहासिक स्थानों के ठीक ठीक पहचाने जाने पर ही शब्दों के ठीक ठीक स्वरूप का भी निश्चय किया जासके, तथापि इस स्थिति के सर्वथा अल्प होने के कारण प्रायिकता पहली वाली स्थिति को ही दी जा सकती है। इसलिये पहले गणपाठ के सशोधन की आवश्यकता है।

प्रक्षेपों तथा पाठ भेदों का प्राचुर्य

पाणिनीय-गणपाठ की कोई भी मुद्रित तथा लिखित पुस्तक सम्प्रति उपलब्ध नहीं है, जिस पर पूरा पूरा विश्वास किया जा सके तथा जिसके शब्दों की दूसरी पुस्तकों से तुलना करने पर पच्चीस प्रतिशत शब्दों के विभिन्न पाठभेद न मिल जाए। इतना ही नहीं,—पाणिनीय गणपाठ का, व्याकरण के अन्य सम्प्रदायों में मिलने वाले गणपाठों से तुलना करने पर पाठभेदों की जो भयकर स्थिति सामने आती है, उसे देखकर तो पाणिनीय गणपाठ के अनेक शब्दों के स्वरूप के विषय में ही चिन्तित शक्ति हो उठता है। वैसे संहृत की प्रायः प्रत्येक प्राचीन पुस्तक में पाठभेदों तथा प्रक्षेपों की स्थिति किसी न किसी रूप में पाई जाती है, परन्तु गणपाठ में मिलने वाले पाठभेदों की आश्चर्यजनक अविक्तता, विषमता तथा भयकरता अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती।

काशिकाकार के द्वारादिगण के विषय में, स्वाध्याय इति केचित्पठन्ति^१ इस कथन तथा पतजलि के स्वाध्याय शब्दों द्वारादिपु पठन्ते ।.....कः पुनरर्हति स्वाध्याय शब्दं द्वारादिपु पठितुम्^२ इन कथनों को मिला कर विचार करने से इस बात की सम्भावना की जासकती है कि लगभग पतजलि के समय में ही गणपाठ में प्रक्षेपों तथा पाठभेदों का प्रारम्भ हो चुका था। वात्स्यायन तथा पतजलि द्वारा महाभाष्य में कही कही गणपाठ के कुछ शब्दों की गम्भीर परीक्षा को देखते हुए उपर्युक्त सम्भावना और भी बढ जाती है। काशिकाकार के काल तक तो गणपाठ में प्रक्षेपों तथा पाठभेदों की सख्या ने एक विचारणीय समस्या का रूप धारण कर लिया जिसके उदाहरण के लिए काशिका में विद्यमान—सर्वादिगण में 'त्व' तथा 'त्नत्' का विवाद, अनुशकादि गण में 'अस्यद्वत्य' तथा 'अस्यहेति' का मतभेद, न्यङ्न्नादि

गण में क्षणोपाक इत्यादि शब्दों के अकारान्त, आकारान्त, तथा उकारान्त-तीन प्रकार के पाठ भेद, जो विभिन्न विद्वानों द्वारा स्वीकृत थे, की ओर आलोचक विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, काशिकाकार के अपने समय में विद्यमान गोपवनादि गण के प्रमाद-पाठ का निर्देश स्वयं ग्रन्थकार ने बड़े स्पष्ट रूप में किया है।^१ इसी प्रकार पूरे सवनादि गण का द्विविध पाठभेद भी काशिका में ही मिल जाता है, जो सम्भवतः दो प्रकार के विद्वानों द्वारा स्वीकृत रहा होगा।

इसके अतिरिक्त, चन्द्रगोमी के अनुकरण पर कात्यायान की वार्तिकों को, अष्टाध्यायी के सूत्रपाठ में मिलाने के प्रयत्नों के साथ साथ गणपाठ में भी मिश्रित करने की प्रवृत्ति काशिकाकार जैसे विद्वानों में स्पष्ट देखी जा सकती है।^२ इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप पाककर्ण परां^३ इस पाणिनीय सूत्र पर संभवतः कात्यायन द्वारा रचित 'सम्मैस्त्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलात्'^४ आदि तीन चार वार्तिकों को पाणिनि के अजादिगण में स्थान मिला। योपधप्रतिषेधे ह्यगवयमुकयमत्स्यमनुप्यानां अप्रतिषेधे।^५ इस वार्तिक के अनुकरण पर गौरादि गण में गवय, मुकय, मत्स्य तथा मनुप्य शब्द दिखाई देने लगे।^६ नृनराभ्यामञ्चचनम्^७ इस वार्तिक के आधार पर शाङ्गिरवादि^८ गण में 'नृनरयोर्वृद्धिश्च' गणसूत्र की रचना की गयी। गहादिषु पृथिवीमध्यस्य मध्यमभावः^९ तथा चरणसम्बन्धेन निवास लक्षणोऽणु^{१०} इन वार्तिकों की दृष्टि से गणपाठ के गहादि-गण में मध्योमध्यमं चाणु चरणे^{११} यह गण-सूत्र प्रतष्ठित हुआ। जुद्रकमालवात् सेनासंज्ञायाम्^{१२} इस वार्तिक को देखकर

१. परिशिष्टानां हरितादीनां प्रमादपाठः । का० २ । ४ । ६७ ॥
२. द्र० क्वचिदेवं गणपाठः । का० ८ । ३ । ११० ॥
३. पा० ४ । १ । ६४ ॥
४. द्र० महा० ४ । १ । ६४ ॥
५. महा० ४ । १ । ६३ ॥
६. द्र० गौरादिष्विदानीन्तनैः गवयादयः प्रज्ञिता इति वार्तिकारम्भाद् विशायने । कैयट महा० ४ । १ । ६३ ॥
७. महा० ४ । ४ । ४६ ॥
८. द्र० नागेश=अनेनैवउभयोः नार्या मिद्धाया नृनरयोर्वृद्धिश्चेति गणसूत्रम-नार्याम् ।
९. महा० ४ । २ । १३८ ॥
१०. द्र० नागेश-अने तु गणसूत्रमनार्याम्, पृथिवीमध्यशब्दस्यैव मध्यमादेश इत्याहुः । महा० ४ । २ । १३८ ॥
११. महा० ४ । २ । ४५ ॥
१२. महा० ४ । २ । ४५ ॥

खण्डिकादि गण मे लुद्रकमालव शब्दा क साथ सेनासहायाम् की उपाधि जोडकर उसे गणसून मान लिया गया ।^१ ह्य प्रकरणे विशिपूरिपदिरुहि प्रकृतरनात् सपूर्वपदात्^२ इस वार्तिक क आधार पर अनुप्रयचनादि गण मे सवशन प्रवेशन अनुप्रवेशन अनुवशन तथा अन्वारोहण जैसे शब्दा को साम्मलित किया गया । इसी प्रकार ग्रामान्य^३ इम उपसरयान को दखकर कत्यादि गण मे ग्राम शब्द को प्रतिष्ठित कर लिया गया । इस प्रकार के अन्य अनेक परिवर्धन तथा परिवर्तन ए। न कवल इतना ही अपितु पाणिनि से अवाचीन वैयाकरण चन्द्रगामिन् के अपने सून वेणुकादिभ्यश्छुण्^४ को पाणिनि क गणपाठ मे गणसून के रूप मे स्थान दिये जान के तथ्य का उद्धाटन विद्वानो ने किया ह ।^५

काशिकाकार के बाद आने वाली पाणिनीय व्याकरण के व्याख्याताआ तथा टीकाकारो की पीढी ने भन्ने ही आखे मीच कर इन मिश्रणो को स्वी कार कर लिया हो परन्तु जागरूक व्याख्याता नगेशभट्ट ने उरोक्त अनेक स्थला पर महाभाष्य मे इन मिश्रणा की अप्रामाणिकता तथा अपाणिनीयता की ओर विद्वानो का ध्यान आकृष्ट किया है । पाणिनि से इतर व्याकरण सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापको ने तो चन्द्रगोमी तथा क काशिकाकार की उपरि निर्दिष्ट पद्धति को अधिकाधिक अपनाया है । इसी कारण पाल्यकीर्ति (शाक टायन) श्रीभोज हेमचन्द्र और वर्धमान के गणपाठो मे उत्तरोत्तर अविका धिव वृद्धि होती गयी है । इस रूप मे पाणिनीय तथा अपाणिनीय सम्प्र दायो के गणपाठो का आपस मे इतना अधिक घोलमाल हुआ है कि पाणिनीय गणपाठ की कोई भी प्रामाणिक पुस्तक आज दृष्टिगोचर नही होती । इस घोलमाल का ही यह परिणाम है कि पतञ्जलि की इच्छा क विपरीत और काशिकाकार क स्पष्ट विराध^६ हान पर भी पारायणिक विद्वाना द्वारा कस्वादि

१ नागश गण लुद्रकमालव इयत्र पाठा वार्तिकत्रलात् इति साम्प्रदायिका ।

महा० ४ । २ । ४५ ॥

२ महा० ५ । १ । ११ ॥

३ महा० ४ । २ । ६५ ॥

४ पा० ३ । २ । ६१ ॥

५ द्र० सिम्भस आक ससृत्त ग्रामर पृष्ठ ३८ पाठ विषय सख्या १ ।

६ द्र० सर्पिःपुष्टिका धनुष्कपालन् बहिष्पूलन् यतुष्यात्रमियतया पाठ उत्तर

मे पठित सर्पिष्कुण्डिका आदि चार शब्द आज तक भी गणपाठ की पुस्तको तथा हस्तलेखो मे स्थान पाते आरहे हैं ।

गणपाठ की दुरवस्था का कारण ?

पाणिनीय गणपाठ मे इस प्रकार के भयकर पाठभेदो तथा प्रक्षेपो मे उत्पन्न दुरवस्था का कारण सम्भवन यह जान पडता है कि प्रत्येक गण मे कितने शब्द गणकार को अभिप्रेत थे, इसके परिज्ञान के लिये उनको कोई स्पष्ट निर्देश नही किया । जैसा कि पूर्व बताया गया है पठित गणो मे समाप्ति वाचक पारिभाषिक 'वृत्' शब्द क संयोजन की प्रक्रिया गणकार द्वारा अपनायी गयी परन्तु यह वृत्करण भी उन गणो की सुरक्षा करन मे सर्वथा असमर्थ रहा, क्योंकि उत्तरकाल मे वृत्करण के प्राय उत्सन्न हो जाने से उत्तरवर्ती विद्वानो के पास यह जानने का कोई साधन नही रहा कि गणकार ने किस शब्द के पश्चात् वृत् शब्द को रख कर उन पठित गण का द्वारबन्द किया था । इतना ही नही मिलाने काल यथेष्ट शब्दो को मिलाकर भी अन्तिम शब्द के बाद 'वृत्' को स्थान दे सकते थे । सम्भवत यही कारण है कि वृत्करण की प्रक्रिया पठितगणो मे भी सर्वत्र नही पायी जाती ।

इसके अतिरिक्त एक बहुत स्पष्ट तथा प्रमुख कारण यह जान पडता है कि गणपाठ के प्रति पाणिनीय सम्प्रदाय के अध्यापका व्याख्याताओ तथा टीकाकारो का, सम्भवत सदा से ही पर्याप्त उपेक्षित दृष्टिकोण रहा है । हरदत्त के लेख से यह पता लगता है कि काशिका मे प्राचीन वृत्तिया मे गणपाठ को स्थान नही दिया जाता था ।^१ कुछ विद्वानो ने इधर थोडा बहुत ध्यान देकर गणपाठ की वृत्ति अथवा व्याख्या की रचना की भी तो, विद्वानो की दृष्टि से उपेक्षित रहने के कारण आज उनका अस्तित्व भी इतनत प्राप्त दो एक उद्धरणो के रूप मे उपलब्ध हो पाता है । इस विषय मे यथा स्थान पर सूचनाये दी जा चुकी है ।

पदस्थस्यापि यत्र यथा न्यादिति, परमसर्पि फलमित्थन्मादिप्रयुदाहरणादि पारायणिका
शाट्ट । भाष्य वृत्तौ च नित्यसमासेऽनुत्तरपदस्थमेत्यत्र परमसर्पि कुण्डिकात् तत्र
प्रयुदाहरणम् । का० (८ । ३ । ४८)

१ वृत्तान्तरेषु तु गणपाठ एव नास्ति । प० म० भा० १ पृ० ४ ।

इन विशिष्ट कारणों के अतिरिक्त कुछ सामान्य कारण भी उपस्थित किये जा सकते हैं जो प्रायः सभी संस्कृत वाङ्मय की प्राचीन पुस्तकों में मिलने वाले पाठभेदों के कारण के रूप में अनुमानित होते हैं। इन में दो कारण ऐसे हैं जो बहुत ही स्वाभाविक जान पड़ते हैं। एक तो यह कि समय क्रम से लिपियों में पर्याप्त परिवर्तन होते रहे इस से प्राचीन काल में लिखी गई पुस्तकों की प्रतिलिपि करते समय उत्तरकालीन लेखकों के द्वारा ठीक ठीक न पढ़ा जा सकने पर व लोग अपने अनुमान तथा कल्पना द्वारा अपठित अक्षरों की पूर्ति कर लेते थे। इस रूप में विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न पाठ स्वीकार कर लिये जाने के कारण अनेक पाठभेदों का उत्पन्न हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक है।

दूसरा इसी से मिलता जुलता कारण भाषा के उच्चारण की विभिन्नता है। प को ख य को ज व को घ, ष को श तथा स के रूप में, अथवा इस से विपरीत दूसरे के स्थान में दूसरे का उच्चारण आदि, उदाहरण रूप में उपस्थित किये जा सकते हैं। इस उच्चारण दोष के कारण जिस रूप में उच्चारण होने लगा, उसी रूप में वह लिखा भी जाने लगा। इस कारण भी शब्दों के पाठभेदों की वृद्धि न केवल स्वाभाविक अपितु अनिवार्य है।

इन सामान्य और विशेष कारणों का मिला जुला परिणाम, जो कि अत्यन्त स्वाभाविक था आज गणपाठ की उपरोक्त दुरवस्था के रूप में विद्यमान है। कहीं कहीं स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि अनेक पाठभेदों के मध्य शुद्ध पाठ का निर्धारण कर सकना कठिन ही नहीं अपितु किसी ठोस आधार के अभाव में सर्वथा असंभव प्रतीत होता है।

गणपाठ के संशोधन में पाणिनि कात्यायन तथा पतंजलि की सहायता

यों तो पाणिनीय गणपाठ के संशोधन के प्रसंग में ऐसी कोई कसौटी नहीं उपस्थित की जा सकती जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि गणपाठ में इतने ही शब्द पाणिनीय हैं इतने नहीं। फिर भी गण के प्रथम शब्दों तथा कुछ ऐसे शब्दों को जिनका निर्देश स्वयं पाणिनि ने अपने सूत्रों में किया है वे सर्वथा पाणिनि प्रोक्त ही मानना होगा। जैसे सर्वादिगण

क डतर आदि पाच शब्द^१ पूर्व आदि नव^२ शब्द तथा कोटरादिगण ।^३

इसी प्रकार गणपाठ के जिन जिन शब्दों के उन गणों में रखे जाने के प्रयोजन आदि पर कात्यायन ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं उन्हें भी विशुद्ध रूप से पाणिनीय ही मानना होगा। यथा—सर्वादिगण में उभ^४ तथा भवत्^५ शब्द भिन्नादिगण में भुवति^६ शब्द कच्छादिगण में साल्वा^७ शब्द विल्वादिगण में गवीधुका^८ शब्द तथा युक्तारोह्यादिगण में एकशितिपात्^९ शब्द। इसी तरह गणपाठ के जिन जिन शब्दों के साथ कात्यायन ने किसी विशिष्ट उपाधि का संयोजन करना चाहा है उन्हें भी पाणिनीय ही मानना होगा। यथा—निष्टद्वादिगण के तिष्ठद्गु^{१०} अथवा खलेयत्वादि^{११} शब्द अजादिगण के शूद्रा^{१२} शब्द अथवा कुवादिगण के वामरथ^{१३} शब्द।

कात्यायन के समान पतञ्जलि ने भी गणपाठ के कुछ शब्दों को आचार्य पाणिनि की विभिन्न प्रवृत्तियों का ज्ञापक बताया है।^{१४} यथा—

१ द्र० अदङ् डतरादिभ्य ण्वभ्य । पा० ७ । १ । २५ ॥

२ द्र० पूर्वोद्भिभ्यो नवभ्यो वा । पा० ७ । १ । २६ ॥

द्र० वन पुरगामिभ्रकासिभ्रशारिक कात्राग्रभ्य । पा० ८ । ४ । ४ ॥

४ उभभ्य मवनामऽकञर्थ । नवा० पृष्ठ ३०१ ।

५ भवतो अकच्छपरानि । वगी पृष्ठ ३०१ ।

६ भिन्नादिषु युवतिप्रशानर्थक्यं पुवद्भावभ्य सिद्धत्वात् प्रययविधौ । महा०

४ । २ । २८ ॥

७ साल्वाना कच्छादिषु पाठो अण विधानार्थ । मग० ४ । २ । १३३ ।

८ विल्वादिषु गत्र धुकाग्रहण मयत् प्रतिषेधर्थम् । महा० ४ । ३ । १३४ ॥

९ एकशितिपात् स्वरवचन तु शपक निमित्तस्वरजतीयस्वरस्य । महा० २ । १ । १

६० ६१ ॥

१० तिष्ठद्गु कालविशेषे । महा० २ । १ । १७ ॥

११ सल्यवादीनि प्रथमान्तानि अत्र पदार्थ । महा० २ । १ । १७ ॥

१२ शूद्रा वामहल्वा । महा० ४ । १ । ४ ।

१३ वामरथस्य कण्वादिवत् स्वरवर्जम् । महा० ४ । १ । १५१ ।

१४ द्र० पूर्व पृष्ठ २४६ ।

गौरादि मे श्वन् शब्द, शरत्प्रभृति मे विपाट् शब्द, अश्वदि मे राजन् शब्द सवनादि मे अश्वसनि शब्द तथा चुम्नादि मे 'नृनमन्' और तृप्नु शब्द इन गब्दों को भी पतजलि के प्रामाणिक वचनों के आधार पर पाणिनीय ही मानना होगा ।

इन के साथ ही हम यह भी कहना चाहेंगे कि कात्यायन की विभिन्न वार्तिकों का अनुकरण करते हुए चन्द्रगोमी तथा काशिकाकार इत्यादि ने जिन गब्दों या गणसूत्रों को पाणिनीय गणपाठ में मिला दिया है, तथा जिन्हें गणपाठ मे प्रतिष्ठित मानने हुए तत्सम्बद्ध वार्तिकें सर्वथा निष्प्रयोजन हो जाती हैं, जिनका यथावसर ऊपर निर्देश किया जा चुका है, उन्हें कात्यायन की प्रतिष्ठित प्रामाणिकता के आधार पर निश्चित रूप से अपाणिनीय मानना होगा ।

इसी प्रकार उन गब्दों को जिन्हें किसी प्रसंग मे पतजलि ने तत्सम्बद्ध गणों मे पढ़ने मे निषेध किया है उन्हें पाणिनीय नहीं माना जा सकता । यथा—द्वारादिगण का स्वाध्याय शब्द ।^१

परन्तु पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि द्वारा उभय प्रकार के निर्दिष्ट शब्दों की संख्या अंगुलियों पर गिनने लायक होने के कारण गणपाठ के अन्य अनिर्दिष्ट गब्दों के महान् समूह के संशोधन की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है ।

गणपाठ के संशोधन में काशिका का स्थान

इसमे कोई सन्देह नहीं कि काशिकाकार द्वारा, अपने गणपाठ के विषय में, की गई शुद्धगणों की घोषणा बहुत कुछ सत्य है, क्योंकि काशिका मे विद्यमान गणपाठ की अन्य पाणिनीय एवं अपाणिनीय गणपाठों के साथ पारस्परिक तुलना करने पर काशिका में मिलने वाले शब्द ही प्रायः अधिक शुद्ध निकलते हैं । परन्तु केवल काशिका के गणपाठ को ही एकमात्र प्रामाणिक मान कर उसके आधार पर पाणिनीयता और अपाणिनीयता का निर्णय कर देना उचित नहीं कहा जायगा । क्योंकि एक तो काशिकाकार की गणपाठ विषयक नीति, जिम्का ऊपर निर्देश किया जा चुका है,^२ कुछ ऐसी घोलमाल या सम्मिश्रण की रही है, जिसे गणपाठ की पाणिनीयता की

सुरक्षा की दृष्टि से कथमपि उपादेय नहीं माना जा सकता। हमारे आज से शताब्दियों पूर्व विरचित काशिकावृत्ति तथा उममे पाया जाने वाला गणपाठ किस रूप में उपलब्ध है, लेखको या लिपिकारों के प्रमादजन्य दोषों से उसके स्वरूप में कितना परिवर्तन हो गया है इन सब बातों पर भी तो ध्यान देना ही होगा।

काशिका के हस्तलेख तथा प्रकाशित संस्करण की पारस्परिक तुलना करने पर अनेक विषय स्थल सामने आने हैं। गणपाठ के अनेक स्थल पर बहुत से ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनका प्रकाशित संस्करण में अभाव पाया जाता है। जैसे—सख्यादिगण में सुरस शब्द अथवा प्रेक्षादिगण में सकटसुक आदि। इस के विपरीत कुछ ऐसे भी स्थल उपस्थित किये जा सकते हैं जो काशिका के प्रकाशित संस्करण में उन-उन गणों में तो मिल जाते हैं पर हस्तलेख में नहीं मिलते। जैसे—अश्वादिगण में प्राच्य, कित, कारण चुम्प, श्रविष्ठा इत्यादि शब्द। इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान देने योग्य है कि काशिका के व्याख्याकार जिनेन्द्रबुद्धि ने अपनी काशिकाविवरण पत्रिका में, कुछ स्थलों पर गणपाठ के कुछ शब्दों को प्रमादजन्य दोष के कारण स्थान प्राप्त हुआ है, ऐसा माना है।^१

इसलिये ऐसे स्थलों का अस्तित्व एवं काशिकाकार की सूनपाठ तथा गणपाठ दोनों में, चन्द्रगोमी के अनुकरण पर, कात्यायन व वातिकों के सम्मिश्रण की नीति काशिका के गणपाठ की पाणिनीयताविषयक प्रामाणिकता को पूर्ण सन्दिग्ध बना देते हैं।

✓ प्रक्रियाकौमुदी में प्राप्त गणपाठ का उपयोग

काशिकावृत्ति में दृष्टिगोचर होने वाले गणपाठ के पश्चात् पाणिनीय गणपाठ का दर्शन इमा की १५वीं शताब्दी^२ के विद्यमान रामचन्द्र की रचना प्रक्रियाकौमुदी में होता है। यद्यपि रामचन्द्र ने पाणिनीयगणपाठ के सभी गणों का पाठ नहीं किया है, तथापि उमके पात्र विट्ठलकृत टीका में प्रायः सार गण मिल जाते हैं। यहाँ मिलने वाला गणपाठ काशिकास्थित गणपाठ का अनुकरण मात्र है। वही वही कुछ विभिन्नताएँ तथा पाठभेद अवश्य प्राप्त हो जाते

१ द्र० न्याम ४।२।३१ १० ३६६।

२ द्र० मिश्रम आप सङ्गत ग्रामर, १४ ४५।

है। अतः गणपाठ के संशोधन में इस पुस्तक से भी थोड़ी बहुत सहायता मिल सकती है। परन्तु इसे काशिका की अपेक्षा अधिक प्रामाणिकता देना अनुचित होगा।

गणरत्नावली का उपयोग

यज्ञेश्वर भट्ट ने पाणिनीय गणपाठ का, वर्तमान की गणरत्नमहोदधि की पद्धति के अनुकरण पर, श्लोकबद्ध सग्रह करके उस पर अपनी अति सक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की है। पाणिनीय गणपाठ की यही एक व्याख्या है जो आज भी किसी प्रकार उपलब्ध है। परन्तु इसकी रचना का समय शक मवत् १७९६ है।^१ इस कारण समय की दृष्टि से यह विग्रेष प्राचीन नहीं है।

यज्ञेश्वर भट्ट ने गणरत्नावली में अनेक स्थलों पर पाणिनि के उन उन गणों में वर्तमान के द्वारा गणरत्नमहोदधि में बढाये गये शब्दों की निष्प्रयोजनता का प्रतिपादन बरन का प्रयास किया है। यथा—सर्वादिगण^१ में अन्वयोन्य परस्पर तथा इतरेतर शब्दों के विषय में अथवा स्थूलादिगण^२ में समिश्रित अनेक शब्दों की अनावश्यक स्थिति के विषय में यज्ञेश्वर भट्ट का कथन द्रष्टव्य है। इसलिये इस दृष्टि से इस वृत्ति की सहायता अपेक्षित है, पर वृत्त अतिक मात्रा में इस वृत्ति से सहायता की आशा करना दुराशा मात्र होगी क्योंकि काशिका के गणपाठ तथा गणरत्नावली के गणपाठ की पारस्परिक तुलना करने पर कुछ पाठभेद अवश्य प्राप्त होते हैं, पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें प्रायः काशिका का ही अनुकरण किया गया है। विगत उन स्थलों पर जहाँ काशिकाकार ने उपरिनिर्दिष्ट नीति के अनुसार पाणिनीय गणपाठ में कात्यायन की वाचिकी के आधार पर शब्दों तथा विविध गणसूत्रों का समावेश किया है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं वर्तमान की अनुवृत्ति की भी स्पष्ट छाप गणरत्नावली पर विद्यमान है। इसलिये गणपाठ के संशोधन में इस पुस्तक का उपयोग तो किया जा सकता है, पर इस पर ही आश्रित नहीं रखा जा सकता।

^१ द्र०—शाक रसाकमनिभूमितऽ० । ग० २० । पत्रा० १२३ ।

^२ द्र० ग० २० पत्रा ७ ।

२ द्र० यही पत्रा १११ ।

गणपाठ के विविध हस्तलेख

पाणिनीय गणपाठ के विविध हस्तलेख, जो हमें मिल सके हैं, पर्याप्त आधुनिक हैं। तथा—

यादृशं पुस्तकं दृष्टं तादृशं लिख्यते मया ।

यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते ॥'

और मञ्जिकास्थाने मञ्जिकापातः की नीति पर चलने वाले, संस्कृत भाषा से भी संभवतः अनभिज्ञ लिपिकारों द्वारा लिखित होने के कारण बहुत अधिक अशुद्ध है। पाणिनीय तथा अपाणिनीय मम्प्रदाय में मिलने वाले गणपाठ के अन्य स्रोतों से इन हस्तलेखों की तुलना करने पर यह भी पता लगा है कि कही कही इनमें भी पाठभेदों को स्वतंत्र शब्द मान कर गण में उनका पाठ करने की जैनेन्द्र भोज तथा हेमचन्द्र के व्याकरण में पाई जाने वाली प्रवृत्ति विद्यमान है। इसी कारण पञ्चादि गण में तुष तथा तुक्ष इन दोनों शब्दों का पाठ किया गया है, जब कि तुक्ष वामन स्त्रीकृत पाठ है तथा तुष वर्धमान आदि का। इसी गण का दूसरा शब्द कम्यलिक है, जिसके स्थान पर पाल्यकीर्ति का पीलिक तथा हेमचन्द्र के गणपाठ में थलिक पाठ है। हस्तलेख संख्या २, ३, ४ में कम्यलिक तथा थलिक दोनों शब्दों का पाठ मिलता है। इसी तरह कुमुदादि गण के मुचकर्ण के स्थान पर जैनेन्द्र तथा हैमव्याकरण के गणपाठ में शुचिकर्ण पाठ मिलता है, पर ये दोनों ही शब्द हस्तलेख संख्या दो तथा तीन में उपर्युक्त गण में पठित हैं।

इसके अतिरिक्त इन हस्तलेखों में कुछ ऐसे भी शब्द मिल जाते हैं, जिन्हें किसी विशिष्ट वैयाकरण के मत के रूप में वर्धमान ने अपनी गणरत्नमहोदधि में प्रस्तुत किया है। यथा—काश्यादि गण में अरिञ्च शब्द के पाठ को वर्धमान केवल भोज सम्मत पाठ मानता है, परन्तु गणपाठ के विभिन्न हस्तलेखों में यह शब्द पठित है।

गणपाठ का हस्तलेख संख्या तीन यद्यपि पर्याप्त स्पष्ट तथा शुद्ध है, परन्तु स्थल स्थल पर इसमें वर्धमान के गणरत्नमहोदधि का अनुकरण किया गया है। इनके बीच में चान्द्र, शाकटायन (जैन) के पाठभेद भी दिये गये हैं तथा वही कही शब्दों की वृद्धि भी उन उन गणों में की गई है। पाठभेदों को स्वतंत्र शब्द मान लेने की प्रवृत्ति तो इस हस्तलेख में पर्याप्त मात्रा में मिलती है।

अतः हस्तलेखों की सहायता भी थोड़ी बहुत तभी उपादेय हो सकती है, यदि इन के प्रति पूरा पूरा जागरूक रहा जाए।

अपाणिनीय सम्प्रदायों के विभिन्न गणपाठों का उपयोग

अपाणिनीय सम्प्रदायों के गणपाठों में, जिनके स्वरूप इत्यादि के विषय में ऊपर विस्तार से विचार किया जा चुका है, मुख्यतः चन्द्रगोमी, जैनेन्द्र, पाल्यकीर्ति, भोज, हेमचन्द्र तथा वर्धमान के गणपाठों से काशिका में मिलने वाले गणपाठ की तुलना करते हुए स्वरविषयक गणों के अतिरिक्त गणों के सशोधन में, बहुत कुछ सहायता प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि, इन वैयाकरणों ने सामान्य परिवर्तन तथा परिवर्धन, एव थोड़े बहुत पाठभेदों के साथ, पाणिनीय गणपाठ पर ही अपने-अपने साम्प्रदायिक नामपट्ट लगा कर, अपने-अपने व्याकरणों में प्रतिष्ठापित कर लिया है। यद्यपि जैनेन्द्र तथा शाकटायन के गणपाठों में अपभ्रष्टता अधिक मात्रा में पाई जाती है जिसके कारण कहीं कहीं शब्दों का स्वरूप ही बदल गया है, फिर भी भोज, हेमचन्द्र तथा वर्धमान के साथ तुलना करने पर शब्दों के शुद्ध स्वरूप का थोड़ा बहुत पता लगाया जा सकता है। भोज का गणपाठ सूत्रों में ही प्रतिष्ठित होने के कारण औरों की अपेक्षा कहीं अधिक, शुद्ध और अपने रूप में प्रामाणिक है।

वर्धमान की गणरत्नमहोदधिक व्याख्येय गणपाठ भी अपने अज्ञात नामा व्याकरण सम्प्रदाय की दृष्टि से, पर्याप्त शुद्ध जान पड़ता है क्योंकि इसमें साथ ही साथ वृत्ति अथवा व्याख्या होने के कारण शब्दों की स्वस्थता अधिक स्वाभाविक है। विशेष कर एग्लिंग महोदय द्वारा सम्पादित गणरत्नमहोदय अत्यधिक उपादेय है।

हेमचन्द्र तथा वर्धमान के गणपाठों से तथा विशेषतः वर्धमान की गणरत्नमहोदयि स हमें विभिन्न आचार्यों तथा टीकाकारों के विभिन्न मतों तथा पाठभेदों को जानने में पर्याप्त सहायता मिल सकती है।

ओटो बोथलिक सम्पादित गणपाठ

ओटो बोथलिक महोदय ने सन् १८४० में अष्टाध्यायी के सूत्रों की जर्मन-व्याख्या के प्रसंग में पाणिनीय गणपाठ को यथासंभव शुद्ध रूप में रखने का स्तुत्य प्रयास किया है। परन्तु जैसा कि गणपाठ के अन्य स्रोतों से उसकी तुलना करने पर पता लगता है, इनका सशोधन अधिकतर यज्ञेश्वर भट्ट की

गणरत्नावली तथा हमारे गणपाठ के हस्तलेख (नं० ३ के साथ मिलते जुलते पाठ वाले अन्य हस्तलेख) को ही संभवतः एकमात्र आधार मानकर सम्पन्न हो सका है। इसलिये गणरत्नावली तथा हस्तलेखों की स्थिति के, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, बहुत अधिक विश्वसनीय न होने के कारण ओटो बोथॉलिक का यह गणपाठ भी अत्यधिक प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।

गणपाठ के संशोधन का संभव प्रकार

पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि के प्रामाणिक वचनों द्वारा निर्दिष्ट गणपाठ के शब्दों से अतिरिक्त शब्दों की पाणिनीयता के प्रतिपादन की अथवा दूसरे शब्दों में पाणिनीय गणपाठ में स्थान देने की, किसी भी प्रामाणिक वसूटी के अनुपलब्ध होने के कारण कुछ संभव उपायों का निर्धारण करना अत्यावश्यक है। इस दृष्टि से निम्न उपाय प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

१—काशिका, काशिका के हस्तलेख, प्रक्रियाकौमुदी, गणरत्नावली, पाणिनि गणपाठ के हस्तलेख तथा ओटो बोथॉलिक द्वारा संशोधित गणपाठ इत्यादि, पाणिनीय सम्प्रदाय से सम्बद्ध सभी स्रोतों में प्राप्त होने वाले गणपाठ के शब्दों का एक ओर तो परस्पर तथा दूसरी ओर पाणिनि से इतर—चन्द्रगोमी, जैनेन्द्र, जैनशाकटायन, भोज, हेमचन्द्र तथा वर्धमान इन विभिन्न-सम्प्रदायों के गणपाठों के शब्दों के साथ तुलना करने पर जो शब्द एक साथ सभी स्रोतों में मिल गए हैं, उन्हें पाणिनीय गणपाठ के मूलभाग में स्थान दिया जा सकता है।

२—जो शब्द पाणिनीय सम्प्रदाय के सभी ग्रन्थों में न मिल कर केवल एक दो में मिलते हैं, परन्तु बाद के चान्द्र इत्यादि के गणपाठों में मिलते हैं, उन्हें भी मूलभाग में स्थान दिया जा सकता है।

३—जो शब्द केवल पाणिनीय गणपाठ के हस्तलेखों तथा काशिका अथवा काशिका के हस्तलेखों में प्राप्त होने हैं उन्हें भी प्रवानता देते हुए, अन्यत्र सर्वत्र अप्राप्त होते हुए भी मूलभाग में स्थान दिया जाना चाहिए।

४—इसके अतिरिक्त पाणिनीय सम्प्रदाय की, गणपाठ के शब्दों से थोड़ा सा भी सम्बन्ध रखने वाली उपलब्ध सभी पुस्तकों में उन उन शब्दों के विषय में मिलने वाली विवीर्ण सम्पूर्ण सामग्री के विवेचनात्मक आधार पर ठीक

जँचन वाले शब्दों को भी मूलभाग में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। भन्ने ही वे शब्द पाणिनीय सम्प्रदाय के सभी ग्रन्थों में न मिलते हैं।

५—इसी तरह लौकिक तथा वैदिक कोषों और संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध ग्रन्थों के अवलोकन से जिन शब्दों के उन उन गणों में रहने से निष्पन्न होने वाले प्रयोगों की साधुता प्रमाणित होती है, उन्हें पाणिनीय गणपाठ विषयक किसी एक भी ग्रन्थ में पाठ मिल जाने पर स्थान दिया जाना चाहिए।

६—आकृतिगणों के विषय में यद्यपि विशेष विवेचन की आवश्यकता तो नहीं प्रतीत होती, पुनरपि यह उचित प्रतीत होता है कि उन शब्दों को भी मूल भाग में स्थान दिया जाए, जिन्हें उन उन गणों में पढ़े जाने के लिये बाधरुबाधनार्थ (बाधक रूप में प्राप्त होने वाले प्रत्यय को बाधने के लिये) जैसे विशिष्ट प्रयोजन काशिकाकार आदि ने उपस्थित किए हैं। इसके साथ ही काशिका, अथवा काशिका के हस्तलेख तथा गणपाठ के हस्तलेखों में मिलन वाले प्रायः सभी शब्दों को थोड़ी बहुत विवेचना के आधार पर, यदि उनकी स्थिति आवश्यक प्रतीत हो, तो मूल भाग में स्थान मिलना ही चाहिये। क्योंकि यह कह सकना तो सर्वथा असंभव है कि आचार्य पाणिनि ने कितने शब्द आकृतिगणों में पढ़े थे। हम पूर्व आकृतिगणों के प्रयोग में प्रतिपादन कर चुके हैं कि आकृतिगणों में भले ही कुछ शब्द उपलक्षणार्थ रख दिये हों, पर आजकल मिलने वाले सारे शब्दों का पाठ तो पाणिनि ने नहीं ही किया था।” उपलक्षणार्थ भी कितने शब्दों का पाठ पाणिनि ने किया था, यह भी आज ठीक ठीक जानना सर्वथा असंभव ही है। साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि आकृतिगणों में काशिकाकार आदि द्वारा पठित शब्दों की लम्बी सूची वहाँ असंगत या असाधु है। इसलिये पाणिनीय सम्प्रदाय से सम्बद्ध होने के कारण उक्त श्रोता में पाये जाने वाले आकृतिगण विषयक शब्दों को पाणिनि द्वारा उनके पठित होने की स्थिति को अस्वीकार करते हुए भी उन उन आकृतिगणों में स्थान देना आवश्यक तो नहीं पर उपादेय अवश्य है।

७—पूर्व गणसूत्रों की समस्या पर विचार करते हुए विस्तार से हमने यह सिद्ध किया है कि गणसूत्रों के रचयिता आचार्य पाणिनि नहीं हैं। कही यही अनाश्रयक अंगत तथा पुनरुक्ति दोष में ये गणसूत्र पूर्णतया दूषित हैं तथा वही कही वात्स्यायन की विभिन्न वार्तिकों के आधार पर इनकी रचना

माकार हो सकी है। जो भी हो, हमें ये गणसूत्र, कथमपि, पाणिनि विरचित नहीं प्रतीत होने। तथा इसी प्रकार कात्यायन के वार्तिकों के आधार पर, चन्द्रगोमी का अनुकरण करते हुए प्रमुख एवं प्राचीन वृत्तिकार जयादित्य तथा वामन ने अपनी काशिकावृत्ति में अनेक गणों में अनेक शब्दों को समाविष्ट कर दिया है। इनकी चर्चा पूर्व की जा चुकी है। कात्यायन की वार्तिकों के होते हुए इस प्रकार के शब्द उन उन गणों में अनावश्यक प्रतीत होते हैं अथवा उनके उन उन गणों में रहते हुए, उन्मी दृष्टि से रची गई कात्यायन की वे वार्तिकों अनावश्यक प्रतीत होती है। इसलिये कात्यायन को अधिक प्रामाणिकता देते हुए, हम इस प्रकार के शब्दों का उन उन गणों में पाठ अपाणिनीय समझते हैं।

पर इन दोनों प्रकार के गणसूत्रों तथा इस प्रकार के शब्दों को पाणिनीय गणपाठ के मूलभाग से हटा देना भी हम इसलिये ठीक नहीं समझते कि उपर्युक्त दोनों ही धारणाएँ अभी पूर्णतः निश्चय का रूप नहीं प्राप्त कर सकी हैं।

यह तो हुई पुरे पाणिनीय गणपाठ को ध्यान में रख कर उनके सशोधन की मामान्य स्थिति। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट गणों के सशोधन या परीक्षण के लिये कुछ विशेष आधार अपनाये जा सकते हैं।

१-पाणिनीय गणपाठ के स्वरादि, चादि उर्यादि तथा साक्षात्प्रभृति गणों में पठित शब्दों की परीक्षा के लिये अमरसिंह आदि के कोषों के अन्यत्र प्रकरण से यथा सम्भव सहायता ली जा सकती है।

२-अर्धर्चादि गण में पढ़े गये शब्दों की विस्तृत समीक्षा के लिये इन शब्दों की तुलना पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध लिङ्गानुशासन के पुत्रपुसक प्रकरण के शब्दों, तथा जिन शब्दों के पुत्रपुसकत्व की स्वीकृति पुत्रपुसक प्रकरण के अतिरिक्त सूत्रों में विद्यमान है, उन शब्दों के साथ की जा सकती है। कारिका आदि में कुछ ऐसे भी शब्द अवश्य मिल सकते हैं जो लिङ्गानुशासन के इन प्रकरणों में सम्भवतः न मिल सकें। परन्तु अन्य श्रोतों के आधार पर उन्हें पाणिनीय गणपाठ में स्थान दिया जा सकता है।

३-पैलादि, यस्कादि, तिककितथादि, उपकादि, कुञ्जादि, गगादि, नडादि, तथा विदादि गणों की जिनमें गोत्रवाची शब्दों का पाठ मिलता है, तथा उन अन्य गोत्रवाचक शब्दों की जो इतस्ततः अन्य किसी गण में

अलग अलग पढ़े गये हैं, परीक्षा या सशोचन के लिये प्रो० जान ब्रफ द्वारा अनूदित गोत्र प्रवरमजरी में मिलने वाले वौधायन आपस्तम्ब आश्वलायन श्रौतसूत्रो तथा कात्यायन लौगाक्षि, शुक्लयजुर्वेद परिशिष्ट, मानव प्रवराध्याय तथा मत्स्य पुराण के गोत्र विषयक सूत्रिया में विद्यमान शब्दों के साथ शब्दश तुलना की जा सकती है। कुछ थोड़े से ऐसे शब्द भी उपर्युक्त गणों में स्थान प्राप्त किये हुए मिल सकते हैं जो गोत्रप्रवरमजरी में निर्दिष्ट उपर्युक्त पुस्तकों में नहीं मिलते। पर अन्य स्रोतों में मिलने के कारण उन्हें भी उन गणों में स्थान देना आवश्यक प्रतीत होता है।

४-पष्ठाध्याय के प्रथम पाद के उञ्छादि गण से लेकर द्वितीय पाद के गौरादि गण तक के शब्दों की तुलना के लिये भोज के सरस्वती कण्ठाभरण को छोड़ कर, अन्य सम्प्रदाय के वैयाकरणों अथवा उनकी व्याकरण विषयक सामग्री से कोई सहायता नहीं मिल सकती। इसलिये पाणिनीय सम्प्रदाय के ही विभिन्न, उपरिनिर्दिष्ट स्रोतों तथा भोज के सरस्वती कण्ठाभरण में मिलने वाले स्वरविषयक गणों के शब्दों की पारस्परिक तुलना से ही सन्तोष करना पड़ेगा। हा स्वरविषयक तथा पाणिनीय सम्प्रदाय से सम्बद्ध अतिविश्वसनीय पुस्तक स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका में उपन्यस्त गणों से काशिका के उन उन गणों की तुलना की जा सकती है, तथा अनेक शब्दों के विषय में विभिन्न उपायेय त्रिवाद तथा वैदिकसाहित्य से विविध उदाहरणों के संग्रह में पर्याप्त सहायता प्राप्त की जा सकती है।

इत्यलमतिविस्तरेण

उद्धृत प्राक्पाणिनीय गण

गणनाम	उपलब्धि स्रोत वा निर्धारक आचार्य	विशेष वक्तव्य	पृष्ठ
अक्षरसंहितादि	तै० प्रा०		१७
अघ्न्यादि	उणादिकोष		२८
अजिरादि	अ० प्रा०		२१
अब्दादि	उणादिकोष		२८
अलीकादि	"		"
अविरादि	ऋक्तत्र		१९
अश्रादि	अ० प्रा०		२१
उत्तम्भनादि	वा० प्रा०		१७
एनाअहादि	अ० प्रा०		२१
एवादि	फिट्सूत्र		२९
कर्दमादि	"		"
कृतादि	भागुरि	कृततूस्तेम्य० (३।१।२१) पाणिनि	२४
कौतस्कुतादि	ऋक्तत्र	कस्कादि-पाणिनि आदि	१९, ५५, ७१
क्षिप्नादि	कागकृत्स्न	क्षम्नादि-पाणिनि- आदि	२५, ४८, ५९ इत्यादि
ग्रामादि	फिट्सूत्र	वृपादि-पाणिनि	२९
घृतादि	"	उञ्छादि-पाणिनि	२९
चूर्णादि	अष्टाध्यायी (६।२।१३४)	पाणिनि को स्वीकृत	२९, ३०
तौल्वत्यादि	पदमंजरी (भा० १ पृ० ४८९)		३०, ३१

गणनाम	उपलब्धि स्रोत वा निर्धारक आचार्य	विशेष वक्तव्य	पृष्ठ
दीर्घायुत्वादि	अ० प्रा०		२१
पटादि	ऋक्तत्र		१९
पादादि	अ० प्रा०		२१
पिप्पल्यादि	गौरादिगण (द्र० काशिका ४११४१)	गौरादि पाणिनि	३३, ३४, ६६, ७७, ८८, ८९
पुच्छादि	भागुरि	पुच्छभाण्ड० (३११२०) पाणिनि	२४
पृषोदरादि	ऋक्तत्र	पाणिनि आदि को स्वीकृत	१९, ६३, ६८ इत्यादि
वृहस्पत्यादि	अ० प्रा०	'उभे वनस्पत्यादिपु युगपत्' तथा 'देवता द्वन्द्वे च' (६।२।१४०- १४१)-पाणिनि	२१, २२, ५५
भूतादि	अ० प्रा०		२१
मन्द्रादि	तै० प्रा०		१७
मुण्डादि	भागुरि	मुण्डमिश्रशुक्लण० पाणिनि (३।१।२१)	२४
मेण्यादि	भारद्वाज शिक्षा		२३
येत्यादि	ऋ० प्रा०		१७
रौढ्यादि	महा० (४।१।७९)	क्रौड्यादि-पाणिनि आदि रुढादि- शा० है०	३६, ३७, ५५, ११७
वत्सतरादि	ऋक्तत्र		१९
व्याघ्रादि	अ० प्रा०		२१
शक्न्धुवादि	ऋक्तत्र	शक्न्धवादि-वात्या- यन (६।१।१४)	१९, ९७
शतादि	अ० प्रा०		२१
शाबल्येष्यादि	अ० प्रा०		२१

गणनाम	उपलब्धि स्रोत वा निर्धारक आचार्य	विशेष वक्तव्य	पृष्ठ
शीभादि	भारद्वाज शिक्षा		२३
शैत्यायनादि	तै० प्रा०		१७
श्लोकादि	भागुरि	श्लोकसेना० (३।१। २५) पाणिनि	२४
सत्यादि	भागुरि	सत्यापपाश०-पाणिनि (३।१।२५)	२४
सत्रसाहंदि	अ० प्रा०		२१
सर्वादि	आपिशलि तथा चाक्रवर्मण	पाणिनि आदि के यहाँ क्रम विपर्यय	२६, २७
स्वन्नादि	भागुरि	पाणिनि आदि को स्वीकृत	२४, ६४, १३७, १४१

उद्धृत पाणिनीय गण

गणनाम	गणपाठस्थ स्थल	पृष्ठ संख्या
अक्षद्वयादि	४।१।१९	१३५
अङ्गुल्यादि	५।३।१०८	११९, १४५
अजादि	४।४।१	९०, ९४, १३९, १४१, १५५, १५९
अजिरादि	६।३।११८	१४०, १५२
अनुप्रवचनादि	५।१।१११	१११, ११८, १३४, १५६
अपूपादि	५।१।४	८९, १११
अयस्मयादि	१।४।२०	५९
अरीहणादि	४।२।८०	११२, १३५, १४९, १५२
अर्घर्चादि	२।४।३१	४७, ६३, ११२, १३०, १३३, १४०, १६७
अर्थआदि	५।२।१२७	११९
अश्वपत्यादि	८।१।८८	११८, १३४
अश्वदि	४।१।११०	१४९, १५०, १६०, १६१
आकर्षादि	५।२।६४	११९
आहिताम्न्यादि	२।२।३७	११८
इन्द्रजननादि	८।३।८८	५९, १११, १३४
उक्यादि	४।२।६०	११८, १५०
उञ्छादि	६।१।१५	६३, १६८
उत्करादि	४।२।९०	१२६, १५२
उत्सादि	४।१।८६	४५, १४९
उद्गमादि	५।१।१२९	१३५
उपकादि	२।४।६९	१४९, १५०, १६७
उर प्रभृति	५।८।१५१	६९
ऊर्षादि	१।४।६१	१६७
ऋग्यनादि	४।३।७३	११८, १२५
ऐपुकार्यादि	४।२।५४	१५१

गणनाम	गणपाठस्थ स्थल	पृष्ठ संख्या
कच्छादि	१।२।१३३	९५, १५२, १५९
कडारादि	२।२।३८	१२३
कण्डूवादि	३।१।२७	४५, ७४
कण्वादि	४।२।१११	५५, ७५, ८०, ९४
कन्यादि	४।२।९५	१५२, १५६,
कथादि	४।४।१०२	१३, ६४, ११०, १२२, १३४, १४५, १५०
कव्यादि	६।२।८७	१५२
कर्णादि	५।२।२४	१४०,
कल्याणयादि	४।१।१२६	८७, १४२
कस्कादि	८।३।४८	५५, ९६, १००, १०४, १११, १२५, १३४, १४९, १५६
कार्तिकीजपादि	६।२।३७	८७
काश्यादि	४।२।८०	१५२, १६३
किशुलकादि	६।३।११६	१११, ११९, १३४, १५२
कुञ्जादि	८।१।९८	१३७, १३८, १४१, १५०, १६७
कुमुदादि	८।२।८०	१६३
कुम्भपद्यादि	५।४।१३९	१४२,
कुवादि	१।१।१५१	९४, ११४, १२५, १२७, १५९
कोटरादि	६।३।११६	८३, १२०, १५२
कमादि	८।२।६१	८३, १२०, १५०
क्रीड्यादि	८।१।८०	३६, ३७, ५६, ९४, १०१, ११७, १३९, १४९
कुम्भादि	८।४।३९	४८, ५९, ६०, ६३, ६८, ९०, ९६, १४९, १६०
सण्डिकादि	४।२।४५	९५, १२२, १४८, १५६
गम्यादि	३।३।३	८३, १३८
गर्गादि	४।१।१०५	४५, ४९, ७९, ९८, १३७, १३८, १४०, १४१, १५०, १६७

गणनाम	गणपाठस्थ स्थल	पृष्ठ संख्या
गवादि	५।१।२	९७, ९५, ११९, १३७
गवाश्वप्रभृति	२।४।११	९३
गहादि	४।२।१३८	९०, ९५, ११०, १५२, १५५
गुडादि	४।५।०३	११०, १२२, १३४
गोपवनादि	२।८।६७	३१, ४५, ७६, ९४, ११० १५५
गौरादि	४।१।४१	३३, ३४, ४८, ६६, ७७, ८८, १८९, १३८, १८०, १४२, १४६, १४८, १५५, १६०
गौरादि	६।२।१९४	१६८
ग्रह्यादि	३।१।१३७	३५, ६७, ८९, १३८
चादि	१।४।५७	६२, १२८, १३९, १६७
चिहृणादि	६।२।१२५	१५२
छत्र्यादि	४।४।६२	१४९
डतरादि	७।१।२५	७५, ७८
तक्षशिलादि	४।३।९३	७२, ११०, ११९, १३४, १५२
तारकादि	५।२।३३	६०, १४५, १४८
तालादि	४।३।१५०	१२०, १३४
तिककित्वादि	२।८।६८	१५०, १६७
तिकादि	४।१।१५४	६५, १२६
तिष्ठद्गवादि	२।१।१७	९३, १५९
तुन्दादि	५।२।११७	११४, १३५
तौत्वल्यादि	२।४।६१	३१, १०३, १४९
त्यदादि	१।१।७४	४८, ५१, ७५, ७८
	१।२।७२	
दण्डादि	५।१।६६	१३५
दामन्यादि	५।३।११६	१३५, १५१
देवपथादि	५।३।१००	५९, १११, १३४
द्वारादि	७।३।४	९६, १४०, १४२, १५४, १६०
द्वव्यादि	५।३।२	५८, ७५

गणनाम	गणपाठस्थ स्थल	पृष्ठ संख्या
धूमादि	४।२।१२७	४५, १५२
नडादि	४।१।९९	१८०, १४१, १५०, १६७
नडादि	४।२।९१	७६, १५२
नद्यादि	४।२।९७	१०१, १५२
नन्वादि	३।१।१३४	३५, ६७, ८९, ९१, १३८
न्यङ्क्वादि	७।३।५३	८३, १०४, १३८, १४१, १५४
पक्षादि	४।२।८०	११८, ११९, १२५, १६१
पचादि	३।२।१३४	३५, ५९, ६७, ९८, ११८, १३८
पश्चादि	५।३।११७	१५१
पलद्यादि	८।२।११०	१५२
पलाशादि	४।३।१३९	१११, १३४
पात्रेसमितादि	२।१।५८	६१, ६२, ६५, ७२, १३९
पामादि	५।२।१००	११९, १४०
पारस्करादि	६।१।१५३	५२, ५९, ७२, ११९
पिच्छादि	५।२।१००	११४, १३५, १८०, १४५
पील्वादि	५।२।२४	१८०
पुरोहितादि	५।१।१२८	१२२, १३४
पुष्करादि	५।२।१३५	१२५, १२७
पूर्वादि	७।१।१६	८७, ७५, ७८
पृषोदरादि	६।३।१०८	६०, ६३, ६८, ७२, ९६, १३६
पैलादि	२।८।५९	१६७
प्रगदिनादि	४।२।८०	१२२
प्रज्ञादि	५।४।३८	१२३
प्रवृद्धादि	६।२।१४७	६१, ७०
प्रादि	१।४।५८	९३, १३९, १४८
प्रियादि	६।३।३३	१२९, १३०, १४२
प्रेक्षादि	४।२।८०	१६१
प्लसादि	४।३।१६२	१११, १३५

गणनाम	गणपाठस्थ स्थल	पृष्ठ संख्या
राजन्यादि	४।२।५३	१५१
रेवत्यादि	४।३।१३	११
रोमादि	५।२।१००	११०
लोहितादि (१)	३।१।१३	७३, ९१, १००, १०८
लोहितादि (२)	४।१।१८	१८, ७५, ८०, ९१
वर्षादि	६।२।१३१	७४
वारणादि	४।२।८२	१५२
वृषादि	६।१।१९९	६३
व्युष्टादि	५।१।९७	९५
त्रीक्षादि	५।२।१३६	९५, १२७, १३१, १४०
शण्डिवादि'		१२९
शरत्प्रभृति	५।४।१०७	१८, १२७, १४२, १५८, १६०
शरादि	६।३।११९	११२, ११०, १५२
शार्ङ्गखादि	४।१।७३	९०, १५५
शिवादि	४।१।१२२	६३, १३८, १४१
शुण्डिवादि	४।३।७६	१५
शुभ्रादि	४।१।१२३	१४, ६३, ११०
शौण्डादि	२।१।४०	१७
शोभवादि	४।३।१०६	१३५, १४९
शम्यादि	४।२।८०	१६१
शङ्कुलादि	४।२।७५	६१, १५०
शङ्खादि	४।२।८०	१८, १२२
शन्निषेनादि	४।३।१६	११, १३८, १३९
शपन्यादि	४।१।३५	३५, १११, १३५, १४०
शर्वादि	१।१।८७	१३, ४३, ४९, ६१, ६५, ७८, ८८, ९८, १०७, १२९, १४८, १५१, १५८, १९, १६०

१. कांता के निर्देशानुसार पाणिनि के मत में 'शुण्डिवादि' (४।३।७६) गण में 'शुण्डिक' के स्थान में 'शण्डिक' पठ है।

गणनाम	गणपाठस्थ स्थल	पृष्ठ संख्या
सवनादि	८।३।१०८	४८, १४९, १५५, १६०
साक्षात्प्रभृति	१।४।७८	४३, ९३, १६७
सिन्ध्वादि	४।३।९३	११०, ११९, १३४, १५२
मुवास्वादि	५।२।७७	६५, १५२
सुषामादि	८।३।९८	६३, ६८, ९६, ११९
स्थूलादि	५।४।३	९५, १२३
स्नात्वादि	७।१।४९	५९
स्वरादि	१।१।३७	६२, ८८, १२८, १३९, १४८, १६७
स्वन्नादि	४।१।१०	६४, १३७, १४१
स्वागतादि	७।३।७	११९, १४२
हरितादि	४।१।१००	४१, ७६, ९४
हरीतक्यादि	४।२।१६५	१२०, १३५



उद्धृत कात्यायनीय गण

गणनाम	स्थल निर्देश	अनुकर्ता	पृष्ठ
अग्निपदादि	५।१।६७		६७
अण्डादि	६।३।४१	व०	६७, १३१
अध्यात्मादि	४।३।६०	व०	६६, १३१
अवान्नरदीक्षादि	५।१।६४		९७
अहरादि	८।२।७०	व०	६७, १३१
आद्यादि	५।४।४४	व०	६७, १३१
इरिकादि	८।४।६		६७
कम्बोजादि	४।१।१७५	चन्द्र०, शा०, हे०, व०	१०६ १२० १३१ ८१, ८२, ८३
काष्ठादि	८।१।६७		६७, १३१
कुक्कुटादि	६।३।४१	व०	६७
क्षिपकादि	७।३।४५		६६, १३१
खलादि	४।२।५१	व०	१५६
खलेयवादि	२।१।१७		१२०
गड्वादि	२।२।३५	शा० हे०	६७, १२०, १३१
गिरिनद्यादि	८।४।१०	शा०, हे०, व०	६७
चातुर्वर्ण्यादि	५।१।१२४		६७ १०६
ज्योत्स्नादि	५।२।१०३	चन्द्र०	६७
त्रिचकादि	६।२।१६६		१०६, १३१
देवामुरादि	४।३।८८	चन्द्र०, व०	१०६
नवयज्ञादि ^१		चन्द्र०	६७, १३१
पत्यादि	८।२।७०	व०	६७, १२० १३१
परदारादि	४।४।१	शा० हे० व०	८१ ८२ ६६, १२०
परिमुखादि	४।३।५८	शा० हे०	

गणनाम	स्थल निर्देश	अनुकर्ता	पृष्ठ
पञ्चादि	३।२।१५		६६
पीठवादि	६।३।१२१		६७
पुण्याहवाचनादि	५।१।१११	चन्द्र० व०	६७ १०६, १३०
पैङ्गाक्षीपुत्रादि	४।२।२८	चन्द्र०	१४६
प्रकृत्यादि	२।३।१८		६६
प्रभूतादि	४।४।१	व०	६६ १३१
भवदादि	५।३।१४		६७
महानाम्न्यादि	५।१।६४		६७
मात्वादि	४।४।१	शा० ह०	६६, १२०
मूलत्रिभुजादि	३।२।५	व०	६६, १३२
यवखदादि	५।२।११६	नात्रादि	
		चन्द्र० शा० हे०	६५, १११, १५२
शकन्धवादि	६।१।६३	व०	६७
शकादि	६० ६।१।६३	शा० ह०	१२०
शाक्यायिवादि	२।१।६६		६६
गिग्गादि	५।२।११६	चन्द्र० शा० हे०	६५ १११, ११२,
		व०	१३५
मम्पदादि	३।६।१०८	व०	६६, १३२
मुम्नातादि	८।४।१	शा० हे० व०	६७, १२०, १२१
म्यग दि	५।१ १११	चन्द्र० व०	१०६, १३१

उद्धृत प्रत्यकपानिणीय गण

गणनाम	निर्धारक आचार्य वा अनुकर्ता	पृष्ठ
अक्षादि	वररुचि	१४४
अजादि (१)	हे०	१२५
अजादि (२)	व०	१३२
अर्थादि	शा०, हितादि हे०	१२५
इन्द्रादि	नरेन्द्र	१४०
उदन्वादि	व०	१३२
उणादि	चन्द्र०, व०, मुखादि मोगलान महाथेर	१०६, १३३, १११, १४५
ऋत्वादि	शा०, हे०, व०	११०, १२२, १३३
ऋत्वादि	वररुचि	१४३
ऋष्यादि	वररुचि	१४३
कद्र्वादि	कातन्त्रकार	१३८
कलाप्यादि	चन्द्र०, मौदादि-शा०, हे०, ब्रह्मादि व०	१०६, १२३, १३३
किशुकादि	भो०, व०	१२७, १३३
कुण्डादि	व०, जानमदादि नरेन्द्र	१३२, १३५, ११०
कृष्यादि	चन्द्र०, व०	१०६, १३३
केदारादि	वामन, व०	१२८, १३३
केवलादि	कातन्त्रकार	१३८
केशादि	चन्द्र०, मण्यादि हे०, व०,	१०६, १३३
खम्च्यादि	भो०, व०	१२७, १३३
चूडादि	चन्द्र०, व०	१३
छन्दोगादि	कातन्त्रकार	१३८
जनादि	मोगलान महाथेर	१४५
जपादि	भो०, हे०	१२७

गणनाम	निर्धारक आचार्य वा अनुकर्ता पृष्ठ	
ज्योत्स्नादि	चन्द्र०, व० नरेन्द्र	१३३, १४१
तदिमिनादि	मोगलान महाथेर	१४५
तन्वादि	वोपदेव	१४२
दशादि	वररुचि	१४४
देवादि	शा०, हे०	१२१
दैत्यादि	वररुचि	१४४
धर्मादि	शा०, हे०, पक्षादि-व०	१२१, १३२
धूर्तादि	वररुचि	१४४
नखादि	मोगलान महाथेर	१४५
नभ्राडादि	चन्द्र०, व०	१३३
निकटादि	शा०, हे०, व०	१३३
नीडादि	वररुचि	१४४
पक्षादि	चन्द्र०, पक्षादि मोगलान	१४५
पात्रादि	व०	१३२, १३५
पानीयादि	वररुचि	१४३
पितादि	मोगलान महाथेर	१४५
पौरादि	वररुचि	१४४
भज्जादि	मोगलान महाथेर	१४५
भयादि	शा०, हे०	१२१
भेषजादि	शा०, हे०, अनन्तादि व०	१३३
भ्रातृपुत्रादि	हे०	१२५
मत्तलिहादि	भो०, व०	१२७, १३३
मन्वादि	नरेन्द्र	१४१
मातुलादि	मोगलान महाथेर	१४५
मामादि	वररुचि	१४४
मुषुटादि	वररुचि	१४३
ययादि	वररुचि	१४३

गणनाम	निर्धारक आचार्य वा अनुकर्ता	पृष्ठ
यादादि	वररुचि	१४४
रूपादि	चन्द्र०, व०	१३३
वक्रादि	वररुचि	१४४
वारादि	व०	१३५
वृन्दारकादि	भो०, व०	१२७, १३३
वेणुकादि	चन्द्र०, शा०, हे०	११०, १२२
व्यासादि	चन्द्र०, वोपदेव	११०, १४२
शय्यादि	वररुचि	१४३
श्रितादि	शा०, हे०	१२१
सदादि	वररुचि	१४३
सद्दादि	मोगलान महाथेर	१४५
समृध्यादि	वररुचि	१४३
सायन्हादि	हे०	१२४
सेवादि	वररुचि	१४४
सोमादि	कातन्नकार	१३८
सौन्दर्यादि	वररुचि	१४४
सशयादि	शा०, हे०, व०	१३३
हरादि	मोगलान महाथेर	१४६
हरिद्रादि	वररुचि	१४४
हिमादि	चन्द्र०, गुणादि शा०, हे०	११०, १२३

विशेष—केवल प्राकृत सूत्रो मे पाये जाने वाले गणो को छोडकर, जिनकी रचना वररुचि ने प्रकृतभाषा के शब्दो की ही दृष्टि से किया था, अन्य सभी अर्वाचीन आचार्यों द्वारा निर्धारित यह तक कि पालिभाषा के वैय्याकरण मोगलान महाथेर द्वारा निर्धारित प्राय सभी उपरि निर्दिष्ट गण पाणिनि के उन २ प्रमगो के सूत्रो तथा तत्सम्बद्ध कात्यायन की वार्तिको के ही संक्षिप्त रूप हैं—यह निर्दिष्ट पृष्ठो के देखने से सर्वथा सुस्पष्ट हो जाता है ।

पाणिनीय गण जिनका नाम अर्वाचीन वैयाकरणों ने बदल दिया

पाणिनीय गण	परिवर्तित नाम	परिवर्तक आचार्य	पृष्ठ
अङ्गुल्यादि	गोण्यादि	शा०, हे०	११६
अनुप्रवचनादि	उत्थापनादि	चन्द्र०, शा०, हे०, व०	
अपूपादि	यूपादि	चन्द्र० मो०	१११, १२७
अर्शादि	अर्भादि	शा०, हे०	११६
अश्वपत्यादि	धनादि	शा०, हे०, व०	११८, १३४
आकर्षादि	अश्मादि	शा०, हे०	११६
आहितग्न्यादि	भ.योढादि	शा०, हे०	११८
इन्द्रजननादि	शिशुऋदादि	चन्द्र०, व०	१११, १३४
उक्थादि	न्याय दि	शा०, हे०	११८
ऋग्यजुर्दि	शिक्षादि	शा०, हे०	११८
ऋशुत्रादि	अञ्जनादि	चन्द्र०, शा०, हे०, व०	१११, ११६, १३४
कुमुदादि	अश्वात्थदि	शा०, हे०	११६
कुम्भपद्यादि	कुम्भादि	वोपदेव	१४२
गवादि	युगादि	शा०, हे०	११६
गौरादि	नदादि	वातन्त्रकार, नरेन्द्र, वोपदेव	१३८, १४०, १४२
तिन्दृग्नादि	निट्ठग्नादि	मोगलान महाश्वेर	१४५
द्वेषपद्यादि	अर्चादि	व०	१३४
पशादि	पथ्यादि	शा०, पथ्यादि-हे०	११८, ११६
पचादि	लिहादि	शा०, हे०	११८
पामादि	अद्गादि	शा०, हे०	११६

पाणिनीय गण	परिवर्तित नाम	परिवर्तक आचार्य	पृष्ठ
पारस्करादि	अवस्करादि	शा०, हे०	११६
पूरण्यादि	प्रियादि	वोपदेव	१४२
प्रादि	पादि	मोगलान महाथेर	१४५
प्रिय दि	स्वादि	भद्रेश्वर	१२६
बह्नादि	शोण्यादि	चन्द्र०, भो०, व०,	१११, १२७,
		वोपदेव, पद्वत्यादि	१३४, १४०,
		नरेन्द्र	१४२
ब्राह्मण्यादि	राजादि	शा०, हे०	११८
ब्रीह्यादि	तडिदादि	नरेन्द्र	१४०
मनोज्ञादि	चौरादि	शा०, हे०	११८
महिष्यादि	नरादि	शा०, हे०	११८
यवादि	ऊर्म्यादि	शा०, हे०	११६
लोहितादि	निद्रादि	शा०, हे०	११८
शुभ्रादि	अन्यादि	नरेन्द्र	१४०
सकाशादि	सुपथ्यादि	शा०, हे०	११८
सन्धिवेलादि	सन्ध्यादि	चन्द्र०, श० ह०,	१११, ११८,
		व०	१३४
सपत्न्यादि	समानादि	चन्द्र०, पत्न्यादि-	
		नरेन्द्र	१११, १४०
सर्वादि	स्वरादि	मोगलान महाथेर	१४५
सुपामादि	भीरुजानादि	शा०, हे०	११६
स्थूलादि	अण्वादि	शा०, हे०	११६
स्वागतादि	स्वङ्गादि	शा०, हे०, वोपदेव	११६, १४२

उद्धृत ग्रन्थकार

- १ अथर्वप्रातिशाख्यकार २१
 २ अनुभूतिस्वरूप १३८
 ३ अभयनन्दी ११३, १३०
 ४ अमोघवर्ष ११४
 ५ अरुणोदन १३०, १३१, १३३
 ६ आपिशलि १३, १५, १६, २५,
 २६, ५२, ५६, ७४, ७६, १४६
 ७ आड एम पावते ५३
 ८ इत्सिग १०८
 ९ इन्द्र ४, ७, १६, ६७, ११५
 १० ऋक्नन्त्रकार २०
 ११ ए मी वनेत १६, १७, ३७,
 ११५, ११६, ११७, १३६, १३७
 १२ एम के. डे ११२
 १३ एम के. वेल्वाल्कर ६२, १००,
 १०१, १०८, ११२, ११३, १२४,
 १३६, १४३
 १४ ओटो वोथलिक १६४, १६५
 १५ ओरत्रजि २०
 १६ वच्चायन १६, १४७
 १७ वसकृत्स्न १४६
 १८ वात्स्यायन १, १६-२१, ३६,
 ४६, ४७, ५६ ६०, ७३, ७६,
 ८०, ८२, ८३, ८६, ९०-९२,
 ९६-१००, १०६, १०८, १०९,
 ११५, ११७, १०१, १२७,
 १३१, १३२, १३७, १३९,
 १४१, १४०, १४५, १४६,
 १५४, १५५, १५८, १५९,
 १६०, १६२, १६५, १६७
 १९ काशकृत्स्न ८, १५, १६, २५,
 १४६
 २० काशिकाकार २६, ४८, ५४, ६१,
 ६५, ६८, ६९, ७०, ७६, ८२,
 ८३, ९१, ९८-१००, १०३,
 १०४, ११०, १५४, १५६, १६०
 १६२, १६६
 २१ काशीश्वर १४३
 २२ कीथ ६८
 २३ कीलहार्न ८२, ६६
 २४ कैयट १, १६, २६, ४८, ५८,
 ६६, ७६, ८२
 २५ क्रमदीश्वर १४३
 २६ क्षितीशचन्द्र चटर्जी १५, १०८
 २७ क्षीरस्वामी ३६, १०१, १०२,
 १२७
 २८ गणेश्वर १४३
 २९ गोन्डस्टकर २७, २६
 ३० चन्द्र या चन्द्रगोमी ४०, ४१,
 ७६, ८२, ८३, ९१, ९७, ९९,
 १००, १०६-११२, ११५,
 १२१, १२२, १२४, १२६,
 १२७, १३०, १३२-१३५,
 १४१, १४२, १४५, १५५,
 १५६, १६०, १६१, १६४,
 १६५, १६७

- ३१ चन्नवीरकवि ११, २५
 ३२ चाक्रवर्मण ३७, ३८
 ३३ चारायण ७
 ३४ छेदाध्यायी ६६
 ३५ जगदीश तर्कालंकार २४
 ३६ जयादित्य वामन १६७
 ३७ जननक १५१, १६८
 ३८ जिनेन्द्रबुद्धि वा न्यासकार १२,
 २६, ३२, ४८-५३, ६१, ८२,
 १०१, १६१
 ३९ जैनशाकटायन ६१, १०५, १२५,
 १३० १३३, १५६, १६४, १६५
 ४० तारानाथ ९ १६ १३६
 ४१ थेडोर आफ्रेट ७७, १८
 ४२ दुर्गमिह १३७
 ४३ दुर्गादास १४२
 ४४ देवनन्दी वा जैनेन्द्र ४०, १०६
 ११३ ११५ १०३, १२५,
 १६३, १६५
 ४५ द्रमिड वैयाकरण ३९, १३०
 ४६ वनञ्जय कोपकार ११३
 ४७ धातुवृत्तिकार ८२
 ४८ नरसिम्हैया १५
 ४९ नरेन्द्र वा सारस्वतव्याकरणकार
 ४०, १३८ १४०, १४२
 ५० नागेशभट्ट २७ २८ ४८ ६५,
 ८२, ८३, ९१, १०३ १५६
 ५१ नागेश्वरभट्ट २३
 ५२ न्यायपञ्चानन १४३
 ५३ पतञ्जलि वा महाभाष्यकार १, ३,
 १०, १७ २३, २६, ३१, ३६
 ४७, ४८ ५४, ५७-५९, ६६-
 ६९ ७३, ७९, ८२, ९२, ९७-
 १०० १०४, १११, ११५, ११७,
 १४९ १५४, १५६, १५८-१५९,
 १६०, १६५
 ५४ पद्मनाभदत्त १४३
 ५५ पाल्यकीर्ति ७ १०, ७१, १०६,
 ११४, ११६, ११७, ११९-१२४,
 १३०, १३५ १५६, १६४
 ५६ पारायणिक विद्वान् १००, १३०,
 १३४ १५६
 ५७ पुरुषोत्तमदेव १०२
 ५८ पूर्णचन्द्र १०४
 ५९ पौष्करसादि १४९
 ६० प्राचीन शाकटायन २० २१, २७,
 ३७, ११५-११७
 ६१ प्राचीन वृत्तिकार १०४
 ६२ बालमनोरमाकार ५८
 ६३ बूहनर ३७
 ६४ बृहस्पति ४
 ६५ बामदेव वा मुग्धवाचकार ११३
 १४१ १४२
 ६६ भट्टयज्ञेश्वर या यज्ञेश्वरभट्ट ७०,
 १०१, १०५ १६२ १६४
 ६७ भट्टोजी दीक्षित १९, ४८ ८२,
 १०३
 ६८ भट्टेश्वर वा भद्रसूरि ११९-१३१

६६ भर्तृहरि २, २६, ६८, ७६, १०८ ।	१०५, १०६, १२७, १२८ १३०,
७० भागुरि २३, २४	१३१, १३४-१३६, १५६,
७१ भामह १४४	१६२-१६५
७२ भारद्वाज २३	६४ वसुरात १०८
७३ भाषावृत्तिकार २४	६५ वामन १२८, १२९, १३०,
७४ भोज ४०, ६२, ७१, १०६, १२३,	१३३, १३५
१२५-१२८, १३०, १३३, १३५,	६६ वामुदेवशरण अग्रवाल ३०, ३३,
१५६, १६३-१६५	४१, १५०, १५२
७५ मध्यन्दिन १४६	६७ वृद्ध वैयाकरण ३८, १३०
७६ मल्लवादी १२८	६८ व्याकरणसिद्धान्तमुधानिप्रिकार
७७ मल्लिनाथ १०२	६५
७८ माधव वा धातुवृत्तिकार	६९ व्याडि १४६
१०१-१०४	१०० शबर स्वामी ६
७९ माध्यन्दिन १४६	१०१ शान्तनव १३, २८
८० मैकडानल २	१०२ श्रीभद्र १२६
८१ मैकममूलर २, २७-२९	१०३ श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती १०२
८२ मैत्रेय रचित १०१, १०३	१०४ श्लोकगणकार १०३
८३ मोगलान महाथेर १४४, १४६,	१०५ श्लोकवार्तिककार ८०, ८१, ६४,
१४७	६६
८४ यशवर्मा ११४	१०६ मुधाकर १०४
८५ यास्क १६	१०७ सूर्यकान्त २०
८६ युप्रिडिर मीमामक ८, २५, २८,	१०८ संहिताध्यायी ६६
११२ १२९	१०९ स्वन्दस्वामी २६
८७ रत्नमनि १३०	११० हरदत्त वा पदम-अरीकार २५,
८८ रमानान्त १४३	३२, ५४, ५७, ५८, ६१, ७७,
८९ रामचन्द्र १६१	८२, ६८, १०१, १५७
९० रामनर्क वागीश १४२	१११ हेमचन्द्र ४०, ६०, ६४, ७१,
९१ लीविग १०४, १०८, ११२	१०६, ११३, ११६-१२५, १२७
९२ वर्गचि १४४	१२८, १३०, १३३, १५६,
९३ वर्धमान ३८, ३९, ५७ ६०,	१६३, १६४, १६५
६४, ७१, ६७, १०२, १०३,	११२ हेनाराज १६

प्रमुख सहायक तथा उद्धृत पुस्तकें. पात्रिकायें तथा हस्तलेख

- अथर्व प्रातिशाख्य डा० सूयकांत शास्त्री सम्पादित ।
 अथर्व प्रातिशाख्य प० विश्वम्भु शास्त्री सम्पादित, पञ्जाब यूनिवर्सिटी १९२३ ।
 अष्टाध्यायी श्रीधर शास्त्री पाठक सम्पादित, पूना १९३२ ।
 आन दी ऐन्द्र स्कूल आफ सस्कृत ग्रमेरियन्स ए० सी० बर्नल मगलोर
 १८७५ ।
 इण्डियन एण्टिकरी अप्रैल १८२६ अप्रैल १८७५ तथा जनवरी १८८७ ।
 इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली जून १९३८ ।
 इण्डिया एज नोन टु पाणिनि डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, लखनऊ
 १९५३ ।
 इण्डियाज पास्ट ए० ए० मैक्डानल ।
 उणादिसूत्र श्रीधर शास्त्री पाठक सम्पादित पूना-१९३५ ।
 उणादिसूत्र उज्ज्वलदत्तवृत्ति धेडोर अप्रकृत सम्पादित, बान-१८५९ ।
 ऋतन्त्र डा० सूयकांत शास्त्री सम्पादित, लाहोर-१९३३ ।
 ऋतप्रातिशाख्य उष्व टका-डा० मगलेश्व शास्त्री सम्पादित-१९३१ ।
 ए हिस्टरी आफ एशियेट सस्कृत लिटरेचर मैक्समूलर अलाहाबाद ।
 कातन्त्र छन्द प्रक्रिया चन्द्रकान्त तर्कालकार सम्पादित, शरपुर-१८९६ ।
 कातन्त्र व्याकरण त्रिलोचन टीका कलकत्ता
 काशिकावृत्ति (१) प० बालशास्त्री सम्पादित, बनारस-१९२८ ।
 काशिकावृत्ति (२) हस्तलख-सरस्वती भट्टन, वाराणसी ।
 काशिकाविवरणपञ्जिका श्रीशचन्द्र चक्रवर्ता सम्पादित राजशाही बंगाल
 १९१९ ।
 काशिकृस्त व्याकरण और उसके उपलब्ध सूत्र प० युधिष्ठिर मिमांसक ।
 किरातार्जुनीय मल्लिनाथ टीका आर० सी० पी० शास्त्री सम्पादित बाम्ने
 १९३९ ।

१९० सं० व्या० मे गणपाठ की परम्परा और आचार्य पाणिनि

गणरत्न हस्तनेत्र-सरस्वती भवन, वाराणसी ।

गणरमहोद्धि जूलियस एगलिंग सम्पादित, लन्दन १८७६ ।

गणरत्नमहोद्धि (१) प० भीमसेन शर्मा सम्पादित, इटावा ।

गणरत्नावली भद्र यशश्वर ।

चान्द्रवृत्ति (१) (१-३ अध्याय) द्वितीशचन्द्र चण्डा सम्पादित ।

चान्द्रवृत्ति (२) डा० ब्रुनो लीविश सम्पादित ।

जैनेन्द्र व्याकरण महानन्दी टीका (हस्तनेत्र सरस्वती भवन वाराणसी) ।

जरनैल आफ रायल पेशियाटिक सोसाइटी (अर्ली हिस्ट्री आफ
गोत्र-जानब्रफ) १६४६ ।

ट्रेन्निंगल टर्म्स एण्ड टेक्नीक आफ संस्कृत ग्रामर प्रथम भाग चितीश-
चन्द्र चण्डा ।

तन्त्रवार्तिक कुमारिल भद्र ।

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (१) माहिषेय टीका, वी० वेंकराम शर्मा सम्पादित ।

तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य (२) त्रिभाष्यरत्नगीका । मैसूर संस्करण ।

तैत्तिरीय-संहिता भद्रमास्कर मिश्र वी व्याख्या, महादेव शास्त्री सम्पादित,
मैसूर-१८६४ ।

दी अर्ली ब्राह्मणिकल सिस्टम आफ गोत्र एण्ड प्रजर जानब्रफ, कैम्ब्रज
१६५३ ।

दी क्रिटिकल स्टडीज आफ कात्यायनज शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य
वी० वेंकराम शर्मा, मद्रास-१६३५ ।

दी वेदाज इन पाणिनि पालथीमे ।

दी स्ट्रुक्चर आफ अष्टाध्यायी आइ० एस० पायते, जाम्ब यूनिवर्सिटी ।

दुर्घटवृत्ति शरणदेव-टी. गणपति शास्त्री सम्पादित, त्रिनेद्रम-१६०४ ।

धातुप्रदीप मैत्रय-श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती सम्पादित, राजशाही-१६१६ ।

धातुवृत्ति माधव-अनन्त शास्त्री पङ्के सम्पादित, नरारम-१६३४ ।

नवद्विक (महामाष्य, प्रथम अध्याय, प्रथम पाद)-प्रदीप तथा उचोत
गीका-निणवसागर प्रस, बाम्बे ।

१२ प्रकाशन करते समय एगलिंग का संस्करण उपलब्ध न हो कारण
भीमसेन-संस्करण मे ही पृष्ठों का नूतनत्व किया गया है ।

- नामलिङ्गानुशासन (१) वन्द्यधरीय सरानन्द की टीकासंस्व के साथ-गी
गणपति शास्त्री-सम्पादित, त्रिवेन्द्रम-१९१४ ।
- नामलिङ्गानुशासन (२) भद्र क्षीरस्वामी की 'अमरकाशोद्धान' टीका के
साथ, डा० हरदत्त शर्मा तथा डा० एन० जी०
सर दसाई सम्पादित, पृना-१९४१ ।
- निरक्तवृत्ति दुर्गाचाय-एच० एम० भट्टकमकर सम्पादित, बाम्बे-१९१८ ।
- निरक्तवृत्तीका स्कन्द महेश्वर-डा० लक्ष्मणस्वरूप सम्पादित ।
- पद्मञ्जरी हरदत्तमिश्र-भरद्वाज दामोदर शास्त्री सम्पादित, काशी-१८९५ ।
- परिभाषेन्दुशेखर नागेशभट्ट-राजनारायण शास्त्री सम्पादित ।
- पाणिनिज ग्रामेटिश्चर रजलिन डा० श्रोगे मोटलिक बान-१८४० ।
- पाणिनि-द्विज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर डा० गोल्डस्ट्रुकर ।
- पाणिनीय गणपाठ (१) गोवधन
पाणिनीय गणपाठ (२) रामभृष्ण { हस्तनल,
पाणिनीय गणपाठ (३) मदादव { सरस्वती भवन,
पाणिनीय गणपाठ (४) मोरेश्वर लल वाराणसी ।
- पाली महा-याकरण भिन्नु जगदीश काश्यप ।
- प्रविश कौमुदी रामचन्द्र-विठ्ठल को प्रसाद टीका के साथ ।
- प्रक्रिया स्वग्रह (जैन शाक्यायन सम्प्रदाय) आचार्य चन्द्र ।
- प्राकृतसूत्र वररुचि-भामह की टीका के साथ ।
- प्रेन्टिकल संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी वी० एस० ब्राप्पे ।
- प्रौढमनोरमा भद्रोजी दीक्षित-लघुशन्दरल गीका के साथ ।
- फिट्सूत्र-शान्तनय श्रीधर शास्त्री पठक सम्पादित, पृना-१९३५ ।
- भागवृत्ति संकलनम् १० युधिष्ठिर मीमासक
- भारद्वाज शिक्षा नागेश्वर गीका रामचन्द्र दीक्षितार तथा पी० एस० सुदरन
अय्यर-सम्पादित पृना-१९३८ ।
- भाषावृत्ति पुरुषोत्तमदेव-श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती सम्पादित राजशाही-१९१८ ।
- महाभाष्य (सम्पूर्ण) गुरुप्रसाद सत्करण ।
- मुग्धबोध व्याकरण शेषदेव-दुगादास तथा रामतर्क वागीश की टीका के साथ
जोनानन्द विद्यासागर सम्पादित कलकत्ता १९०२ ।
- रघुवश मल्लिनाथ टीका ।
- लघुशब्दे-दुशेखर नागेशभट्ट-(पूर्वार्ध) नित्यानन्द पत्रतीय की टीका, सदा
शिव शास्त्री जोशी तथा रामचन्द्र शास्त्री सम्पादित, बनारस
१८९५ ।

१६२ स० व्या० मे गणपाठ की परम्परा और आचार्य पाणिनि

लघुशब्देन्दुशेखर नागेशभट्ट-(उत्तरार्ध) रामशास्त्री नारायण शास्त्री सम्पादित,
बनारस-१८५७ ।

वर्ड इण्डैक्स टु पाणिनिज सूत्रपाठ एण्ड परिशिष्टज श्रीधरशास्त्री पाठक
तथा सिद्धेश्वर शास्त्री द्वारा समाप्तात, पृना-१९३६ ।

वाचस्पत्यय भर्तृहरि-प्रथम काण्ड-रामलाल कपूर ट्रस्ट लाहौर, द्वितीय तृतीय
काण्ड-काशी ।

राजसनेय-प्रातिशाख्य बी० वैकराम शर्मा सम्पादित, मद्रास ।

वायु पुराण आन-दाश्रम पृता ।

व्याकरण दर्शनेर इतिहास गुरुपाद हालदार, कलकत्ता ।

व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि विश्वेश्वर शास्त्री, माधव शास्त्री भण्डारी
सम्पादित, बनारस-१९२४ ।

शब्दार्थन व्याकरण गुणनदी-सोमण्व की 'चन्द्रिका टीका क साथ ।

शब्दकौस्तुभ भट्टोजी दीक्षित,-५० गोपाल शास्त्री नने सम्पादित ।

शब्दकौस्तुभ भट्टोजी दीक्षित -५० विध्यवासिनीप्रसाद द्विवेदी सम्पादित,
बनारस १९१७ ।

शाकटायन शब्दानुशासन (१) यक्षर्मा की 'चितामणि' टीका क साथ ।
लाजरस प्रेस बनारस ।

शाकटायन व्याकरण (२) अमोघा वृत्ति हस्तनेत्र भारती ज्ञानपीठ काशी ।

शिशुपालवध मल्लिनाथ टीका, दुर्गाप्रसाद तथा शिवदत्त सम्पादित, बाम्बे १९१७

सरस्वतीकण्ठाभरण भोजनेव टी० आर० चि तामणि सम्पादित मद्रास
यूनिवर्सिटी-१९३७ ।

सरस्वतीकण्ठाभरण-हृदयहारिणी वृत्ति ट्रिगुण्डम सरस्वती सीरिज ।

संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास ५० युविष्टिर मीमांसक ।

सारस्वत व्याकरण (पृवाध)-चन्द्रकीर्ति टीका, वैकटेश्वर प्रेस, बाम्बे ।

सिद्धहेमचन्द्राभिधस्योपज्ञ शब्दानुशासन स्वकीयवृहद् वृत्ति के साथ ।

सिद्धान्तकौमुदी भट्टोजी दीक्षित 'जलमनोरमा' तथा 'तत्त्वबोधिनी' टीका क साथ

सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर एस० के० डेल्वाल्कर पृना-१९१४ ।

स्वसिद्धान्तचन्द्रिका श्री निवासयन्वा, शिवरामकृष्ण सम्पादित मद्रास १९३६

द्विस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर ए० बी० कीय, लन्दन-१९३० ।

संशोधन-पत्र

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६	१५	प्रस्तुत की है ।	इस पर टिप्पण — दी इण्डियन एण्टीकरी अप्रेल १८७७ पृष्ठ १०२, तथा उससे अगे ।
११	१८	शब्दरचना के पूर्व	शब्दरचना के विषय में
१३	४	पाणिनि तत्तद्गणसम्बद्ध	पाणिनि के तत्तद्गण सम्बद्ध
१८	८	शैत्यादि	शैत्यायनादि
१६	६	वत्सरादि	वत्सतरादि
१५	५	उद्भवृत हे । ^२	उद्भवृत हैं । ^१
२०	१६	गणमीयानो	गणमधीयानो
३६	३	इस में प्रसङ्ग	इस प्रसङ्ग में
३७	टि० ५	सर्वनामताम्पुपमात्	सर्वनामताम्पुपगमात्
४३	टि० १	अस्ति ह पाठो	अस्ति च पाठो
४५	३-६	प्रथम सूत्र में लोहिता दिगण का और द्वितीय तृतीय पठित कण्वादि गोमवनादि	प्रथम और द्वितीय सूत्र में लोहितादिगण और कण्वादि का तथा तृतीय पठित गोमवनादि
५३	२२ २३	सूत्रपाठ पाठ से पूर्व	सूत्रपाठ से पूर्व
५६	७	सूत्रो ^२ आपिगलि	सूत्रो ^२ तथा आपिशनि
५८	२१	प्राशेष	प्रशेष
६०	२६	दोऽपूर्णा वत या है ।	इस पर टिप्पण—यच्च व्याप्तिसिद्धौ सरलमुपाय मपश्यतानाकृतिगणवर्ण म् सुतरामपरिगृद्धि मनुशासनस्य दर्शयति । टेक्निक्ल टर्म एण्ड

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
			टेक्नोक आफ सस्कृत ग्रामर, पृष्ठ २६४ ।
७०	३०	हो जाते हैं ।	हो जाते हैं । सम्पा० ।
७६	१५	प्राग्घरितादिभ्यः इम'	प्राग्घरितादिभ्यः' इम
६६	१८	(महा० ४ । ३ । ५८)	(महा० ४ । ३ । ५६)
६७	१३	कुक्कुटादि'	कुक्कुटयादि
६६	टि० १	नामवानुपारायणादिषु	वानुनामपारायणादिषु
१०८	२३	किया है ।	किया है । सम्पा० ।
११२	टि०	३. द्र०	४. द्र०
"	"	४. द्र०	५. द्र०
१२०	टि० १०	शा० २ । १ । १४४	शा० २ । १ । ११४
१२४	२	तथा 'अनन्तावसथ०' सूत्र के लिए भेषजादिगण	इम अथ की पृष्ठ १२१, पं० १२ पर 'श्रितादिगण' के आगे पढे ।
"	४	पाणिनि के पुष्करादि तथा अजादि	पाणिनि के पुष्करादिगण को पुष्करादि तथा अजादि
१२७	६	जयादिगण	जपादिगण
१२८	टि० ७	विद्यन्तविद्यापराभिधे	विथ्रान्तविद्यापराभिधे
१३३	६	कल्पादि	कलाप्यादि
१४०	४	लोभादिगण	लोमादिगण
१४२	४	स्वङ्ग	स्वाङ्ग
"	५	स्वङ्गादि	स्वाङ्गादि
१४३	१२	की थी । ^१	की थी । ^१
१४६	४	तदिभिनादि	तदिभिनादि
१५१	२४	पार्षादि	पश्यादि
१५६	५	ग्रामाच्य	ग्रामाच्य
१५७	२६	परममर्षि कुण्डित्येतदेव	परमसर्षिः कुण्डित्येतदेव
१६१	६	मन्व्यादि	मन्व्यादि
१६३	१७	मुचवर्ण	मुचुवर्ण

प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान विक्रय विभाग

प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित तथा प्रसारित वाङ्मय

- १ सस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास (युधिष्ठिर मीमांसक) (भाग १) १०)
- २ ' ' ' ' ' ' (भाग २) १०)
- ३ वैदिक स्वर मीमांसा " " ३)
- ४ वैदिक छन्दोमीमांसा " " ४॥)
- ५ ऋग्वेद की ऋक्सूक्त्या ' " ॥)
- ६ मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् पर विचार " " १)
- ७ दुष्कृताय चरकाचार्यम् मन्त्र पर विचार " " १)
- ८ ऋग्वेद की ऋतिपय दानस्तुतियों पर विचार " " १)
- ९ आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान सस्कृत वाङ्मय ' " ॥)
- १० ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास ८)
- ११ ऋषि दयानन्द की पद प्रयोग शैली " १॥)
- १२ यजुर्वेदभाष्य-संग्रह (पञ्चाश शास्त्री परीक्षा में नियत) स० यु० मो ४)
- १३ शिक्षा सूत्राणि (आपिशलि पाणिनि चन्द्रगोमी) " " १)
- १४ क्षीरतरङ्गिणी (धातुपठ की क्षीरस्वामी कृत व्याख्या) " " १२)
- १५ सस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्य पाणिनि (श्री प० कपिल व एम० ए०) ८)
- १६ ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन ७)
- १७ यजुर्वेदभाष्य विवरण (प्रथम भाग) (श्री प० ब्रह्मदत्तजी विश्वसु) १६)
- १८ षडविद्या निदर्शन (श्री प० भगवद्दत्तजी) १८)
१९. भारतवर्ष का वृहद् इतिहास (प्रथम भाग) " ०)
२०. ' ' ' ' (द्वितीय भाग) " ०)
२१. भाषा का इतिहास " ५)
- २२ आयुर्वेद का इतिहास (श्री प० रामचन्द्र कविराज वी० ए०) ८)
२३. अष्टाध्यायी प्रकाशिका (श्री प० देवप्रकाश पातञ्जल) ८)

}
}
 प्राप्ति स्थान { ४६५३ रंगपुरा ५०
 करोन बाग नई दिल्ली ५ ।